3 राजधानी
लाल बत्ती जंप करने वालों की खैर नहीं

6 अभिमत
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का प्रयास

11 विदेश
हांगकांग में नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित

12 स्पोर्ट्स
शुरुआती मैच नहीं खेल पाएंगे सूर्य कुमार

RNI NO.DELHI/2012/48369
वर्ष 12 अंक 134
नई दिल्ली, बुधवार, 20 मार्च, 2024
पृष्ठ 12 मूल्य ₹ 3
नगर संस्करण

नई दिल्ली, लखनऊ, रायपुर और फरीदाबाद से प्रकाशित

पायनियर

www.dailypioneer.com

आठ नए मंत्रियों के साथ हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार
राष्ट्रीय-9

दिल्ली दुनिया में सबसे प्रदूषित

राजेश कुमार । नई दिल्ली

खराब होती वायु गुणवत्ता के कारण बढ़ती चिंताओं के बीच स्विस संगठन आईक्यू एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में कहा गया है कि भारत 134 देशों में से तीसरा सबसे प्रदूषित देश है, जिसमें बांग्लादेश (79.9) और पाकिस्तान (73.7) के बाद औसत वार्षिक पीएम 2.5 सांद्रता के साथ 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली एक बार फिर सबसे खराब वायु गुणवत्ता के साथ दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले प्रदूषित राजधानी के रूप में सामने आई है। जबकि बिहार का बेगुसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बनकर उभरा है। राष्ट्रीय राजधानी को 2018 से लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा मिला है, जबकि बेगूसराय को 2022 की रैंकिंग में जगह ही नहीं मिली थी।

2023 में भारत में हवा की गुणवत्ता पिछले वर्ष की तुलना में खराब हो गई है, जब औसत पीएम 2.5 स्तर 53.3 के साथ भारत सबसे प्रदूषित सूची में आठवें स्थान पर था। वार्षिक औसत पीएम 2.5 सांद्रता 2022 में 53.3 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की तुलना में 2023 में थोड़ा बढ़कर 54.4 पीएम 3 हो गई और भारत आठवें सबसे प्रदूषित देश के रूप में स्थान पर रहा। रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है और परिणाम जल्द ही दिखाई देंगे। उन्होंने कहा, मैंने रिपोर्ट का विवरण नहीं देखा है और मुझे नहीं पता कि इसमें किस समयावधि को शामिल किया गया है। 2014 के बाद से, पीएम10 और पीएम2.5 के स्तर का विश्लेषण किया गया है और उनमें लगातार गिरावट देखी गई है। 2022 में, औसत पीएम10 223 था और 2023 में यह घटकर 219 हो गया। पीएम2.5 का स्तर 2022 में 103 से बढ़कर 2023 में 106 हो गया। हम विभिन्न योजनाओं पर काम कर रहे हैं और परिणाम दिखेंगे।

रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दुनिया के सभी चार सबसे प्रदूषित देश एशियाई क्षेत्र में हैं। इनमें बांग्लादेश, भारत, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान शामिल हैं। इसके अलावा, यह क्षेत्र शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित वैश्विक शहरों का घर है। इसमें दिल्ली और लाहौर जैसे अत्यधिक आबादी वाले और ऐतिहासिक रूप से प्रदूषित शहर शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से नौ भारत में हैं, जिसमें पिछले साल के छह से अधिक शहर हैं। इस बीच, शीर्ष 50 में 42 शहर भारत के हैं जबकि पहले इस श्रेणी में 39 शहर थे। आश्चर्यजनक रूप से शीर्ष 100 में 83 शहर भारतीय हैं (पिछले दो वर्षों में 63 और 65 से अधिक)। 2022 में दिल्ली का पीएम 2.5 स्तर 89.1 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से बढ़कर 2023 में 92.7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया। इसके साथ यह पूरी सूची में 6वें स्थान पर रहा। दिलचस्प बात यह है कि 118.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की औसत पीएम 2.5 सांद्रता के साथ बेगुसराय वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित महानगर क्षेत्र के रूप में सामने आया है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर पूर्वी भारतीय राज्य बिहार का बेगुसराय है। इसका प्रदूषण स्तर औसतन 118.9 माइक्रोग्राम/घन मीटर रहा, जो सुरक्षित सीमा से 24 गुना अधिक है। सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश है जो 79.9 माइक्रोग्राम के साथ सुरक्षित सीमा से 15 गुना अधिक है।

रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी भारत और दिल्ली में फसल जलाने, वाहन उत्सर्जन, कोयला जलाने, अपशिष्ट जलाने, गर्मी और खाना पकाने के लिए बायोमास जलाने से निकलने वाले धुएं से जूझ रहे हैं। उत्तरी भारत और पड़ोसी पाकिस्तान में वार्षिक फसल जलाने के परिणामस्वरूप नियमित रूप से दिल्ली में वायु गुणवत्ता आपातकालीन स्तर तक अनुभव किया जा सकता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने नवंबर में दिल्ली के धुंध को साफ करने में मदद के लिए संभावित समाधान (शेष पेज 9)

सीएए पर रोक लगाने संबंधी आवेदनों पर तीन हफ्ते में जवाब दे केंद्रः सुप्रीम कोर्ट

पीटीआई। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र से नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के कार्यान्वयन पर रोक लगाने का आग्रह करने वाले आवेदनों पर तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा। हालाँकि, शीर्ष अदालत ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को प्रभावी बनाने वाले नियमों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने नागरिकता संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला होने तक नियमों के क्रियान्वयन पर रोक लगाए जाने का आग्रह किया था। वहीं, केंद्र ने अपनी ओर से कहा कि सीएए किसी की नागरिकता नहीं छीनता। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ से केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें 20 आवेदनों पर जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय चाहिए। न्यायालय ने इस पर केंद्र को नोटिस जारी करते हुए आवेदनों पर तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।

पीठ ने कहा, हम प्रथम दृष्ट्या कोई विचार व्यक्त नहीं कर रहे हैं...



हमें याचिकाकर्ताओं को सुनना है, हमें दूसरे पक्ष को सुनना है। मामले की अगली सुनवाई नौ अप्रैल को होगी।आवेदनों में आग्रह किया गया है कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का शीर्ष अदालत द्वारा निपटारा किए जाने तक संबंधित नियमों पर रोक लगाई जानी चाहिए।

संसद द्वारा विवादास्पद कानून पारित किए जाने के चार साल बाद केंद्र ने 11 मार्च को संबंधित नियमों को अधिसूचित करने के साथ नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। इस कानून में 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को तेजी से भारतीय नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि केंद्र को बयान देना चाहिए कि सुनवाई लंबित रहने तक किसी को भी नागरिकता नहीं दी जाएगी। पीठ ने कहा, वे हमें यह कहने के हकदार हैं कि हमें जवाब दाखिल करने के लिए थोड़ा समय दें। हम उन्हें आवेदनों पर जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय दे सकते हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, समस्या यह है कि अगर नागरिकता की कोई प्रक्रिया शुरू होती है और किसी को नागरिकता मिल जाती है, तो कई कारणों से इसे उलटना असंभव होगा और ये याचिकाएं निरर्थक हो जाएंगी। इसलिए, यह प्रक्रिया शुरू नहीं होनी चाहिए। जब एक वकील ने पूछा कि अगर बलूचिस्तान में प्रताड़ित कोई हिंदू व्यक्ति दिसंबर 2014 से पहले भारत आया है और उसे यहां नागरिकता दी जाती है, तो इससे किसी और के अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जयसिंह ने जवाब में कहा, क्योंकि उसे वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। पीठ के यह कहने पर कि मामले में अगली सुनवाई नौ अप्रैल को होगी, जयसिंह ने कहा, इस बीच, उन्हें बयान देने दीजिए कि वे किसी को नागरिकता नहीं देंगे।

भाजपा के किनारा करने के बाद पारस का केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने मंगलवार को केंद्र सरकार से इस्तीफा दे दिया और आरोप लगाया कि भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में सीट बंटवारे की बातचीत में शामिल नहीं करके उनकी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ नाइंसाफी कर रही है। पारस ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की। इससे एक दिन पहले ही भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने राज्य में अपने सीट-बंटवारा समझौते की घोषणा की थी और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोजपा (रामविलास) को पांच सीट देने का ऐलान किया था। पारस ने संवाददाता सम्मेलन में अपने इस्तीफे के बारे में संक्षिप्त बयान दिया, लेकिन अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में कुछ नहीं बताया।

प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल भाजपा के किसी सहयोगी दल के एकमात्र नेता पारस ने सीट-बंटवारे को लेकर नाखुशी जताने से पहले प्रधानमंत्री को बड़ा नेता बताते हुए उनका आभार जताया। पारस ने कहा कि उन्होंने ईमानदारी और निष्ठा के साथ राजग की सेवा की लेकिन उनके साथ नाइंसाफी हुई। उन्होंने कहा, मेरी पार्टी और खासतौर से मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। पारस की पार्टी के प्रवक्ता (शेष पेज 9)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से दोहराई भारत की प्रतिबद्धता

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

प्रधानमंत्री ने मंगलवार को आतंकवाद और समुद्री डकैतों से लड़ने और हिंद महासागर क्षेत्र में परिवहन (नेविगेशन) की स्वतंत्रता की रक्षा करने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रधानमंत्री का यह बयान 40 घंटे के लंबे ऑपरेशन में अपने देश के जहाज और बल्गेरियाई नागरिकों को बचाने के लिए भारतीय नौसेना के प्रति बल्गेरियाई राष्ट्रपति के आभार के जवाब में आया है। मोदी ने यह टिप्पणी बल्गेरिया के राष्ट्रपति रुमेन राडेव के एक संदेश के जवाब में की। राडेव ने अपने संदेश में सात बल्गेरियाई नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए आभार व्यक्त किया था। बल्गेरिया के राष्ट्रपति ने अपहृत बल्गेरियाई जहाज एमवी रुएन पर सफलतापूर्वक बचाव अभियान चलाने के लिए भारतीय नौसेना के प्रति आभार व्यक्त किया।

मोदी ने बल्गेरिया के राष्ट्रपति एक्स हैंडल को संबोधित करते हुए सराहना की और सात बल्गेरियाई नागरिक के सुरक्षित होने पर संतोष जताया। ये बल्गेरियाई नागरिक जल्द घर लौट आएंगे। प्रधान मंत्री ने एक्स पर पोस्ट एक संदेश में कहा, राष्ट्रपति रुमेन राडेव, आपके संदेश की सराहना करते हैं। हमें खुशी है कि 7 बल्गेरियाई नागरिक सुरक्षित हैं और जल्द ही घर लौट आएंगे। भारत नेविगेशन की स्वतंत्रता की रक्षा करने और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती और आतंकवाद से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले साल अरब सागर में आठ बल्गेरियाई, नौ म्यांमारी और एक अंगोलन नागरिक के साथ 'रूएन' जहाज को पिछले साल दिसंबर में समुद्री डाकुओं ने पकड़ लिया था। एक्स पर एक आधिकारिक पोस्ट में, बल्गेरियाई राष्ट्रपति ने कहा, अपहृत बुल्गारियाई जहाज 'रुएन' और 7 बल्गेरियाई नागरिकों सहित उसके चालक दल को बचाने के लिए नौसेना की बहादुरी भरी कार्रवाई के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को मेरा हार्दिक आभार। इस बीच, बल्गेरिया की विदेश मंत्री मारिया गेब्रियल ने शनिवार को एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि उन्होंने एमवी रुएन पर भारतीय नौसेना के ऑपरेशन के लिए बल्गेरिया में भारतीय राजदूत संजय राणा से बातचीत की और बल्गेरियाई नागरिकों को बचाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।

फेसबुक पर हालिया पोस्ट में बल्गेरिया की विदेश मंत्री मारिया गेब्रियल ने कहा, आज, 16 मार्च को भारतीय नौसेना की मदद से, 14 दिसंबर, 2023 को अपहृत जहाज 'रूएन' के चालक दल को रिहा कर दिया गया, जिसमें सात बल्गेरियाई नागरिक भी शामिल थे। उन्होंने कहा, भारतीय सेना के प्रयासों के लिए धन्यवाद, जहाज के पूरे चालक दल को मुक्त कर दिया गया। सभी नाविकों का स्वास्थ्य अच्छा है और बल्गेरिया में उनकी समय पर वापसी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। घटना के संबंध में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि आठ बल्गेरियाई, नौ म्यांमार और एक अंगोलन नागरिक के साथ जहाज 'रूएन' को पिछले साल दिसंबर में अरब सागर में समुद्री डाकुओं ने पकड़ लिया था। विदेश मंत्रालय, सभी सक्षम संस्थानों, क्षेत्र में बल्गेरिया गणराज्य के विदेशी प्रतिनिधित्व और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ निकट सहयोग में, बल्गेरियाई चालक दल को रिहा करने के प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल है। सोफिया में 16 मार्च को विदेश मंत्रालय ने भारतीय राजदूत संजय राणा के साथ भी बातचीत हुई और भारतीय पक्ष से चालक दल की रक्षा के लिए हर संभव कार्रवाई करने का अतिरिक्त अनुरोध किया गया। उन्होंने अपने बयान में कहा, मैं बल्गेरियाई नाविकों को रिहा करने की प्रक्रिया में भारतीय पक्ष की सहायता के लिए बेहद आभारी हूं।

ज्ञानवापी तहखाना मामले में 11 अप्रैल को कोर्ट करेगा सुनवाई

पीटीआई। वाराणसी

वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने के ऊपर मुस्लिम श्रद्धालुओं को जाने से रोकने के अनुरोध वाली हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई के लिए 11 अप्रैल की तारीख तय की है। अदालत ने हाल ही में तहखाने में हिंदुओं को पूजा की अनुमति दी थी। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि मुस्लिम पक्ष के सदस्यों ने मंगलवार को प्रभारी जिला न्यायाधीश अनिल कुमार की अदालत में कहा कि वे रमजान महीने के रोजे रख रहे हैं, इसलिए उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इसके बाद अदालत ने सुनवाई की तारीख 11 अप्रैल तय की है। हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि व्यास तहखाना के नाम से भी जाने जाने वाले तहखाने की छत काफी पुरानी और कमजोर है और इसके स्तंभों की मरम्मत की आवश्यकता है।नई याचिका दायर किए जाने से कुछ दिन पहले ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद के 'व्यास तहखाना' में हिंदू प्रार्थनाएं जारी रहेंगी। उच्च न्यायालय ने इस संबंध में जिला

अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की याचिका खारिज कर दी थी। यादव ने कहा था कि तहखाने के ऊपर मुस्लिम श्रद्धालुओं का घूमना या नमाज पढ़ना पुराने ढांचे के लिए अच्छा नहीं है, जिसकी मरम्मत की जानी चाहिए। जिला अदालत ने 31 जनवरी को फैसला सुनाया कि एक हिंदू पुजारी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में मूर्तियों के सामने प्रार्थना कर सकता है। अब पूजा-अर्चना काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा नामित एक हिंदू पुजारी और याचिकाकर्ता द्वारा की जा रही है। पुजारी ने दावा किया है कि उनके दादा दिसंबर 1993 तक तहखाने में पूजा करते थे।

पूर्व भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू भाजपा में शामिल

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। ऐसी संभावना है कि भाजपा उन्हें पंजाब के अमृतसर से लोकसभा चुनाव मैदान में उतार सकती है। पार्टी महासचिव विनोद तावड़े और तरुण चुघ की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।

भाजपा में शामिल होते हुए संधू ने भारत-अमेरिका संबंधों की प्रगति के बारे में बात की और कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग जैसे कई क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा को उनकी राजनीतिक पारी के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि यह विकास उनके गृहनगर अमृतसर तक भी पहुंचना चाहिए। भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध साझेदारी में विकसित हुए हैं जो दोनों के लिए जीत की स्थिति है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसका लाभ रोजगार के अवसरों और विकास के मामले में अमृतसर जैसे भारत के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचना चाहिए। तावड़े ने कहा कि भाजपा में सफल राजनयिक पृष्ठभूमि वाले संधू जैसे व्यक्ति की मौजूदगी पार्टी को मजबूत करेगी। भाजपा पंजाब में बहुसंख्यक सिखों के बीच अपना (शेष पेज 9)

मनमोहक फूलों की पंखुड़ियों से मनाएं होली का जश्न

अर्चना ज्योति। नई दिल्ली

होली खेलने वाले ध्यान दें! चूंकि रंगों के दंगों का त्योहार नजदीक है, इसलिए आपको फूलों की होली के आनंदमय उत्सव और उत्साह का अनुभव करने के लिए मथुरा के बांके बिहारी मंदिर या उत्तर प्रदेश के बरसाना और नंदगांव की यात्रा करने की योजना बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय राष्ट्रीय राजधानी के केंद्र द्वारका में इस्कॉन मंदिर में रंगों के त्योहार की जीवंत भावना में डूबने के लिए तैयार हो जाइए, जिसने मनमोहक फूलों की होली से लेकर उत्साही मटका फोड़ तक उत्सवों की एक आनंदमय श्रृंखला तैयार की है। लठ मार और मटका फोड़ होली, राधा और कृष्ण के बीच शाश्वत प्रेम का प्रतीक है। ये सभी परंपराएं 25 मार्च को एक छत के नीचे जीवंत हो रही हैं। इस प्रकार, इस शुभ अवसर से जुड़ी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं की झलक मिलेगी।

होली हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस साल होली होलिका दहन के एक दिन बाद 25 मार्च को मनाई जा रही है। इस्कॉन द्वारका के उपाध्यक्ष श्री गौर प्रभु ने पायनियर को बताया कि होली का बहुप्रतीक्षित त्योहार 25 मार्च को श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर में बहुत धूमधाम और गहरी भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, न केवल फूलों की होली, लट्ठमार होली, मटका फोड़ होली की कतार बनाई गई है बल्कि यहां कई रंगारंग

कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में भगवान के दर्शन करने और एक साथ होली मनाने आएंगे। उन्होंने कहा, इस्कॉन द्वारका में होली सिर्फ एक त्योहार नहीं है; यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। फूलों की होली रंगों की पारंपरिक फुहारों को सुगंधित फूलों के नाजुक नृत्य में बदल देगी, जो हवा को उनकी मीठी सुगंध से भर देगी। इसी तरह, राधा और कृष्ण के बीच शाश्वत बंधन का सम्मान करने के लिए भक्तों के एक साथ आने पर हंसी और खुशी के बीच लठ मार होली खेली जाएगी। और स्वादिष्ट व्यंजनों के बिना उत्सव कैसा? श्री गौर प्रभु ने आगे कहा कि पूरे दिन लाखों व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा, 250 किलोग्राम केक का भोग भगवान को लगाया जाएगा और भक्तों के बीच वितरित किया जाएगा। इस्कॉन द्वारका में होली बहुत ही सात्विक और सुंदर तरीके से मनाई जाएगी जिसमें भगवान श्री कृष्ण के आसपास हर्षोल्लास के साथ-साथ उत्सव भी मनाया जाएगा। श्री गौर प्रभु ने कहा, हम चाहते हैं कि सभी निवासी यहां मंदिर आएं और एक-दूसरे और भगवान के साथ फूलों से होली खेलें, विभिन्न उत्सवों में भाग लें, भावपूर्ण प्रसाद ग्रहण करें और दिव्य आनंद का अनुभव करें। दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 की निवासी अंजना कश्यप पहले से ही उत्साहित हैं और उन्होंने इस्कॉन मंदिर में मनाए जाने वाले उत्सव में शामिल होने की योजना बनाई है। (शेष पेज 9)

गाजियाबाद में फाइनेंस कंपनी ने करोड़ों ठगे

रोजाना 100 से दो हजार रुपए तक जमा करते थे लोग, तीन हिरासत में और मैनेजर फरार

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

गाजियाबाद में एक फाइनेंस बैंक कंपनी ने हजारों लोगों के एक करोड़ रुपए से ज्यादा ठग लिए। इसका पता तब चलाए जब रुपए लौटाने की बारी आई और फाइनेंस बैंक का मैनेजर फरार हो गया। पीड़ितों ने फाइनेंस बैंक के दफ्तर से लेकर थाने तक हंगामा किया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए कंपनी के तीन कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया है। आज भी बड़ी संख्या में पीड़ित लोग थाने पहुंचने वाले हैं। पीड़ितों में एक गगन कोहली भी हैं।

गगन ने बताया, गाजियाबाद के विजयनगर क्षेत्र स्थित प्रताप विहार में रॉयल फाइनेंस बैंक का ऑफिस है, जिसे मिनी बैंक भी कहते हैं। इस कंपनी ने एक स्कीम निकाली। स्कीम ये थी कि लोग 540 दिन तक 100 से 2000 रुपए तक अपनी बचत अनुसार जमा करेंगे।

540 दिन बाद उन्हें कुछ हजार रुपए बढ़ाकर पेमेंट लौटा दिया जाएगा। लोग इसके झांसे में आ गए और एक लंबी चेन बनती चली गई। फाइनेंस कंपनी ने भरोसा जमाने के लिए 540 दिन बाद पहला पेमेंट कर दिया। इससे लोगों का भरोसा बढ़ गया। दूसरी योजना में निवेश करने वालों की संख्या भी बढ़ गई। फाइनेंस कंपनी हर रोज अपने बाइकर्स लड़के निवेशकों के घर-दुकानों पर भेजकर वहां से पेमेंट उठवा लेती थी। लोगों की सोच ये थी कि रोजाना उनकी छोटी-छोटी कमाई एक जगह इकट्ठा हो रही है और बाद में एकमुश्त पैसा बढ़कर मिल जाएगा। गगन कोहली ने बताया, सोमवार शाम को कुछ निवेशकों का चेक के थ्रू पेमेंट होना था।

वे पेमेंट लेने के लिए पहुंचे तो पता चला कि फाइनेंस कंपनी का मैनेजर दफ्तर छोड़कर भाग चुका है। वहां पर तीन कर्मचारी बैठे हुए मिले। मैनेजर के भागने की सूचना पर सैकड़ों निवेशक इकट्ठा हो गए।

उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान विजयनगर थाने की पुलिस भी आ गई। पुलिस ने तीनों कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया है। पीड़ितों ने इस मामले में रॉयल फाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बैंक के मैनेजर विशाल उपाध्याय निवासी मोदीनगर और कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा थाना विजयनगर में दर्ज कराया है। इस पूरे प्रकरण में एसीपी प्रियांशी पाल ने बताया कि पीड़ितों की तरफसे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फाइनेंस बैंक के तीन कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

फाइनेंस कंपनी के बाहर लोग हंगामा करते हुए।

एक्सप्रेसवे पर पीछे से आ रही गाड़ी ने मारी टक्कर, दो की मौत

नोएडा। कोतवाली फेज-दो क्षेत्र में चार दिन पूर्व हुए सड़क हादसे में बाइक सवार सास और दामाद की मौत हो गई। दामाद की उसी समय मौत हो गई थी, जबकि सास ने उपचार दौरान दिल्ली में दम तोड़ा।

जितेंद्र ने दर्ज कराई एफआईआर में बताया कि चाची राजवती 16 मार्च को बाइक द्वारा नोएडा से ग्रेटर नोएडा जा रही थीं। बाइक को उनके दामाद धीरज सिंह निवासी गांव गाढ़ा चला रहे थे। जैसे ही वह सेक्टर-93 के सामने एक्सप्रेसवे पर उतरने वाले कट के पास पहुंचे तो पीछे से आ रही गाड़ी ने टक्कर मार दी। जिसमें धीरज सिंह और राजवती घायल हो गए। दोनों को अस्पताल ले जाया गया। जहां धीरज सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि राजवती का इलाज चल रहा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि जब वह चाची से मिले तो उन्होंने बताया कि पीछे से नीले रंग की गाड़ी आ रही थी। जिसने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

संक्षिप्त समाचार

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने शिकायत लेकर आये लोगों की समस्याओं को सुना।

किसानों की समस्याओं को लेकर दिया ज्ञापन

गाजियाबाद। भारतीय किसान यूनियन इंडिया ने विभिन्न समस्याओं को लेकर डीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन ने अपने ज्ञापन में बताया कि जलनिगम द्वारा भुगतान के नाम पर अवैध उगाही की जा रही है। वर्ष 2020.21 में किए गए कार्य का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, भुगतान की एवज में पैसा मांगा जा रहा है। संगठन ने कहा कि अगर आठ दिन के अन्दर इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो धरना दिया जाएगा। संगठन ने राजकीय चिकित्सालय मोदीनगर में सुविधाओं के अभाव को दूर करने की मांग की है। अस्पताल में एक्सरे की सुविधा अल्ट्रासाउंड व विशेषज्ञों डॉक्टरों की तैनाती की भी मांग संगठन ने की है। ज्ञापन देने वालों में गजेन्द्र मुदगल, राजू, प्रदीप वेहरा, मोहित बैंसला, सुरेन्द्र कुमार, सुमित आदि मौजूद रहे।

संभव दिवस नहीं लगा, खाली हाथ लौटे लोग

गाजियाबाद। आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के बाद कई तरह के प्रतिबंध लागू हो गए हैं। प्रत्येक मंगलवार को नगर निगम में संभव दिवस का आयोजन किया जाता है। मगर आज संभव दिवस नहीं लगाया जा सका। आचार संहिता के प्रावधान लागू होने के कारण संभव दिवस नहीं लगाया गया। जिस सभागार में संभव दिवस पर अधिकारी लोगों की समस्याएं सुना करते थे उस सभागार के गेट पर आज ताला लगा हुआ था। लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि आज संभव दिवस नहीं लगेगा। इसलिए लोग आज भी समस्या लेकर पहुंचे। मगर उन्हें निराशा हाथ लगी।

पौने दो लाख रुपये व 16 मोबाइल फोन बरामद

गाजियाबाद। एसीपी शालीमार गार्डन सिद्धार्थ गौतम के निर्देशन में टीला मोड़ थाने के एसएचओ राजकुमार गिरी की टीम ने दौरान चेकिंग मिली सूचना के बाद लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले गैंग के तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गये इन बदमाशों के पास लूट की वारदातों में प्रयुक्त की जाने वाली बाइक, पौने दो लाख रुपये व एक दर्जन से अधिक मोबाइल के सहित लाखों का माल बरामद हुआ। तीनों बदमाशों ने अपने नाम इमरान निवासी हर्ष विहार, जुबेर निवासी तुलसी निकेतन व तुषार निवासी शिवपुरी मोदीनगर बताये।

Karnataka Bank Ltd. 100
Your Family Bank. Across India.

क्षेत्रीय कार्यालय: दिल्ली
प्लॉट नं. 8-बी, प्रथम तल,
राजेंद्र पार्क, पूसा रोड
नई दिल्ली - 110060

फोन: 011-40591567 फैक्स: 011-40591567
ईमेल: del.ro@ktkbank.com
वेबसाइट: www.karnatakabank.com
सीआईएन: L85110KA1924PLC001128

नीलामी सूचना

निम्नलिखित व्यक्ति जिन्होंने सोने के आभूषणों को गिरवी रखकर ऋण लिया है, हमारे मांग नोटिस के बावजूद राशि का भुगतान नहीं किया है। इसलिए, कृपया ध्यान दें कि यदि मूलधन/ब्याज और अन्य शुल्कों का भुगतान 27-03-2024 को या उससे पहले नहीं किया जाता है, तो गिरवी रखी गई संपत्ति को बैंक के नियमों और विनियमों के अधीन, दिनांक 27-03-2024 को शालीमार बाग में सुबह 11 बजे बैंक परिसर में सार्वजनिक रूप से नीलाम किया जाएगा। बैंक बिना किसी पूर्व सूचना और कारण बताए नीलामी को किसी अन्य सुविधाजनक तारीख तक रद्द/स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

क्र. सं.	गोल्ड लोन खाता नं. और दिनांक	उधारकर्ता का नाम	देयता
1	5487002000054601 29-09-2023	प्रवीन त्रिपाठी	रुपये 5,28,944/- + ब्याज + प्रभार

स्थान : दिल्ली
दिनांक: 20.03.2024,
आदेश द्वारा
उप महाप्रबंधक

गाजियाबाद में कपड़े के गोदाम में लगी आग

गाजियाबाद। थाना नंदग्राम क्षेत्र में वेस्टिज कपड़े के गोदाम में आग लग गई। जिसमें पूरे जिले की पांच दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं।

आग बेहद भीषण थी दमकल कर्मियों ने करीब 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया। आग किन कारणों से लगी इसकी जांच की जा रही है। चीफ फायर ऑफिसर राहुल पाल ने बताया की फायर स्टेशन कोतवाली पर किशन लाल ने रात करीब 11:00 बजे सूचना दी की ।1 शाही एनक्लेव सिटी फॉरेस्ट के सामने वेस्टीज कपड़े के गोदाम में आग लग गई है।

जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन चलाएगा जागरूकता अभियान

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। मतदाता अधिक से अधिक संख्या में मतदान केन्द्रों तक पहुंचे इसके लिए इस बार बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाने की तैयारी की गई है।

स्कूल-कॉलेज से लेकर पेट्रोल पम्प व शॉपिंग मॉल्स में घूमने आने वालों को भी मतदान को लेकर जागरूक किया जाएगा। स्वीप कार्यक्रम के तहत हर आयोजन में मतदाताओं को वोट डालने की अपील करते अधिकारी नजर आ रहे हैं। इसके शॉपिंग माल्स प्रबंधकों को भी इस सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं कि वह मॉल में इस तरह के बैनर और वीडियो प्रसारित करें जिससे लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा सके। इसके अलावा राशन की दुकानों पर भी कार्ड धारकों से मतदान की अपील की जा रही है। पेट्रोल पम्प, सार्वजनिक स्थलों पर भी मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी भी लगातार हर अवसर पर लोगों को जागरूक करने में जुटे हैं। बता दें कि चुनावों में जिले में मतदान प्रतिशत अन्य जिलों से काफी कम है। ऐसे में इस बार अधिकारी मतदान प्रतिशत को बढाने में जुटे हुए हैं।

फॉर्म-जी
अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण
मैसर्स एचएन रीकॉन प्राइवेट लिमिटेड
पूर्व में मकान नं. 106, प्रथम तल (गिरि राज होटल के पास) सराय काले खां, नई दिल्ली-110013 के सर्विस क्षेत्र में संचालित
(दिवाला और शोधन अक्षमता (कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए के उप-विनियम(1) के अधीन)

प्रासंगिक विवरण		
1.	पैन/सीआईएन/एलएलपी संख्या के साथ कॉर्पोरेट देनदार का नाम	एचएन रीकॉन प्राइवेट लिमिटेड सीआईएन: U70101DL2004PTC124645 (इसके बाद इसे "सीडी" कहा गया)
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	(इसके बाद इसे "सीडी" कहा गया)
3.	वेबसाइट का यूआरएल	आरपी को उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ऐसा कोई यूआरएल नहीं है
4.	उस स्थान का विवरण जहां अचल संपत्तियों का बहुमत स्थित है	वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए ऑडिटेड तुलन पत्र के अनुसार, कंपनी के पास कोई संपत्ति नहीं है
5.	कॉर्पोरेट देनदार के मुख्य उत्पादों/सेवाओं की स्थापित क्षमता	वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए ऑडिटेड तुलन पत्र के अनुसार, कंपनी के पास कोई व्यवसाय नहीं है
6.	पिछले वित्तीय वर्ष में बेचे गए मुख्य उत्पादों/सेवाओं की मात्रा और मूल्य	वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए ऑडिटेड तुलन पत्र के अनुसार, कंपनी के पास कोई व्यवसाय नहीं है
7.	कर्मचारियों/वर्कमैन की संख्या	आरपी को उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ऐसा कोई कर्मचारी/वर्कमैन नहीं है।
8.	दो वर्षों के अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरणों (अनुसूचियों के साथ), लेनदारों की सूची, प्रक्रिया की बाद की घटनाओं हेतु प्रासंगिक तिथियां सहित अधिक विवरण यहां उपलब्ध हैं:-	विवरण hnreaconcirp@gmail.com csprassan@gmail.com पर ईमेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता है:
9.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत समाधान आवेदकों के लिए पात्रता यहां यूआरएल पर उपलब्ध है:	विवरण hnreaconcirp@gmail.com, csprassan@gmail.com पर ईमेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता है:
10.	रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि	4 अप्रैल, 2024
11.	संभावित संकल्प आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	14 अप्रैल 2024
12.	अनंतिम सूची पर आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	19 अप्रैल, 2024
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तारीख	29 अप्रैल 2024
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स और समाधान योजनाओं के लिए अनुरोध जारी करने की तारीख	19 अप्रैल, 2024
15.	समाधान योजना प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	19 मई, 2024
16.	रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए ईमेल आईडी प्रक्रिया	hnreaconcirp@gmail.com csprassan@gmail.com

टिप्पणी - उपर्युक्त समय-सीमा माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के साथ समाधान पेशेवर द्वारा दायर सीआरपी प्रक्रिया को 90 दिनों तक बढ़ाने के आवेदन के अनुमोदन के अधीन है।

दिनांक 20.03.2024
स्थान: दिल्ली

हस्ता/-
प्रसन्न नवीन कुमार सिन्हा
समाधान पेशेवर
एचएन रीकॉन प्राइवेट लिमिटेड
समाधान पेशेवर का पत्राचार पता
एफ-242बी, तीसरी मंजिल, मंगल बाजार के पास, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली - 110092
ईमेल: hnreaconcirp@gmail.com, csprassan@gmail.com

ICICI Bank
शाखा कार्यालय: आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंजिल, शाल टावर, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, दिल्ली- 110005

सार्वजनिक सूचना - संरक्षित संपत्ति की बिक्री हेतु निविदा-सह-ई-नीलामी
[नियम 8 (6) का परंतुक देखें]
अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु सूचना

अचल संपत्तियों के विक्रय के लिए ई-नीलामी विक्रय सूचना वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुन: निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत सहपठित प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन नियमावली, 2002 की धारा 8(6) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी की गई है।
सर्वजन तथा व्यक्तिगत रूप से कर्ज़दार एवं ज़मानतदार को इस सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे दर्शाई गई अचल संपत्ति के संरक्षित ऋणदाता केपास बंधक/ अधिभारित है। उनका **भौतिक अधिग्रहण** आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (संरक्षित ऋणदाता) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कर लिया गया है एवं दर्शाए विवरण अनुसार उनके द्वारा "जहाँ है जैसी है", "जैसी है वैसी है" एवं "जिस भी स्थिति में है" के आधार पर अचल संपत्ति के विक्रय के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं :-

क्र. सं.	कर्ज़दार (रों)/ सह-कर्ज़दारों/ ज़मानतदारों के नाम/ ऋण खाता संख्या	प्रत्याभूत आस्ति का विवरण, ऋणभारों सहित, यदि कोई है	बकाया राशि (रु. में)	सुरक्षित मूल्य (रु. में) / धरोहर राशि जमा (रु. में)	सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)
1.	जीडी ट्रेडर्स (कर्ज़दार),अमित कुमार (सह-कर्ज़दार/ ज़मानतदार/ बंधककर्ता),आशा कुमार (ज़मानतदार), सुमित कुमार (बंधककता) ऋण खाता संख्या 125755000015, और 125705000933	ए- 43, खसरा नंबर 805/5, गाँव बिसिखर मारूफ मोहल्ला, ओम साईंसंतपुरा, मोदी नगर, उत्तर प्रदेश- 201204/ क्षेत्रफल- 75.25 वर्ग मीटर, संपत्ति का प्रकार-आवासीय मकान	रु. 58,46,070/- (मार्च 13, 2024 तक)	रु. 29,70, 000/- / रु. 2,97,000/-	अप्रैल 15, 2024 को सु. 11:00 बजे से दो. 01:00 बजे तक	मई 01, 2024 को सु. 11:00 बजे से दो. 12:00 बजे तक

ऑनलाइन नीलामी हमारी ई-नीलामी संस्था **मेसर्स नेक्सजेन सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड** की, वेबसाइट **(URL Link- https://disposalhub.com)** पर संचालित होगी। बंधककर्ताओं/ सूचना प्रेषितकर्ताओं को **अप्रैल 30, 2024** को **शाम 05.00** बजे से पूर्व तक कुल बकाया राशि उस पर आगे ब्याज सहित भुगतान करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर संरक्षित सम्पत्तियों की बिक्री निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी।
संभावित बोलीकर्ता (बोलीकर्ताओं) को बयाना राशि (ईएमडी) डिमाण्ड ड्राफ्ट (डीडी) (सारणी **ई** संदर्भ) जो **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंजिल, शाल टावर, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, दिल्ली- 110005** में **अप्रैल 30, 2024** को **शाम 05.00** बजे से पूर्व जमा करना अनिवार्य है एवं इसके पश्चात् वे अपना प्रस्ताव उपरोक्त वर्णित वेबसाइट के माध्यम से ईएमडी के भुगतान साक्ष्य अर्थात बैंक डीडी पावती की स्कैन इमेज, **अप्रैल 30, 2024** तक **शाम 05.00** बजे से पूर्व जमा करें। कृपया नोट करें कि संभावित बोलीकर्ता (बोलीकर्ताओं) वेबसाइट के माध्यम से उनके प्रस्ताव को जमा कराने में विफल रहने पर वे **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंजिल, शाल टावर, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, दिल्ली- 110005** में निविदा प्रलेखों की हस्ताक्षरित प्रति को **अप्रैल 30, 2024** को **शाम 05.00** बजे से पूर्व तक जमा करवा सकते हैं। बयाना राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर किसी भी राष्ट्रीयकृत/ शैडूल्ड बैंक द्वारा **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड** की **दिल्ली** शाखा के पक्ष में भुगतान हेतु होना चाहिए।
सम्पत्ति अवलोकन, ई-नीलामी के नियम एवं शर्तों तथा निविदा प्रक्रिया के संदर्भ में स्पष्टीकरण हेतु कृपया **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड** को फोन नंबर **8928935040/8584874809** पर संपर्क करें।
कृपया नोट करें कि मार्केटिंग एजेंसियाँ **1. नेक्सजेन साल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 2. ऑगियो एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, 3. हेक्टा प्रॉपटेक प्राइवेट लिमिटेड** इस सम्पत्ति की बिक्री में सुगमता हेतु सलंग्न हैं।
प्राधिकृत अधिकारी बिना किसी कारण दर्शाए किसी एक अथवा अधिक निविदा व बोली को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों हेतु कृपया वेबसाइट **www.icicibank.com/n4p4s** पर संपर्क करे।

तिथि : मार्च 20, 2024
स्थान : दिल्ली/एनसीआर
प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

हाईसिक्योरिटी सेल में एल्विश, जमानत पर नहीं हो पाई सुनवाई

नोएडा। यूटयूबर और बिग बॉस फेम एल्विश यादव को ग्रेटर नोएडा स्थित लुक्सर जेल की हाई सिक्योरिटी बैरिक में शिफ्ट कर दिया गया है। उधर मंगलवार को सूरजपुर स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय गौतमबुद्धनगर में वकीलों की हड़ताल के कारण एल्विश यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई। अब कल एल्विश की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।

यूथ आइकॉन के रूप में जाने वाले मशहूर यूट्यूबर और एल्विश यादव को रेव पार्टियों में सांपों के जहर के इस्तेमाल के आरोप में नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एल्विश यादव पर पुलिस ने एनडीपीएस 8, 20, 27, 27ए, 29, 30, 32 धाराएं लगाई हैं। कानून के जानकार कहते कि इन धाराओं से एल्विश को सबसे ज्यादा परेशान हो सकती है। क्योंकि एनडीपीएस एक्ट गैरजमानती है और अगर वह दोषी पाया जाता है तो इसमें कम से कम दस साल की सजा है।

झपटमारों और पुलिस में मुठभेड़, एक को लगी गोली

नोएडा। नोएडा में नोएडा पुलिस बदमाशों के खिलाफलगतार कार्रवाई कर रही है। इसी के चलते नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में नोएडा पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। दरअसल नोएडा जोन के सेक्टर 20 कोतवाली पुलिस डीएलएफ मॉल के पास चेंकिग कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर सवार 2 लोगों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। लेकिन बाइक सवार बदमाशों भागने की नियत से बाइक को और तेज दौड़ा दिया। बदमाशों ने पीछा कर रही पुलिस टीम पर फायरिग कर दी।

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली गलने से वह घायल हो गया। साथ ही पुलिस ने उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाशों से की गई पूछताछ सामने आया है कि दोनों बदमाश दिल्ली एनसीआर में चेन स्नेचिंग और लूटपाट की वारदातों को अंजाम दिया करते थे।

दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
(सीआईएन L74899DL1956GOI002674)
जवाहर व्यापार भवन, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001
वेबसाइट : www.stclimited.co.in

ई- निविदा आमंत्रण सूचना

एस.टी.सी. केवल ई-निविदा के माध्यम से एस.टी.सी. के मुख्यालय, नई दिल्ली में सम्पति कर सलाहकार के रूप में नियुक्ति के लिए इच्छुक एजेंसियों/फर्म/एकमात्र स्वामी से बिड/बोलियां आमन्त्रित करता है। विस्तृत जानकारी के लिए एस.टी.सी. वेबसाइट www.stclimited.co.in तथा www.eprocure.gov.in/eprocure/app देखें.

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल मौ० यासीन पुत्र मौ० सिदीक पता मकान नं० 536, गली नं० 6, संगम विहार, वजीराबाद, बुराडी, नॉर्थ दिल्ली-110084 ने अपने पुत्रों मौ० हारून, मौ० फारुख, मौ० तरून, मौ० इकबाल, मौ० सलीम एवं पुत्री रेशमा को उनके गलत आचरण, दुर्व्यवहार एवं नियंत्रण में ना होने के कारण उनका अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल करके उनसे अपने सभी पारिवारिक, सामाजिक सम्बन्ध विच्छेद कर लिये है। यदि काई व्यक्ति मेरे मुवक्किला के पुत्रों मौ० हारून, मौ० फारुख, मौ० तरून, मौ० इकबाल, मौ० सलीम एवं पुत्री रेशमा से किसी प्रकार का लेन-देन करेगा तो अपने जोखिम पर करेगे इसमें मेरे मुवक्किल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ASHUTOSH DIXIT, ADVOCATE

PUBLIC NOTICE

IN THE PUBLIC TRUST REGISTRATION OFFICE
THANE REGION THANE
Ram Maruti Road, Opp. Gajanan Maharaj Temple., Thane -400602
PUBLIC NOTICE OF INQUIRY
C.R. No. ACC/02/142/2019
In the Matter of "SRI MA EDUCATION TRUST"
Address: Sri Ma Vidyanagari,, Near Hiranandani Estate, Off. Ghodbunder Road, Patlipada, Thane -400607.
Registration No:• E/1295/THANE
Applicant- C. R. Upendra Rao {Trustee)

To
All concerned have interest.
WHEREAS in the above application for registration under section 22 of the Maharashtra Public Trust Atl.1950 an inquiry is to be made under section 22 of the said act, on the following points by Assistant Charity Commissioner, Thane region. Thane.
Whether any of the following properties are the properties of such Trust?

IMMOVABLE PROPRTY:
All lhe. piece of demised land known as plot no. T-48, New Palam Vihar, Area 1, Kanai 13, Maria (1000sq Yards) (72ft•12Stt), comprised In khewat No.194 Khatoni No.272, Rectangle No.67, KillaNo.17/6(1-0) and Khewat no. 201, Khewat No.279, Rectangle No.67, Killa No.18/3 (0.13), Total field 2, total area Measuring 1 Kanal13 Marla, salam (1000 sqYards) situated in the revenue estate vikkagechauma, tehsil & Dist. Gurugram {Haryana) India Or thereabouts and bounded as ronows, that is to say:
1. Oo or towards the East by-Plot No.T'"41
2. On or towards the West by- Road 30 Ft wide
3. On or towards the North by-Plot No.T-49
4. On or towards the South By- Plot No. T-47
Cost of property-1,70,00,000/·
Cost in words- One Crore Seventy Lakh Only..

This is to call upon you to submit your objections, tt any, In the matter before the Assistant Charity Commissioner, Thane Region, Thane at the above address within 30 days from the date of publication of this notice.

Given under my hand and seal of the Hon'ble Deputy Charity commissioner, Thane Region, Thane.
This : 20-03-2024

Sd/-
Superindent
Public Trust Registration of Thane
Thane Region

PUBLIC NOTICE

IN THE PUBLIC TRUST REGISTRATION OFFICE
THANE REGION THANE
Ram Maruti Road, Opp. Gajanan Maharaj Temple, Thane - 400602
PUBLIC NOTICE OF INQUIRY
C.R.NO. ACC/02/143/2019
In the Matter of "SRI MA EDUCATION TRUST"
Address: Sri Ma Vidyanagari, Near Hiranandani Estate, Off. Ghodbunder Road, Patlipada, Thane-400607.
Registration No:- E/1295/THANE
Applicant- C. R. Upendra Rao {Trustee)

To
All concerned have interest.
WHEREAS in the above application for registration under section 22 of the Maharashtra Public Trust Act. 1950 an inquiry is to be made under section 22 of the said act, on the following points by Assistant Charity Commissioner, Thane region. Thane.
Whether any of the following properties are the properties of such Trust?

IMMOVABLE PROPRTY:
All the piece of demised land known as Residential plot comprised in khewat/khata no 195/273 Rect. No 67 Killa no 17/3 (1-13), field 1 measuring 1 kanal 13 marla upto the extent of 148/287 share which comes to 0 Kanal 16 Marla 4 Sarsai and Khewat/Khata no 990/1121 rect. No 67 killa no 24(8-0), field 1 measuring 8 kanal 0 Marla upto the extent of 202/1440 share which comes to 1 kanal 2 marla 4 sarsai & khewat/ Khata no 189/267 rect. No 67 killa no 17/4(0-18), field 1 measuring 0 kanal 18 Marla Salam thus total area of above khewat is 2 Kanal 16 Marla 8 India Or thereabouts and bounded as follows, that is to say:
1. On or towards the East by Road 30Ft. Wide
2. On or towards the West by-Plot No.T-47 & T-48Min
3. On or towards the North by -Plot No. T-41
4. On or towards the South By Plot NO. T-43 Cost of property-Rs. 1,95,00,000/-
Cost in words-One crore ninety-five lakh only.

This is to call upon you to submit your objections, if any, in the matter before the Assistant Charity Commissioner, Thane Region, Thane at the above address within 30 days from the date of publication of this notice.

Given under my hand and seal of the Hon'ble Deputy Charity commissioner, Thane Region, Thane.
This : 20-03-2024

Sd/-
Superindent
Public Trust Registration of Thane
Thane Region

PUBLIC NOTICE

To be known to all that I, Mohammad Tauqeer S/o Mohd Syeed Kazmi email tauqeerkazmi970@gmail.com, R/o 12 D, LIG, DDA, New Jafrabad, Shahdara, Delhi original property allotment letter, possession letter, site possession slip, NOC for water and electricity and other related documents of DDA Flat No. 12 D, LIG, 3rd Floor, Pocket-B, New Jafrabad, Shahadara, Delhi has been lost. An FIR to this effect has been logged online vide regard No. LR No.-1528513/2024 dated 09 March 2024. Any person(s) claiming any right, any having objection or found in possession of the original documents may wright/contact the above named person at the above address within 15 days of date of publication of this notice. Contact Deputy Director (LAB) Housing, LIG, D-Block, III Floor, DDA Vikas Sadan, INA, New Delhi.

PUBLIC NOTICE
Property No. HP 35, Maurya Enclave, Pitampura, Delhi

That our client **Inderjeet Kaur**, proposes to purchases the above said property from **Anita Aggarwal and Bela Aggarwal**, who has assured our client that they are absolute owner(s) in possession of the above said property by virtue of Two Relinquishment Deed No.8247, 8201 dated 22.05.23, consequent upon death of Raghubir Prasad who was owner of said property vide Conveyance deed No.6161 dated 29.06.93 who died intestate on 05.09.16 leaving behind **Anita Aggarwal, Bela Aggarwal, Deepika Aggarwal, Neha Aggarwal, Parag Aggarwal, and Pushkal Aggarwal as** the only class I legal heirs of Late Raghubir Prasad.

Under the circumstances, notice is hereby given to the General Public, Bank/Financial institutions or other person/s, organization/s, company/ies, government authority/ies, having any claim, rights, title, or any interest of any nature whatsoever into or upon the said property, is hereby called upon to make the same known, in writing with documentary evidence by registered AD Post to the undersigned at the address mentioned hereinbelow within **07** days of the publication of this notice and in the event no response having been received to the notice, the title of **Anita Aggarwal and Bela Aggarwal** to the said property shall be deemed to be clear of any claim, charge or encumbrance of any nature whatsoever and any subsequent claim shall not bind our client in any manner whatsoever.

Kumar Abhishek
Advocate
9811377525, • mail:-lanoida2@gmail.com
Legal Access
132A, Anarkali Complex, Jhandewalan Ext. New Delhi

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि श्रीमती आशु पत्नी श्री तिलक राज ने ग्रागः चंद्रावली ज्वाला नगर की आबादी में, गली नंबर 4, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110032, में स्थित फ्रीहोल्ड संपत्ति सं. 196, पुराना नंबर 28/2ई/5 पर निर्मित, भूखंड क्षेत्रफल 71.06 वर्ग मीटर यानी 85 वर्ग गज, के मालिक हैं जीपीए, एटीएस और वसीयत दिनांक 07.08.2009, पंजीकरण सं. 7302, पुस्तक नंबर 4, दिनांक 07.08.2009 को पंजीकृत है। और इसे इच्छुक उधारकर्ता/श्री सतवीर को बेच रहे हैं और उक्त संपत्ति को **एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड** के पास गिरवी रख रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संपत्ति में कोई प्रभार/हित/स्वामित्व है या किसी भी प्रकार का विवाद है, तो कृपया अधोहस्ताक्षरी को नीचे दिए गए पते पर लिखित रुप में वर्तमान से 07 दिनों के भीतर सूचित करें। **श्रीमती प्रसून लता,अधिवक्ता**
एसजी एसोसिएट्स (लॉ फर्म)
एफएफ18, लोटस पॉन्ड प्लाजा, वैभव खंड, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, यूपी
ईमेल:sgassociatespl@gmail.com,फोन:7011172764, 8130200837

PUBLIC NOTICE
Dated:20.03.2024

Notice is given on behalf of my client **Mrs. Uma Parkash,** wife of Late Shri Ved Parkash is the absolute / lawful owner and in exclusive possession of entire **First Floor of property bearing no. E-32, consisting of two store rooms under stairways of 1st floor and 2nd floor, situated at Lajpat Nagar-III, New Delhi-110024** which is free from all encumbrances, charges, lien, mortgages etc.
It is also to inform that the Original Conveyance Deed executed by the President of India, through Land & Development Office in favour of **Mr. Vijay Kumar Mehra & Krishan kumar sons of Late Shri Ram Swaroop Mehra in respect of the entire property, duly regd. As Document No. 8107, on 26.05.2005, i**n the office of the Sub-Registrar-V, New Delhi, is **misplaced / lost and is not traceable** and a report in this regard had also been lodged with the Police Station, Crime Branch, Delhi, bearing **SO No. 430/2014 Delhi Police and LR No. 1134872/2023, dated 14.11.2023.**
Any person(s), Association, Company, Firm, Bank, Financial Institution and any Legal Entity finding the same is requested to return the same to the undersigned or if any person(s) having any sort of right, claim, title or interest in the subject property under or on the basis of the said lost/misplaced original document or otherwise, may put forth his/her/its claim to the undersigned within 15 (fifteen) days from the publication of this notice and thereafter no claim shall be entertained, in future.

(ARVIND KUMAR GUPTA)
Advocate
Y-1, L.G.F., Hauz Khas,
New Delhi 110016
(M) 9811088800
(M) 9899061365

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **श्री संतोष कुमार**, संपत्ति संख्या ए-112, पुराना नंबर सी-489, एरिया परिमाप 48 वर्ग गज यानी 40.148 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 11, ग्राम शालामार, ग्राम हैदरपुर, दिल्ली के पुराने लाल डोरा में स्थित बिना छत अधिकार के संपूर्ण द्वितीय तल, **श्रीमती दिव्या अग्रवाल** से खरीद रहे हैं। जो बिक्री विलेख दिनांक 22.09.2017, दस्तावेज नंबर 11733, सब-रजिस्ट्रार, VIA, दिल्ली में 25.09.2017 को पंजीकृत के आधार पर उपरोक्त संपत्ति के मालिक हैं, और इसे **उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड** के पास वित्तीय सहायता के बदले गिरवी रखा हैं। बैंक/एनबीएफसी की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए, हम यह सार्वजनिक सूचना देते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संपत्ति पर किसी भी प्रकार का दावा/अधिकार/स्वामित्व/हित/बंधक बनाने में कोई आपत्ति है तो वह आज से 7 दिनों के भीतर अपनी आपत्तियों के बारे में नीचे दिए गए पते पर लिखित रुप में सूचित कर सकता है। ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि उक्त संपत्ति सभी प्रकार के भार, ग्रहणाधिकार आदि से मुक्त है। **लुसेम लीगल एलएलपी**
प्लॉट नंबर 136, (बेसमेंट) उदय पार्क, नई दिल्ली-110049, संपर्क # 011-40046316

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि श्रीमती पूनम गोयल (उर्फ श्रीमती पूनम गोयल) पत्नी श्री दीप गोयल **'आवासीय संपत्ति प्लॉट नंबर 17 पर निर्मित संपूर्ण भूतल, ब्लॉक-जेड (आमतौर पर जेड-17 के रूप में जाना जाता है),** ग्राम खरेरा रेवेन्यू एस्टेट, हौज खास, नई दिल्ली के कब्जा का 'स्वामित्व धारक' है। जिसका क्षेत्रफल 250.00 वर्ग गज है' इसके बाद 'अनुसूची संपत्ति' के रूप में संदर्भित किया गया है। बिक्री विलेख दिनांक 18.01.2005, पंजीकरण संख्या 833, पुस्तक सं.1, 18.01.2005 को उप रजिस्ट्रार-V, महरौली, नई दिल्ली के कार्यालय में विधिवत पंजीकृत है। जिसका मूल दस्तावेज यानी (i) बिक्री विलेख दिनांक 19.01.1958 (ii) श्री राम धन दास के मृत्यु प्रमाण पत्र, (iii) एम.सी.डी. द्वारा जारी उत्परिवर्तन पत्र दिनांक 18.07.2003, (iv)बोर्ड संकल्प दिनांक 05.11.2003, (v) बिक्री विलेख दिनांक 07.11.2003, (vi) निर्माण हेतु स्वीकृति पत्र दिनांक 23.12.2003 और (vii) अनुसूची प्लॉट/संपत्ति के लिए बोर्ड संकल्प दिनांक 09.09.2004, खो गई हैं/गुम हो गए है और आज की तारीख में अप्राप्य है। जिसके एवज में सूचना रिपोर्ट दिनांक 15.03.2024 एलआर नंबर 1549380/2024 दिल्ली पुलिस में भर दी गई है। इसलिए, यह आम जनता को बड़े पैमाने पर सूचित किया जाता है, यानी किसी भी व्यक्ति, कंपनी, प्राधिकरण, सोसायटी, संगठन, वित्तीय संस्थान, बैंक, एचयूएफ आदि, उपर्युक्त खोए हुए/गुम हुए/अप्राप्त मूल दस्तावेजों के बारे में कोई जानकारी, अभिरक्षा या कब्ज़ा होना या अन्यथा स्वामित्व, उत्तराधिकार, विरासत, बिक्री के माध्यम से अनुसूची संपत्ति में कोई दावा, अधिकार, शीर्षक, हित, कब्ज़ा आदि, बंधक (आईसीआईसीआई बैंक को छोड़कर), विनिमय, शुल्क, ग्रहणाधिकार, उपहार, ट्रस्ट, भार आदि या शीर्षक धारक द्वारा अनुसूची संपत्ति की बिक्री पर आपत्ति, सहायक दस्तावेजों के साथ आगे आ सकते हैं, जिन्हें इस प्रकाशन की दिनांक से 10 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को सौंप दिया जाना चाहिए, जिसकी समाप्ति के बाद, कोई भी दावा या आपत्ति, यदि उठाया या प्राप्त किया जाता है, तो उसे अमान्य शून्य माना जाएगा और माफ कर दिया जाएगा। और स्वामित्व धारक आगे बढ़ेगा अनुसूची संपत्ति को बेचने के लिए, जैसा कि वर्तमान में इरादा है। प्रवेश कुमार (अधिवक्ता)
कार्यालय का पताः 27, बेसमेंट, श्रेष्ठ विहार, दिल्ली-92
चैंबर का पताः 363, साकेत कैंट, नई दिल्ली
मोबाइल नंबरः 9999228185

कांग्रेस का प्रत्याशियों पर मंथन जारी

तीन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करने में अभी और समय लग सकता है

● पार्टी नेताओं का मानना है कि मतदान में दो माह से भी अधिक समय, इतने लंबे समय तक चुनाव प्रचार करना मुश्किल

संजय राय। नई दिल्ली

लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने मैदान में अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस अभी ऐसा नहीं करेगी। रणनीति के तहत पार्टी अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा और टाल सकती है। मंगलवार को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी राजधानी को लेकर कोई निर्णय नहीं किया गया।

कांग्रेस पहली बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। आप से गठबंधन में उसे तीन और आप को चार सीटें मिली हैं। आप अपने हिस्से की चारों सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा सबसे पहले कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशियों के नाम भी तय नहीं किए हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पहले उम्मीदवारों के नाम इसलिए तय और घोषित नहीं हुए क्योंकि प्रदेश इकाई की स्क्रीनिंग कमेटी ने सीईसी को हर सीट पर तीन तीन नाम भेजा था। इस पर सीईसी ने स्क्रीनिंग कमेटी को अपने स्तर पर ही एक एक नाम तय करके भेजने को कहा।

राजधानी दिल्ली में मतदान छठें चरण में 25 मई को होना है। यानी अभी दो महीने से भी अधिक समय है। ऐसे में पार्टी अब दिल्ली को लेकर थोड़ी आश्वस्त हो गई है। वरिष्ठ पार्टी नेताओं का कहना है कि इतने लंबे समय तक प्रचार कर पाना किसी भी उम्मीदवार के लिए संभव नहीं हो पाता। उसका खर्चा भी बहुत बढ़ जाता है। इसलिए अभी कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारने में समय लगा सकती है। यानी की उम्मीदवारों की घोषणा में अभी कम से कम दो सप्ताह लग सकता है।

सूत्रों का कहना है कि अगर राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल के नेतृत्व वाली प्रदेश कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी एवं प्रदेश नेतृत्व की चली तो सीईसी उत्तर पूर्वी दिल्ली से पूर्व सांसद संदीप दीक्षित, चांदनी चौकसे पूर्व सांसद जयप्रकाश अग्रवाल और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान के नाम पर मुहर लगा सकती है। और अगर आलाकमान के निर्देश पर सीईसी ने हस्तक्षेप किया तो तीनों जगह बदलाव हो सकता है। उस स्थिति में उत्तर पश्मिी दिल्ली से पूर्व सांसद उदित राज, चांदनी चौक से पूर्व विधायक अलका लांबा और उत्तर पूर्वी दिल्ली से पैराशूट उम्मीदवार को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है।

प्रेस वार्ता में कांग्रेस अध्यक्ष अरविन्दर लवली भाजपा उम्मीदवारों के सौ दिनों की कार्य योजना पर सवाल उठाते हुए।

भाजपा सांसदों के खिलाफ कांग्रेस लाएगी आरोपपत्र : लवली

नई दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविन्दर सिंह लवली ने लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों के सौ दिनों की कार्य योजना पर सवाल उठाए हैं। लवली ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा के सांसदों ने क्या योगदान किया, यह बताने की बजाय चुनाव जीतने के बाद अगले 100 दिनों में वे क्या करेंगे उसकी चर्चा करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सभी संसदीय क्षेत्रों की प्रतिज्ञा रैली में लोगों से लगातार कहा था कि भाजपा सांसदों ने 10 वर्षों में कुछ नहीं किया और आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा अपने उम्मीदवार बदल देगी, जो दिल्ली वासियों के सामने है। अरविन्दर सिंह लवली ने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस भाजपा के सातों सांसदों की नाकामियों के खिलाफ आरोप पत्र जारी करेगी, क्योंकि भाजपा सांसदों ने दिल्ली के विकास और लोगों के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया जिसको प्रदेश कांग्रेस जनता के बीच उजागर करेगी।

समन के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे केजरीवाल

● न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और मनोज जैन की पीठ बुधवार को करेगी सुनवाई

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। इस बीच केजरीवाल ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी किए गए 9 समन के खिलाफ चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। मामले में न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और मनोज जैन की पीठ की पीठ बुधवार को सुनवाई करेगी। प्रवर्तन निदेशाल द्वारा जारी नौवें समन में उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। केजरीवाल ने इन समन को अवैध बताते हुए उनके जवाब में पेश होने से इनकार कर दिया है। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2021-22 में नई आबकारी नीति का मसौदा तैयार दिया था। जिससे बाद में रद्द कर दिया था। इस दौरान उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश के बाद, सीबीआई ने कथित भ्रष्टाचार पर एक प्राथमिकी दर्ज की, जिसके परिणामस्वरूप धन शोधन की जांच हुई। जांच एजेंसियों ने दावा किया है कि शराब नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं। शराब नीति मामले में ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में केजरीवाल के नाम का कई बार जिक्र किया गया है। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि आरोपी आबाकारी नीति तैयार करने के लिए केजरीवाल के संपर्क में थे, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अनुचित लाभ हुआ, जिसके बदले में उन्होंने आम आदमी पार्टी को रिश्वत दी। दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन मामले में पिछले आठ समन में से छह समन पर पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ दायर दो शिकायतों पर शनिवार को केजरीवाल को जमानत दे दी थी।

उधर, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के एक्शन पर कोई स्थगना आदेश नहीं लगाया है और इससे यह स्पष्ट हो गया है कि केजरीवाल प्रथम दृष्टया दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी जमानत को राहत न समझे। अब अरविंद केजरीवाल भी जमानत पर चल रहे सोनिया गांधी और राहुल गांधी की लीग में शामिल हो गए हैं।

हजारों करोड़ों का शराब घोटाला अब 100 करोड़ पर आ गया है : भारद्वाज

● बोले, जो विपक्षी नेता सत्ता के लिए खतरा बनते जा रहे हैं उनको पकड़ कर जेल में डाला जा रहा है

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

आम आदमी पार्टी के नेता ने दावा किया है कि प्रवर्तन निदेशालय बार बार समन भेजने के बावजूद जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं कर पाई तो अब सीबीआई से गिरफ्तार कराने की साजिश रची जा रही है।

ईडी द्वारा शराब नीति घोटाले में केजरीवाल पर 100 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार करने के आरोप का प्रेस नोट जारी करने पर आम आदमी पार्टी ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ों का तथाकथित शराब घोटाला अब 100 करोड़ पर आ गया है।

इस संबंध में भी ईडी आज तक एक पैसे के लेनदेन का कोई सबूत पेश नहीं कर पाई है। सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में उच्चतम न्यायालय के 30 अक्टूबर 2023 के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा, कि इस आदेश में न्यायाधीश ने साफ तौर पर इस बात को कहा है, कि ईडी द्वारा 100 करोड रुपए के लेनदेन का आरोप केवल एक बहस का विषय है और इस संबंध में ईडी की ओर से कोई भी तथ्य या साक्ष्य कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

केजरीवाल पर शिकंजा कसता देख आप नेता बौखलाए: सचदेवा



नई दिल्ली। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है पर कि मुख्यमंत्री केजरीवाल पर कानून का शिकंजा कसता देख आम आदमी पार्टी नेता इतना बौखला गये हैं कि वे यह भी भूल गये हैं कि जांच एजेंसी हर हाई प्रोफाइल केस की महत्वपूर्ण तारिख पर बयान जारी करती है। जांच एजेंसियां ईडी एवं सीबीआई लगातार शराब घोटाले के साथ ही जलबोर्ड आदि मामलों की जांच कर रही हैं और पहले भी मामले की कानूनी प्रगति पर बोलती रही हैं। वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि जब शराब घोटाले की जांच में बड़ी प्रगति हुई तो जांच एजेन्सी ने के कविता के बयान के आधार प्रेस वक्तव्य जारी कर स्पष्ट किया कि अब इस केस में बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है।

सोशल मीडिया कंटेंट पर नजर रखेंगे नोडल अधिकारी

● लोक सभा चुनाव के दौरान आपत्तिजनक संदेश पर नजर रखेगी दिल्ली पुलिस

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस ने लोकसभा चुनाव के दौरान एसएमएस या सोशल मीडिया मंचों के जरिए आपत्तिजनक संदेश फैलने से रोकने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने और शिकायत के लिए एक नंबर व ईमेल एड्रेस जारी करने समेत कुछ कदम उठाए हैं।

पुलिस विभाग ने यहां जारी एक नोटिस में कहा कि संयुक्त पुलिस आयुक्त बी.एस. जायसवाल को लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान एसएमएस या विभिन्न सोशल मीडिया मंचों के जरिए आपत्तिजनक संदेश फैलाने संबंधी मामलों से निपटने के लिए नोडल अधिकारी (सोशल मीडिया निगरानी एवं साइबर क्राइम) नियुक्त किया गया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि पुलिस ने एक नंबर 8130099025 और एक ई-मेल भी जारी किया है, जहां लोग सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री से संबंधित मामलों की शिकायत कर सकते हैं।

नोटिस में कहा गया है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ऐसे संदेशों में चुनाव कानूनों, आदर्श आचार संहिता और (निर्वाचन) आयोग द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करके चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने की क्षमता होती है। नोटिस में ऐसे आपत्तिजनक संदेशों का सामना करने वाले व्यक्तियों से तुरंत नोडल अधिकारी जायसवाल के समक्ष शिकायत देने का आग्रह किया गया है।

एमसीडी ने 60 हजार पोस्टर बैनर और होर्डिंग हटाए

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने के मद्देनजर अपने सभी 12 क्षेत्रों से कुल 60,587 पोस्टर , बैनर , होर्डिंग और छोटे बोर्ड हटा दिए हैं।

नगर निकाय ने अपने शहादरा उत्तरी क्षेत्र से सबसे अधिक 12,143 पोस्टर हटाए हैं। इसके बाद शहादरा दक्षिण क्षेत्र से 11,680 और दक्षिण क्षेत्र से 4,359 पोस्टर हटाए गए। चुनाव आयोग ने शनिवार को 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी, जिसके तुरंत बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गई जो चुनाव परिणाम घोषित होने तक लागू रहेगी। क्षेत्रवार समेकित रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने रविवार तक अपने 12 क्षेत्रों से कुल 44,550 पोस्टर, 7,117 होर्डिंग, 4,939 बैनर और 3,981 छोटे बोर्ड हटा दिए। चुनाव कार्यालय के नियमों के अनुसार, सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार के पोस्टर, होर्डिंग या बैनर , जो किसी राजनीतिक दल या नेता का प्रचार करते हों, को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के 24 घंटे के भीतर हटाना होगा।

अनियमितता बरतने के आरोप में कर अधिकारी बर्खास्त

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

● सरकारी खजाने को 14 करोड़ रुपये के नुकसान पहुंचाने का आरोप साबित

व्यापार एवं कर विभाग के वार्ड नंबर 41 के जीएसटीओ मनोज कौशिक को सक्षम प्राधिकारी (मुख्य सचिव) ने बर्खास्त कर दिया है। मनोज कौशिक को 26.07.2021 से 13.10.2021 के बीच घोर अनियमितता व कदाचार का दोषी पाया गया। इस अवधि के दौरान मनोज कौशिक ने लाभार्थियों को विभिन्न अवैध रिफंड आदेश जारी करने और सरकारी खजाने को 14 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया है।

रिकार्ड से पता चला है कि अधिकारी ने अवैध रूप से रुपये के 122 रिफंड आदेश जारी करने के लिए जिम्मेदार है। अधिकारी ने डीलरों की साख की पुष्टि किए बिना 02 महीने की छोटी अवधि में 9.68 करोड़ (लगभग)अवैध रूप से रुपये के रिफंड आदेशों को मंजूरी दे दी। रिफंड लागू करने की उसी तारीख को 2.24 करोड़ (लगभग) और शेष रुपये गैर-मौजूदा फर्मों को 05 दिनों की छोटी अवधि के भीतर 7.44 करोड़ (लगभग) स्वीकृत किए गए। गैर-मौजूदा और गैर-पता लगाने योग्य पाए गए डीलरों को 4.11 करोड़ (लगभग) दिए गए। अधिकारी ने आवेदन के उसी दिन वार्ड-103 से सत्यापन के बिना 05 फर्मों के माइग्रेशन को मंजूरी दे दी और 05 फर्मों को वार्ड-41 में 98.54 लाख (लगभग) रुपये की राशि का रिफंड जारी किया। अधिकारी ने वार्ड-103 से 41 में स्थानांतरण के संशोधित आवेदन को बिना प्रमाण-पत्र सत्यापित किए अवैध रूप से स्वीकृत कर दिया। अधिकारी ने बिना किसी उचित सत्यापन के कई अन्य डीलरों को रिफंड जारी कर दिया।

विस्तृत जांच के बाद, यह साबित हुआ कि जीएसटीओ मनोज कौशिक इस कदाचार में शामिल हैं।

अंबेडकर मेडिकल कॉलेज यौन उत्पीड़न मामला

कार्रवाई नहीं होने से पीड़ितों की पीड़ा बढ़ी : विजेंद्र गुप्ता

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

● विधायक ने एलजी को पत्र लिखकर आरोपी प्रोफेसर को बर्खास्त करने की मांग की

रोहिणी के डॉ बाबा भीमराव अम्बेडकर अस्पताल एंड मेडिकल कॉलेज में एक प्रोफेसर पर एमबीबीएस छात्राओं के यौन उत्पीड़न का मामला तुल पकड़ लिया है। मामले में स्थानीय विधायक विजेंद्र गुप्ता ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर आरोपी प्रोफेसर की बर्खास्तगी और कॉलेज कमेटी के पुनर्गठन की मांग की है।

उन्होंने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा मौन रहने और समय पर कार्रवाई नहीं करने से पीड़ितों और उनके परिवारों की पीड़ा बढ़ी है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह घटना न केवल छात्रों के अधिकारों और सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन है, बल्कि अपराधी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने में संस्थान और दिल्ली सरकार की विफलता भी विफलता है। गुप्ता ने एलजी कार्यालय के सामने कई मांगें रखी हैं, जिसमें सहायक प्रोफेसर को जांच पूरी होने तक उनके पद से निलंबित किया जाए ताकि छात्राओं को आगे किसी भी प्रकार की धमकी या उत्पीड़न से बचाया जा सके। छात्राओं के कल्याण के लिए जिम्मेदार मेडिकल कॉलेज समिति अपने कर्तव्यों में विफल रही है और इसे भंग किया जाना चाहिए। मेडिकल कॉलेज समिति के सदस्यों को यौन उत्पीड़न की शिकायतों के संभालने में उनकी लापरवाही के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। कॉलेज के सभी स्टाफ सदस्यों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जानी चाहिए ताकि एक सुरक्षित शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। परीक्षाओं के दौरान छात्राओं की गरिमा और आराम की रक्षा के लिए, एक महिला प्रोफेसर को नियुक्ति किया जाना चाहिए। कॉलेज को पीड़ितों को सुरक्षित वातावरण मुहैया कराना चाहिए। ज्ञात हो कि मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस ने शरजील की जमानत का किया विरोध

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने उत्तर पूर्वी हिस्से में 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगे के सिलसिले में गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत गिरफ्तार छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम की जमानत अर्जी का मंगलवार को उच्च न्यायालय में विरोध किया।

पुलिस ने इमाम, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के संस्थापक खालिद सैफी और उमर खालिद सहित कई अन्य लोगों पर फरवरी 2020 के सांप्रदायिक दंगे का कथित मास्टरमाइंड होने पर आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी यूएपीए और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे में 53 लोग मारे गए थे।

इंडियन लीजेंड अवार्ड से 30 लोग सम्मानित

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

भारती विद्यापीठ विश्वविद्यालय दिल्ली में जी-एस.आई.एल. एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा आयोजित इंडियन लेजेंड अवार्ड्स 2024 का 9वां सफल और प्रतिष्ठित कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल इस अवसर पर सेलिब्रिटी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। इस कार्यक्रम में देश के 30 दिग्गजों को इंडियन लीजेंड अवार्ड से सम्मानित किया गया ।

दीप प्रज्ज्वलन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर स्वामी चक्रपाणि महाराज (अध्यक्ष - राष्ट्रीय अखिल हिंदू महासभा) और विशिष्ट अतिथियों के तौर पर मेजर जनरल सेवानिवृत्त प्रमोद कुमार सहगल, पद्मश्री जीतेंद्र सिंह शंटी, योगी प्रियव्रत अनिमेष, महंत के. एल शर्मा, डॉ. संदीप मारवाह और प्रोफेसर एम.एन होडा, अलका शर्मा, नरेन् वशिष्ठ (एस्ट्रोलॉजर) ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा दी। बॉलीवुड गायक अशोक मस्ती, प्रसिद्ध गायक एम.डी. देसी रॉकस्टार, अभिनेत्री शिवानी शर्मा, मशहूर हरियाणवी गायक विकास कुमार और अभिषेक खंडेलवाल, तमाशा म्यूजिक कंपनी के निदेशक एवं निर्माता नीरज जैन ने मनमोहक प्रस्तुतियां दीं।

यातायात पुलिस की सख्ती: लाल बत्ती जंप करने वालों की खैर नहीं

● प्रमुख सड़कों और जंक्शनों पर 3डी रडार-आधारित रेड-लाइट वॉयलेशन डिटेक्शन सिस्टम लगाए

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

यातायात नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं। ट्रैफिक पुलिस शहर में लालबत्ती की अनदेखी और दुर्घनाओं को रोकने के लिए अब तकनीक का सहारा लेगी।

पुलिस का कहना है कि वाहन चालकों के यातायात नियमों का उल्लंघन करने से पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों समेत खुद वाहन चालकों का जीवन को खतरे में डाला जाता है। साथ ही ट्रैफिक जाम की भी समस्या उत्पन्न होती है। इसके मद्देनजर यातायात पुलिस ने आरोपियों पर नकेल कसने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के मकसद से एक मुहिम शुरू किया है। यातायात पुलिस का कहना है कि इस अभियान खास बात यह है कि लाल बत्ती जंप करने की घटनाओं की प्रभावी ढंग से निगरानी करने और आरोपियों की पहचान करने के लिए प्रमुख चौराहों और दुर्घटना संभावित स्थानों पर निगरानी तंत्र को मजबूत किया है। त्वरित प्रतिक्रिया और यातायात नियमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक स्थानों पर अतिरिक्त कर्मियों को तैनात किया गया है। ये अधिकारी उल्लंघन करने वालों को तुरंत दंडित करने के लिए आवश्यक आधुनिक उपकरणों से लैस रहेंगे। इस पहल को व्यापक जन जागरूकता अभियानों द्वारा पूरक बनाया गया है जिसका उद्देश्य मोटर चालकों को लाल बत्ती जंप करने से जुड़े खतरों के बारे में शिक्षित करना है। सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित विभिन्न चैनलों के माध्यम से, ट्रैफिक पुलिस जिम्मेदार ड्राइविंग की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सूचनात्मक संदेश प्रसारित कर रही है।

तकनीकी का लाभ उठाते हुए यातायात पुलिस प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नवीन समाधान तलाश रही है। इसमें यातायात उल्लंघनों की सुव्यवस्थित रिपोर्टिंग और प्रबंधन के लिए सीसीटीवी कैमरे, स्वचालित निगरानी प्रणाली और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग शामिल है यातायात पुलिस ने पूरे शहर की प्रमुख सड़कों और जंक्शनों पर 3डी रडार-आधारित रेड-लाइट वॉयलेशन डिटेक्शन सिस्टम (आरएलवीडी) स्थापित किया है। यह रेड-लाइट डिटेक्शन सिस्टम का उपयोग करके नागरिकों के लिए सड़क सुरक्षा का बढ़ावा देने और अनुशासन सुनिश्चित करना है। यह रास्ते में लाल बत्ती पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का पता लगाता है और बिना किसी मानवीय संपर्क के मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत ई-चालान के लिए नियंत्रण कक्ष को विवरण भेजता है।

इन प्रणालियों का उद्देश्य उल्लंघनकर्ताओं पर चौबीसों घंटे निगरानी कर केस चलाना है, क्योंकि हर जगह और चौबीस घंटे पुलिस कर्मियों का तैनात रहना मुश्किल है। यातायात पुलिस के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में, आरएलवीडी कैमरों का उपयोग करने वाले प्रवर्तन प्रयासों के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में चालान काटा गया। जिसमें निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर 59,937 नोटिस जारी किए गए। हालाँकि, अगले वर्ष, 2023 में, आरएलवीडी अभियोजनों में काफी कमी देखी गई। केवल 21,089 नोटिस जारी किए गए। निर्धारित समय सीमा के भीतर 69,296 नोटिस जारी किए जाने के साथ एक महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है।

मोबाइल टावर के उपकरण चोरी करने वाले 15 पकड़े

● आरोपियों से 15 पावर बैटरी, रेडियो यूनिट आदि बरामद

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

अपराध शाखा मोबाइल टावरों से आरआरयू, बीबीयू और संबंधित सहायक उपकरण चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए।

15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी मोबाइल टावर उपकरणों की चोरी बिक्री खरीद में शामिल रहे हैं। इन लोगों के कब्जे से मोबाइल टावर के उपकरणों में 15 पावर बैटरी, 20 बंडल केबल, 2 आरएसपी, रेडियो यूनिट आदि बरामद किए गए हैं। जब्त सामान की कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये है।

आरोपियों की गिरफ्तारी से दिल्ली एनसीआर में मोबाइल टावर उपकरणों से सामान की चोरी के 63 मामलों का खुलासा हुआ है। अधिकारी ने अपनी शिकायत में बताया उपकरण चोरी किये जा रहे हैं। उपकरण चोरी होने के कारण ग्राहकों को कॉल करने और इंटरनेट सेवाओं के इस्तेमाल में परेशानी होती है।

लिंग संवेदीकरण विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन

फरीदाबाद। प्राचार्या डॉ. रुचिरा खुल्लर के कुशल मार्गदर्शन एवं महिला प्रकोष्ठ की संयोजिका डॉ. चारू मिड्ढा के कुशल मार्गदर्शन में महाविद्यालय के महिला प्रकोष्ठ के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में लिंग संवेदीकरण विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। डॉ. नीनू सैनी, डॉ. उमा शेखावत और डॉ. ललिता चौधरी ने छात्रों को इन संवेदनशील विषयों को संबोधित करने में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। बीस से अधिक छात्रों ने अपने दृष्टिकोण और अंतर्दृष्टि का प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता में सक्रिय रूप से भाग लिया। शीर्ष तीन स्थान प्राची (प्रथम), विकेश (द्वितीय), और आकाश (तीसरे) ने हासिल किये। विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए गए।

श्री शीतला माता के चैत्र मेले में श्रद्धालुओं को मतदान के प्रति किया जाएगा जागरुक

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

गुरुग्राम के श्री शीतला माता मंदिर में 26 मार्च से 23 अप्रैल तक होगा चैत्र मेला

लोकसभा चुनावों में अधिक से अधिक लोग मतदान करें, इसके लिए गुरुग्राम जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। देश में लोकसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है। इसी बीच यहां श्री शीतला माता मंदिर में आगामी 26 मार्च से 23 अप्रैल तक चैत्र मेला आयोजित किया जा रहा है।

यहां आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को इस लोकतंत्र के पर्व को लेकर जागरुक किया जाएगा। जागरुकता के लिए मेले में मतदाता जागरुकता के बोर्ड भी लगवाए जाएं। श्री शीतला माता मंदिर में चैत्र मेला आयोजित किया जा रहा है। इस मेले के आयोजन को लेकर श्री माता शीतला देवी श्राइन बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। डीसी निशांत कुमार यादव ने चैत्र मेले के आयोजन को लेकर मंगलवार को मंदिर परिसर में संबंधित अधिकारियों तथा बोर्ड के सदस्यों की बैठक ली।

श्री शीतला माता मंदिर में चैत्र मेले को लेकर बैठक लेते डीसी निशांत कुमार यादव।

इस दौरान श्री माता शीतला देवी मंदिर श्राइन बोर्ड के सीईओ एवं सोहना के एसडीएम सोनू भट्ट भी मौजूद रहे। बैठक में डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि उत्तर भारत का एक प्रमुख आस्था स्थल होने के चलते श्री शीतला माता मंदिर में आयोजित होने वाले चैत्र मेले में करीब आठ लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। मेले में आने वाले श्रद्धालु गुरुग्राम शहर की एक बेहतर छवि अपने मन मे लेकर जाए इसके लिए आयोजन से जुड़ी सभी तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाए। उन्होंने बोर्ड के सदस्य व मेला प्रबंधन से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि चैत्र मेले में सप्ताह के 3 दिनों रविवार, सोमवार और मंगलवार के दौरान श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़ रहती है, उन दिनों में विशेष ध्यान रखा जाए। इसके अलावा मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध भी सुनिश्चित करें। गुरुग्राम पुलिस, गृह रक्षी बल तथा मंदिर की प्राइवेट सिक्योरिटी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे।

पुलिस को ट्रैफिक प्लान तैयार करने के निर्देश : डीसी ने बैठक में उपस्थित पुलिस विभाग के अधिकारियों को मेला के दिनों के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार करने के लिए भी कहा है, ताकि उन दिनों में मंदिर तक श्रद्धालुओं को पहुंचने में दिक्कत ना आए।

श्रद्धालुओं के वाहनों की पार्किंग की पूरी व्यवस्था हो और शहरवासियों को भी मंदिर के आसपास ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान प्रसाद विक्रेताओं की दुकानों व मुंडन वाले स्थानों पर निर्धारित रेट लिस्ट के बोर्ड लगाए जाएंगे।

हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा है बादशाहपुर, दूसरे नंबर पर गुरुग्राम

फरीदाबाद जिला की बडख्ल है तीसरी बड़ी सीट

गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में 24.94 लाख से अधिक हैं मतदाता

गुरुग्राम लोकसभा में हैं 989 शहरी व 1418 ग्रामीण पोलिंग बूथ

गुरुग्राम लोकसभा का मैप।

संजय कुमार मेहरा। गुरुग्राम

फरीदाबाद, रेवाड़ी व गुरुग्राम को मिलाकर तीन जिलों के लोकसभा क्षेत्र में बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र सबसे बड़ी विधानसभा है। यह गुडग़ांव लोकसभा ही नहीं, बल्कि पूरे हरियाणा में सबसे बड़ी विधानसभा है। यहां चार लाख 62 हजार 765 मतदाता हैं। दूसरे नंबर पर गुरुग्राम विधानसभा है, जिसमें चार लाख 5 हजार 814 मतदाता हैं।

तीसरे नम्बर पर फरीदाबाद जिला की बडख्ल विधानसभा है। 2019 के चुनाव में यहां 2 लाख 75 हजार 347 मतदाता थे। यह आंकड़ा अब बढ़ चुका है। गुरुग्राम लोकसभा की बात करें तो यहां 24.94 लाख से अधिक मतदाता हैं। अगर 2024 के घोषित लोकसभा चुनाव से पहले कुछ नए वोट बने तो इस संख्या में इजाफा हो सकता है। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में गुरुग्राम, रेवाड़ी और मेवात जिला की नौ विधानसभा सीटें बावल, रेवाड़ी, पटौदी, बादशाहपुर, गुरुग्राम, सोहना, नूंह, फिरोजपुर झिरका व पुन्हाना हैं।

गुडग़ांव लोकसभा से रेवाड़ी जिला से बावल विधानसभा क्षेत्र में दो लाख 24 हजार 458 मतदाता व रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में दो लाख 46 हजार 801 मतदाता हैं। गुरुग्राम जिला की पटौदी विधानसभा क्षेत्र में दो लाख 45 हजार 787 मतदाता, बादशाहपुर में चार लाख 62 हजार 765 मतदाता, गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में चार लाख 5 हजार 814 व सोहना विधानसभा क्षेत्र में दो लाख 70 हजार 259 मतदाता हैं। नूंह जिला की नूंह विधानसभा क्षेत्र में दो लाख 310 मतदाता, फिरोजपुर झिरका में दो लाख 38 हजार 807 एवं पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र में एक लाख 99 हजार 43 मतदाता हैं।

गुरुग्राम जिला में कुल 24 लाख 94 हजार 44 मतदाता : गुरुग्राम जिला में कुल 24 लाख 94 हजार 44 मतदाता हैं। लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए लोकसभा क्षेत्र में कुल 2407 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 989 पोलिंग बूथ शहरी क्षेत्र में और 1418 बूथ ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं। इनमें 1500 से अधिक वोटर वाले मतदान केंद्रों पर सहायक मतदान केंद्र भी बनाए जाएंगे। बावल विधानसभा क्षेत्र में दस बूथ शहरी क्षेत्र में और 247 बूथ ग्रामीण इलाके के हैं। यहां कुल 257 पोलिंग बूथ हैं।

रेवाड़ी विधानसभा सीट पर 117 शहरी व 133 ग्रामीण पोलिंग बूथ सहित कुल 250 मतदान केंद्र हैं। पटौदी में 26 शहरी व 221 ग्रामीण बूथ समेत कुल 247, बादशाहपुर में 379 शहरी व 49 ग्रामीण पोलिंग बूथ सहित 428 व गुरुग्राम में सभी 351 शहरी पोलिंग बूथ हैं। सोहना में 59 शहरी व 185 ग्रामीण पोलिंग बूथ सहित 244, नूंह में 11 शहरी व 182 ग्रामीण पोलिंग बूथ समेत कुल 193, फिरोजपुर झिरका में 20 शहरी व 222 ग्रामीण मतदान केंद्र सहित कुल 242 तथा पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र में 16 शहरी व 179 ग्रामीण पोलिंग बूथ सहित कुल 195 मतदान केंद्र हैं।

23 को शहीदी दिवस मनाएंगे कर्मचारी

फरीदाबाद। हुड्डा जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन रजिस्टर नंबर-1266 संबंधित सर्व कर्मचारी संघ की बैठक सर्कल प्रधान ओमप्रकाश की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक का संचालन ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के सचिव रविंद्र ने किया। मीटिंग को सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान अजीत और पूर्व सर्कल सचिव धर्मवीर वैष्णव ने भी संबोधित किया।

सेक्टर-12 के ओपन एयर थिएटर में संपन्न हुई इस बैठक में 23 मार्च को शहीद ए आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का शहीदी दिवस जोर-जोर से बनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में कर्मचारियों का वेतन का भुगतान समय पर करने, ईएसआई और पीएफ की राशियों को जमा करने, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधीन कार्यरत सफाई के कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की मांग की गई। बैठक को महेंद्र, अनिल, संजीव, जिले सिंह, कन्हैया, योगेश बेनीवाल, बिजेंदर और राजपाल ने भी संबोधित किया।

श्री खाटू श्याम प्रचार मंडल ने विधायक सुधीर सिंगला को दिया स्मृति चिन्ह

विधायक सुधीर सिंगला को स्मृति चिन्ह देते श्री खाटू श्याम प्रचार मंडल के पदाधिकारी

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

धूमधाम से मनाए गए श्री श्याम बसंत महोत्सव की विधायक ने दी बधाई

श्री श्याम प्रभु खाटू वाले का 36वां श्री श्याम बसंत महोत्सव का स्मृति चिन्ह सौंपने के लिए श्री खाटू श्याम प्रचार मंडल गुरुग्राम की टीम विधायक सुधीर सिंगला के आवास पर पहुंची। मंगलवार को मंडल के पदाधिकारियों व सदस्यों ने विधायक को स्मृति चिन्ह सौंपा।

श्री खाटू श्याम प्रचार मंडल पदाधिकारियों में संरक्षक सुनील सिंगला, प्रधान राजकुमार कौशिक, कोषाध्यक्ष सचिन मित्तल, पूर्व प्रधान विष्णु मंगला, मदन गोपाल सिंगला, डा. गजराज, अमित गोयल, विवेक सिंगला ने विधायक सुधीर सिंगला को स्मृति चिन्ह सौंपा। विधायक सुधीर सिंगला ने कहा कि श्री खाटू श्याम प्रचार मंडल धर्म के प्रचार के लिए वर्षों से कार्यरत है। हर साल श्याम बाबा जी भव्य बसंत महोत्सव आयोजित करके गुरुग्राम में धर्म को बढ़ावा मंडल की ओर से किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि अपने तीज-त्योहार मनाने और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए श्री खाटू श्याम प्रचार लगातार कार्यरत रहता है। सनातन धर्म के प्रति जागृति लाने का काम संस्था की ओर से किया जाता है। विधायक ने कहा कि समाज में हर तरह से सेवा कार्यों को प्रचार मंडल बढ़ावा देता है।

विधायक सुधीर सिंगला ने कहा कि बाबा श्याम के फाल्गुनी मेला चल रहा है। मेले में श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए गुरुग्राम समेत देशभर से लाखों श्रद्धालु रोजाना दर्शन करते हैं। सभी श्रद्धालु मेला प्रबंधन द्वारा बताए जा रहे नियमों का पालन करें।

अपने शहर का गौरव बढ़ाएं। उन्होंने सभी को श्याम बाबा के फाल्गुनी मेले की बधाई देते हुए कहा कि बाबा के नाम से होने वाले सभी धार्मिक कार्यक्रमों में हमारी बड़ी संख्या में हाजिरी हो। उन्होंने मंडल के पदाधिकारियों व सदस्यों को श्री श्याम बसंत महोत्सव को भव्य तरीके से मनाना की शुभकामनाएं दीं।

सेंटर फॉर प्रोफेशनल एंड अलाइड स्टडीज में हुई मूट कोर्ट स्पर्धा

गुरुग्राम के सेक्टर-40 स्थित सेंटर फॉर प्रोफेशनल एंड अलाइड स्टडीज में मूट कोर्ट स्पर्धा में भाग लेते लॉ के छात्र-छात्राएं

गुरुग्राम। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर प्रोफेशनल एंड अलाइड स्टडीज सेक्टर-40 में दो दिवसीय इंटर क्लास मूट कोर्ट प्रतियोगिता का मंगलवार को उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए डॉ. एमडीयू-सीपीएएस के निदेशक कैलाश कुमार ने आयोजकों को बधाई दी।

उन्होंने कहा कि मूटिंग वकालत कौशल सीखने का पहला मंच है। मूट कोर्ट एक कानून के छात्र के तर्क कौशल के विकास में मदद करते हैं जो एक अच्छा वकील बनने के लिए एक शर्त है। उन्होंने उभरते वकीलों से कानूनी अभ्यास की नैतिकता और मूल्यों का इमानदारी से पालन करने के लिए कहा। कार्यक्रम समन्वयक डॉ. ओमप्रभा ने बताया कि एक आपराधिक मामला चुना गया है। इस मूट कोर्ट प्रतियोगिता में 36 टीमों के माध्यम से 360 विद्यार्थियों का वादी एवं प्रतिवादी के लिए चयन ड्रा के माध्यम से किया गया।

नगर परिषद ने अरावली अंसल में चिन्हित किए 45 फार्म हाउस, जल्द चलेगा पीला पंजा

पायनियर समाचार सेवा। सोहना

नगर परिषद ने वार्ड एक के गांव रायसीना से लगती अरावली पहाड़ी क्षेत्र में ट्रस्ट की 46 एकड़ जमीन समेत 45 फार्म हाउसों का अवैध निर्माण होने पर चिन्हित किया है। उक्त अवैध निर्माण को गिराने के लिए परिषद प्रशासन ने जिला उपायुक्त पत्र लिखकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मांग की है। ताकि चिंहित किए गए अवैध निर्माण को धराशाही किया जा सके।

नगर परिषद ने अरावली की अंसल पहाड़ी में धड़ल्ले से चल रहा फार्म हाउस व ट्रस्ट की जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए कमर कस रहा है। परिषद प्रशासन ने हाल ही में अरावली अंसल क्षेत्र में सर्वे करते हुए करीब 45 फार्म हाउस में अवैध निर्माण से लेकर ट्रस्ट की जमीन पर कॉलोनी काटने के इरादे से कंकरी की पक्की सड़क बनाने के दौरान अवैध रुप से खनन व पेड़ों की कटाई की जा रही है।

सोहना नगर परिषद के वार्ड-एक के गांव रायसीना से लगती अरावली अंसल पहाड़ी में चलते अवैध निर्माण कार्य।

नगर परिषद प्रशासन ने अरावली अंसल में अवैध कार्यों के खिलाफ एक बार फिर से अभियान चलाने की योजना बनाई है।

अभियान की मंजूरी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाने की मांग की है। जैसे ही उपायुक्त द्वारा ड्यूटी मैजिस्ट्रेट उपलब्ध करा दिया जाएगा। वैसे की परिषद प्रशासन अपना अभियान चलाते हुए धहराशाही से तोड़ दिया जाएगा।

ट्रस्ट की जमीन पर अवैध कॉलोनी : जानकारी के अनुसार अरावली अंसल में स्थित बाबा ट्रस्ट की करीब 80 एकड़ जमीन में से 46 एकड़ पर अवैध कॉलोनी काटते हुए 120 के लगभग फार्म हाउस बनाकर बेचे जा रहे है। कॉलोनी में रहने वालों को सुविधा देने के नाम पर पक्की सड़कों को एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है।

जबकि उक्त जमीन पर शुरुआत में अस्पताल या कॉलेज खोले जाने के इरादे से ट्रस्ट संचाक का इरादा था। लेकिन उक्त समाज सेवी की मृत्यु हो जाने के बाद डीलरो द्वारा फार्म हाउस बनाकर बेची जा रही है।

वन विभाग और खनन विभाग की अंदेखी : अरावली असंल में चल रहा अवैध निर्माण के प्रति वन विभाग और खनन विभाग अधिकारी पूरी तरफ से अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए है। बीते करीब दो साल में वन और खनन विभाग ने अवैध रुप से पेड़ों को काटने या खनन करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाही नहीं की है। अधिकारियों पर क्षेत्रवासी मिलीभगत करने का आरोप लगा।

> “अरावली अंसल में अवैध निर्माण और अवैध रुप से बनाई जा रही सड़कों को उखाड़ फेंकने की पूरी तैयारी कर ली है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्त होने पर अभियान चलाकर धराशाही किया जाएगा।
>
> (प्रवीण दलाल-एक्सइएन नप)

मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए गुरुग्राम में चलाया जाएगा विशेष अभियान

गुरुग्राम। लोकसभा आम चुनाव 2024 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन गुरुग्राम द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी निशांत कुमार यादव के मार्गदर्शन में जिला के सार्वजनिक स्थानों तथा शिक्षण संस्थानों में विशेष जागरुकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

एडीसी एवं स्वीप नोडल अधिकारी हितेश कुमार मीणा।

स्वीप कार्यक्रम के नोडल अधिकारी एवं एडीसी हितेश कुमार मीणा के मुताबिक लोकतंत्र में मताधिकार का विशेष महत्व होता है। जिला में बड़ी संख्या में युवा मतदाता इस बार अपने मताधिकार का पहली बार प्रयोग करेंगे। ऐसे में नव मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष जागरुकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला के सभी सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों व अन्य शिक्षण संस्थानों को इस कार्यक्रम में भागीदार बनाया जाएगा। एडीसी ने कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए नागरिक अस्पताल, सीएचसी व पीएचसी की स्लिप, गैस एजेंसी की स्लिप व अन्य बिलों पर भी चुनाव का पर्व, देश का गर्व स्लोगन की स्टैंप लगाई जाएंगी ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं तक मतदान करने का संदेश पहुंचाया जा सके। इस कार्य में हरियाणा राज्य परिवहन विभाग व गुरुगमन बसों के यात्रियों को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही विकास सदन में मतदाता जागरूकता के लिए एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला की शिक्षण संस्थाओं में जागरुकता संबंधी गतिविधियों के साथ-साथ खेल विभाग के समन्वय से मतदाता जागरुकता को लेकर मैराथन भी आयोजित की जाएंगी।

Sensodyne वर्ल्ड ओरल हैल्थ डे के अवसर पर दिल्ली में निशुल्क डेंटल कैंप लगा रहा है

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

Haleon (पूर्व में GlaxoSmithKline Consumer Healthcare) की ओर से अग्रणी ओरल केयर ब्रांड, Sensodyne भारत में 12 मार्च से 31 मार्च, 2024 के बीच निशुल्क डेंटल शिविर लगा रहा है। ये कैंप हर साल 20 मार्च को मनाए जाने वाले वर्ल्ड ओरल हैल्थ डे के अवसर पर Sensodyne के #BeSensitiveToOralHealth अभियान के अंतर्गत लगाए जा रहे हैं। इन कैंपो द्वारा Sensodyne का उद्देश्य भारतीयों को ओरल केयर का महत्व समझाना और उन्हें फ्री डेंटल केयर निशुल्क प्रदान करना है।

हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, भारत में 60 प्रतिशत लोगों को ओरल हैल्थ की समस्या है। जबकि डेंटल केयर प्राप्त करने की कोशिश केवल 5 प्रतिशत लोग ही करते हैं, और दाँतों के लिए कोई बीमा भी नहीं होती है। Sensodyne इस समस्या के समाधान के लिए विभिन्न शहरों और गाँवों में 500 से ज्यादा निशुल्क डेंटल कैंप लगा रहा है।

दिल्ली में लगाए जा रहे डेंटल कैंप में ओरल हैल्थ की विभिन्न समस्याओं, जैसे सेंसिटिविटी, मसूढों की समस्याओं, कैविटी, और दाँत की ऊपरी परत के घिसने का समाधान प्रदान किया जाएगा। इन कैंपो में लोगों को ओरल केयर की दिनचर्या में सरल उपाय शामिल करने की शिक्षा दी जाएगी ताकि वो अपनी ओरल हाईजीन बनाकर रख सकें। जागरूकता बढ़ाने के लिए Sensodyne ने भारत में डेंटल क्लिनिक्स के आसपास लगभग 5000 फार्मेसी के साथ साझेदारी की है, और वहाँ क्यूआर कोड लगाए हैं, जिनकी मदद से ग्राहक नजदीकी निशुल्क डेंटल कैंप्स का पता लगा सकते हैं।

विभिन्न शहरों में चलाए जा रहे इस अभियान के बारे में Ms Bhawna Sikka, Category Head-Oral Healthcare, Haleon India ने कहा, “Sensodyne का ये विश्वास है कि शरीर की पूरी सेहत में ओरल हैल्थ का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी कारण हम ओरल हैल्थ के बारे में शिक्षा बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कि डेंटल चेकअप का लाभ हर व्यक्ति को मिल सकें। इसको बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के साथ Sensodyne 80 शहरों में अपने #BeSensitiveToOralHealth अभियान के अंतर्गत डेंटल कैंप लगा रहा है। इन कैंप्स एवं अन्य अभियानों द्वारा हम भारतीयों को अपनी ओरल हाइजीन बनाए रखने और उसे प्राथमिकता देने में समर्थ बनाना चाहते हैं।

सोहना विधायक संजय सिंह बने प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री

सोहना। सोहना से पहली बार विधायक बनें संजय सिंह को प्रदेश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने मंत्रीमंडल में राज्यमंत्री बनाया। नवनियुक्त प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री संजय सिंह को स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। संजय सिंह को प्रदेश सरकार के मंत्रीमंडल में मंत्री बनाएं जाने पर शहर में चारों तरफ जमकर आतिशबाजी चलाकर खुशियां मनाई जा रही है। प्रदेश मुख्यमंत्री नायब सैनी के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनें सोहना विधायक संजय सिंह का राजनीतिक कैरियर संघर्षमय रहा है। जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत 1997 में गाँव उजीना जिला नूंह के सरपंच पद का चुनाव जीत कर की थी। संजय सिंह ने तीन बार विधानसभा का चुनाव हार कर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। वर्ष 2019 में सम्पन्न विधानसभा चुनाव में सोहना क्षेत्र से चैथी बार राजनीतिक पारी खेली और भाजपा की टिकट पर चुनाव जीत कर विधानसभा में पहुंचे।

शेरे मेवात से बनी पहचान : 1996 में बंसीलाल सरकार में संजय सिंह के पिता कुवर सूंरजपाल सिंह रेवणु मंत्री रहे थे। शेरे मेवात के नाम से पहचाने जाने वाले मेवात के दिग्गज नेता कंवर सूरजपाल सिंह के पुत्र संजय सिंह का जन्म नूहं मेवात के गाँव उजीना में 4 नवंबर 1975 को हुआ था। 1997 में स्नातक की परीक्षा सोहना में स्थित निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह मैमोरिल कॉलेज से उत्तीर्ण की थी।

आदर्श चुनाव आचार संहिता की मर्यादाओं का पालन करेंगे प्रत्याशी : निशांत कुमार यादव

डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की पालना सख्ती से की जाएगी

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

गुरुग्राम के लघु सचिवालय में लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की बैठक लेते डीसी निशांत कुमार यादव।

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में सभी राजनैतिक दल एवं उम्मीदवार कहीं भी सरकारी भवन तथा निजी इमारतों पर बिना अनुमति के चुनाव प्रचार सामग्री नहीं लगाएंगे। संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत ऐसे मामले में प्रत्याशी या पार्टी के खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। वे यहां लघु सचिवालय सभागार में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा के साथ ही जिला में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। जिसका सभी पार्टियों व उम्मीदवारों को कड़ाई से पालन करना है। इस दौरान कोई भी उम्मीदवार किसी दूसरे प्रत्याशी पर कोई भी व्यक्तिगत, जातिगत, धार्मिक या पारिवारिक भावनाओं को ठेस पहुंचानी वाली बातें ना बोलें।

आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान कोई भी नया विकास कार्य शुरू नहीं किया जाएगा। ना तो कोई उद्घाटन होगा ना ही किसी काम का शिलान्यास किया जाएगा। इसी प्रकार सरकार में शामिल जनप्रतिनिधि अब कोड ऑफ कंडक्ट के कारण अधिकारियों की बैठक नहीं बुला सकता। ना ही कोई नए तबादले होंगे और ना ही नई नियुक्तियां की जाएंगी। इसी प्रकार सरकारी विश्राम गृह का प्रयोग राजनैतिक बैठकों के लिए नहीं किया जाएगा।

उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग ने अब सी-विजिल के नाम से नया मोबाइल एप शुरू किया है। इस ऐप पर कोई भी नागरिक या उम्मीदवार चुनाव आचार संहिता की अवहेलना कहीं हो रही है तो उसकी फोटो खिंच कर भेज सकता है। जिस पर सौ मिनट में अवश्य कार्रवाई की जाएगी।

एनएसएस कैंप में सभी प्रतिभागियों के स्वास्थ्य की हुई जांच

पायनियर समाचार सेवा। पलवल

राजकीय महाविद्यालय पलवल द्वारा सात दिवसीय एनएसएस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर जिला रेडक्रॉस सोसाइटी सोसायटी तथा स्वास्थ्य विभाग पलवल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में 70 प्रतिभागियों एवं स्टाफ ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। जिला रेडक्रॉस के सचिव वाजिद अली के मार्गदर्शन में आयोजित किए गए शिविर में सभी 70 प्रतिभागियों एवं स्टाफ के स्वास्थ्य की निशुल्क जांच की गई, जिसमें स्वास्थ विभाग के चिकित्सकों की टीम ने प्रतिभागियों के ब्लड ग्रुप, हिमोग्लोबिन, मधुमेह आदि की जांच के सैंपल कलेक्ट किए।

सरस्वती महिला कॉलेज के अंग्रेजी राष्ट्रीय सेमिनार में किया जागरूक

पायनियर समाचार सेवा। पलवल

सरस्वती महिला महाविद्यालय पलवल में मंगलवार को अंग्रेजी विभाग द्वारा डीजीएचई द्वारा अनुमोदित एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। यह सेमिनार लोक कथाओं और अनुवाद अध्ययन का अंग्रेजी साहित्य में योगदान पर केंद्रित रहा। सेमिनार के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉ. जयवीर एस हुड्डा, अंग्रेजी विभाग, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रहे।

सेमिनार का शुभारंभ बीज भाषण वक्ता प्रोफेसर डॉ. दिव्यज्योति सिंह, अंग्रेजी विभागाध्यक्षा, जेसी बोस विश्वविद्यालय, फरीदाबाद, प्राचार्या डॉ. वंदना त्यागी, संयोजक व अंग्रेजी विभागाध्यक्षा डॉ. सोनिया भारद्वाज, सह- संयोजक डॉ. शुचि दीवान एवं उपस्थित स्टाफ सदस्यों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित करके किया गया। सभी अतिथियों का स्वागत प्लांटर देकर किया गया। उद्घाटन सत्र का आरंभ प्राचार्या के स्वागत भाषण से हुआ। उसके बाद डॉ. सोनिया भारद्वाज ने सेमिनार के विषय में बताया।

तकनीकी सत्र-1 के रिसोर्स पर्सन डॉ. मंजुला बत्रा, अंग्रेजी विभागध्यक्षा, जीजीडीएसडी कॉलेज, पलवल रहे तथा चेयरपर्सन डॉ. अलका शर्मा, पूर्व प्राचार्या, सरस्वती महिला महाविद्यालय, पलवल रहे। तकनीकी सत्र-2 के ऑनलाइन चेयरपर्सन डॉ. नीर कंवल मैनी, पूर्व प्राचार्या राजकीय महाविद्यालय, मोहना रहे तथा रिसोर्स पर्सन डॉ. फयाज अहमद एच इलकाल, सहायक प्रोफेसर, रानी चनम्मा विश्वविद्यालय, कनार्टक रहे।

विदाई सत्र में मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉ. प्रसन्नानशु, डॉयरेक्टर, अंग्रेजी विभाग, नेशनल लॉ विश्वविद्यालय, दिल्ली रहे तथा विशिष्ट अतिथि डॉ. नरेश कुमार वत्स, अस्सिटेंट प्रोफेसर, जीजीएस इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली तथा अतुल मंगला, प्रधान, गवर्निंग बॉडी, सरस्वती महिला महाविद्यालय, पलवल रहे।

सेमिनार में 200 सहायक प्रोफेसर व शोधार्थियों ने भाग लिया। डॉ. वंदना त्यागी व डॉ. सोनिया भारद्वाज ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप प्रदान किए। अतिथियों द्वारा सभी प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया।

मंच का संचालन डॉ. शुचि दीवान द्वारा किया गया। सेमिनार का समापन डॉ. सोनिया भारद्वाज के धन्यवाद ज्ञापन व राष्ट्रगान से किया गया। सेमिनार को सफल बनाने में अंग्रेजी विभाग की सभी प्राध्यापिकाओं का विशेष योगदान रहा।

बीके अस्पताल में नहीं है आग से झुलसे रोगियों के उपचार की सुविधा

अधिकतर रोगियों को किया जाता है दिल्ली रेफर

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

बादशाह खान नागरिक अस्पताल में आग से झुलसे रोगियों के उपचार के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं है। इसके चलते शरीर के अधिक हिस्से में झुलसे व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देकर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया जाता है।

प्रदेश सरकार भले ही नागरिक अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लाख दावे करती हो, लेकिन वास्तविकता सच्चाई के विपरीत है। बीके अस्पताल में बर्न वार्ड केवल नाम के लिए ही है। अस्पताल को 200 बेड का बने 18 वर्ष हो गए हैं, लेकिन इतने वर्षों में आग सहित अन्य कारणों से झुलसे आए लोगों के उपचार की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। जनप्रतिनिधियों एवं उच्च अधिकारियों की अनदेखी का शिकार होने की वजह से बीके अस्पताल में आज तक बर्न यूनिट तक स्थापित नहीं हो पाई है। झुलसे रोगियों के उपचार की कोई विशेष सुविधा नहीं होने के चलते चिकित्सक भी रोगियों को सफदरजंग अस्पताल रेफर करते हैं। बीके अस्पताल का बर्न वार्ड केवल दीवाली के महीने को छोड़कर अन्य दिनों में बंद रहता है और उसके गेट पर ताला लगा रहता है। अस्पताल के द्वितीय तल पर तीन बेड का बर्न वार्ड बनाया गया है। इसके अलावा अस्पताल प्रबंधन के पास अन्य पर्याप्त संसाधन भी नहीं हैं। झुलसे व्यक्ति को मक्खी, मच्छरों से बचाने के लिए बचाने के लिए कोई जाल की भी व्यवस्था नहीं है। यदि किसी रोगी को भर्ती भी किया जाता है तो उसे मच्छरदानी के अंदर रखा जाता है। बता दें कि बीके अस्पताल में झुलसे हुए दो से तीन मामले आते हैं।

एक चिकित्सक के लिए झुलसे हुए व्यक्ति को इंफेक्शन से बचाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। बीके अस्पताल में झुलसे व्यक्ति को इंफेक्शन से बचाने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है। चिकित्सकों के अनुसार आग से झुलसे अधिकतर व्यक्तियों की मौत इंफेक्शन की वजह से होती है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि झुलसे लोगों को जलन से राहत देने के लिए आवश्यक सभी दवा उपलब्ध हैं।

बादशाह खान अस्पताल में स्टाफ की कमी किसी से छुपी नहीं है। जब कोई झुलसा हुआ व्यक्ति अस्पताल में भर्ती होता है तो उसका उपचार करने के लिए तीन सर्जन हैं, लेकिन प्लास्टिक सर्जन नहीं है। ऐसे में यदि किसी रोगी का प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़े तो उसे दिल्ली ही रेफर किया जाता है।

> “**प्रदेश** सरकार अपने स्तर पर बेहतर सुविधा जिला अस्पतालों को उपलब्ध करा रही है। जल्द ही पीएमओ से बातचीत करके बर्न वार्ड को बेहतर बनाने के लिए मांग उठवाएंगे और आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध भी कराया जाएगा।
>
> **-डॉ. रणदीप सिंह पूनिया, स्वास्थ्य महानिदेशक**

केमिकल के ड्रम में आग से झुलसा कर्मचारी

पायनियर समाचार सेवा। पलवल

देवली गांव के निकट स्थित एक कंपनी के केमिकल ड्रम में आग लगने से वहां कार्य कर रहा कर्मचारी बुरी तरह झुलस गया। गंभीर हालत में कर्मचारी का इलाज दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है। कर्मचारी के पिता ने कंपनी प्रबंधक पर लापरवाही व सुरक्षा उपकरण उपलब्ध न कराने का आरोप लगाया है। गदपुरी थाना पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गदपुरी थाना प्रभारी राजबीर सिंह के अनुसार, देवली गांव निवासी रामप्रसाद ने दी शिकायत में कहा है कि उसका बेटा राजकुमार गांव के ही निकट मांदकौल रोड पर स्थित भूनित इंजीनियरिंग (विकटोरा कंपनी) में पिछले करीब दस वर्ष से नौकरी करता था। दोपहर के समय राजकुमार कंपनी में अपनी ड्यूटी पर तैनात था। उसी दौरान कंपनी में रखे केमिकल के ड्रम में आग लग गई और राजकुमार बुरी तरह से जल गया।

राजकुमार को केंपनी में काम करने वाले विशाल और शिवशंकर ने आग से बचाया, लेकिन जब तक राजकुमार बुरी तरह झुलस चुका था। पीड़ित पिता ने शिकायत में आरोप लगाया है कि कंपनी प्रबंधक की तरफ से कोई सुरक्षा उपकरण न मिलने के कारण यह हादसा हुआ है। यदि सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाए गए होते तो उसके बेटे के साथ यह हादसा न होता।

शिकायत में घायल कर्मचारी के पिता ने कंपनी के वाइस प्रेजिडेंट दलीप सुनेजा, प्लांट हेड जसजीत सिंह, एचआर मैनेजर गुरजीत सिह, मेंटेनेंस हेड बलदेव और ठेकेदार अजीम खान पर लापरवाही व सुरक्षा उपकरण न कराने का आरोप लगाया है। गदपुरी थाना प्रभारी राजबीर का कहना है कि घायल कर्मचारी के पिता की शिकायत पर कंपनी के उक्त अधिकारियों व कर्मचारियों सहित ठेकेदार के विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

शेयर बाजार में 300 प्रतिशत मुनाफे का लालच देकर 28.80 लाख ठगे

फरीदाबाद। शेयर मार्केट में 300 प्रतिशत मुनाफे का लालच देकर साइबर ठगों ने एक युवती से 28. 80 लाख रुपये ठग लिए। साइबर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जवाहर कॉलोनी निवासी किरण ने पुलिस को दी शिकायत में बताया 10 जनवरी को उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक विज्ञापन देखा। इसमें दो महीने में शेयर ट्रेडिंग करने पर 300 प्रतिशत मुनाफा दिलाने की बात कही थी।

विज्ञापन पर क्लिक करने पर उन्हें एक ग्रुप से जोड़ दिया गया। इस ग्रुप में रोजाना ट्रेडिंग टिप्स दी जाती थीं। ग्रुप में जुडे लोग मोटी कमाई के स्क्रीन शॉट ग्रुप पर भेजते थे। विश्वास होने पर उन्होंने ग्रुप एडमिन मेरीलिना से बात की। उन्होंने एक एप डाउनलोड कराने के बाद स्टॉक मार्केट के कई आईपीओ दिखाए, जिनमें निवेश करने पर कम समय में अधिक मुनाफे की बात कही गई। 11 मार्च को उन्होंने पांच हजार रुपये आरोपियों के खाते में भेजे।

कुछ दिन बाद ही उन्हें ऑनलाइन रकम लाभ के साथ दिखाई गई। कमाई होती देख उन्होंने 15 मार्च को एक लाख रुपये और भेज दिए। इसके बाद माता-पिता की मौत के बाद मिली बीमा राशि 28 लाख 80 हजार रुपये भी आरोपियों के खाते में भेज दिए। वहीं, जब उन्होंने पैसे निकालने का प्रयास किया तो आरोपी हर बात पर पैसे निकालने की बजाय और पैसे निवेश करने की बात कहते थे। ठगी का अहसास होने पर उन्होंने ग्रुप एडमिन से बात करनी चाही लेकिन फोन बंद था।

विदेशी मरीज की सर्जरी कर एसएसबी अस्पताल ने दिया नया जीवन

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

24 साल के विदेशी युवक के हृदय का एसएसबी अस्पताल के सीनियर हार्ट सर्जन बिग्रेडियर डॉ. एसएस सिद्धू व उनकी टीम ने सफल ऑपरेशन कर उसे नया जीवन देने का काम किया है। डॉ. एसएस सिद्धू ने बताया कि युवक को दिल की एक दुर्लभ महाधमनी की बीमारी थी। छाती के बीच से निकलने वाली महाधमनी जिससे खून सारे शरीर में जाता है, छाती के बीच से बंद थी।

यह बीमारी जन्म से ही होती है और लाखों में से एक को होती है। इस बीमारी के कारण युवक को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उसका बीपी लगातार हाई चल रहा था। डॉ. सिद्धू ने बताया कि कई अस्पतालों ने इस जटिल ऑपरेशन को करने से मना कर दिया गया था। बता दें कि एओर्टिक वाल्व हमारे दिल का एक महत्वपूर्ण वाल्व होता है। यह वाल्व खून को दिल के सही दिशा में जाने में मदद करता है। इस युवक के मामले में एओर्टिक वाल्व संकीर्ण हो गया था, जिससे खून को दिल से बाहर अच्छे से पहुंचने में परेशानी हो रही थी। साथ ही महाधमनी में रुकावट होने के कारण शरीर के निचले हिस्से तक खून का संचार नहीं हो पा रहा था। जांच में पाया गया कि युवक का ब्लड प्रेशर 240/140 था। यह बहुत ज्यादा घातक होता है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन से पहले युवक की कई जांचें की। जांच के बाद युवक के दो ऑपरेशन करने का फैसला किया गया।

कान में लीड लगाकर निकला, ट्रेन की चपेट में आने से मौत

फरीदाबाद। कान में लीड लगाकर रेलवे ट्रैक पार करना एक युवक को भारी पड़ गया। युवक रेलवे फाटक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ गया। इसके अलावा एक अन्य युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। जीआरपी इंस्पेक्टर भीम सिंह ने बताया कि रविवार को कान में लीड लगाकर मिथुन मुजेसर से रेलवे फाटक को क्रॉस कर रहा था, तभी ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। मिथुन मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। सेक्टर फरीदाबाद में किसी कंपनी में काम करता था। इसके अलावा मुजेसर फटाक से लगभग 500 मीटर बल्लभगढ़ की तरफ ट्रेन की चपेट में आने से ललित नामक युवक की मौत हो गई।

जीवन ज्योति स्कूल का छात्र अमित देशवाल बना सीबीआई सब इंस्पेक्टर

पायनियर समाचार सेवा। पलवल

स्कूल प्रबंधन द्वारा किया गया सम्मानित

जीवन ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्कूल के छात्र अमित देशवाल को सीबीआई में सब-इंस्पेक्टर बनने पर फूलमाल तथा मिठाई खिलाकर स्कूल प्रांगण में स्वागत किया गया।

इस अवसर पर जीवन ज्योति ग्रुप आफ स्कूल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर विरेंद्र गहलौत ने छात्र अमित देशवाल तथा छात्र के ताऊ जयपाल देशवाल वर्तमान सरपंच ग्राम घोडी का स्वयं स्वागत सम्मान किया तथा छात्र को शुभकामनाएं दीं। प्रबंधक ने बातचीत में बताया कि अतिम देशवाल ने नर्सरी कक्षा से बारहवीं कक्षा तक पढाई जीवन ज्योति स्कूल पलवल से ही की थी। उसके बाद अमित ने गुरुग्राम कॉलेज से ग्रुजेएशन की पढ़ाई पास की। उसके बाद अपने सफर को मुकाम तक पहुंचाने के लिए अमित निरंतर ऑनलाइन के माध्यम से पढाई की 30 विद्यार्थियों में से चार राउंड की परीक्षाओं को पास करते हुए अंतिम तीन विद्यार्थियों में अपनी जगह सुनिश्चित की और अभी हाल में ही सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग पूरी कर मुंबई के सीबीआई डिपार्टमेंट में बैंक एंड सिक्योरिटी फ्रॉड में बतौर सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया है।

अमित देशवाल ने दसवीं कक्षा 2014 तथा बारहवीं 2016 में सीबीएसई से पास की थी। अमित पढाई में स्कूल के मेद्यावी छात्र रहे हैं। रणपाल देशवाल (दिवंगत) भी हरियाणा पुलिस में थे तथा इनकी माता संतोष एक गृहणी हैं। अमित देशवाल ने सभी छात्रों को संबोधित करते हुए अपने वक्तव्य में कहा कि मैं धन्य हूं जो आज मुझे अपने जीवन संगनी जैसे जीवन ज्योति स्कूल के प्रांगण में बतौर ऑफिसर बन सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। अमित ने बताया कि जीवन ज्योति स्कूल का मैं हमेशा गुणगाान करूंगा, जिसकी बदौलत आज मैं इस मुकाम पर हूं। मैं स्कूल मैनेजमेंट के सभी सदस्यों और स्कूल स्टाफ का धन्यवाद करता हूं। अमित ने प्रांगण में बैठे सभी छात्रों से अपने जीवन में मिली कामयाबी के सफर को सांझा किया और जीवन में लक्ष्य निर्धारित करने की सलाह दी। सभी छात्रों को परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं दीं।

कलेक्टर रेट के लिए 15 अप्रैल तक दर्ज करवा सकते हैं अपना ऐतराज

पलवल। उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि जिला पलवल के वर्ष 2024 के कलेक्टर रेट निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें जिला की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावित कलेक्टर रेट से संबंधित जिला के किसी नागरिक को यदि किसी प्रकार का ऐतराज या सुझाव है तो वह 15 अप्रैल तक अपने दावे व आपत्तियां अथवा सुझाव को संबंधित तहसील कार्यालय/एसडीएम कार्यालय या जिला की वेबसाइट पर दर्ज करवा सकते हैं।

बच्चों को लेकर झगड़े में सिर में कुल्हाड़ी मारी

पायनियर समचार सेवा। पलवल

गुदराना गांव के सरकारी स्कूल में खेलते समय बच्चों में कहासुनी हो गई। बच्चों में हुई यह कहासुनी बड़ों तक पहुंच गई। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर हमला कर दिया। आरोप है कि आरोपी हाथों में कुल्हाड़ी, डंडा व हथियारों से लैस होकर आए थे। कुल्हाड़ी लगने से दो लोग गंभीर रुप से घायल हो गए। जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मुंडकटी थाना पुलिस ने 11 के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुंडकटी थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार के अनुसार, गुदराना गांव निवासी जीतन ने थाने में दी शिकायत में कहा है कि गांव के ही सरकारी स्कूल में बच्चे खेल रहे थे। खेल-खेल में बच्चों का आपस में झगड़ा हो गया। पड़ोस के बच्चों ने उनके परिवार के बच्चों के साथ मारपीट कर दी। इस बात को लेकर पड़ोसी समय सिंह, पुष्पेंद्र, राकेश, भोला, नोहवत, मनीष, योगेश, आकाश, धर्मेंद्र, नरन व मनोज आदि अपने हाथों में तेजधार हथियार व लाठी-डंडे व अन्य हथियार लेकर उनके घर में घुस आए और परिवार के लोगों में हमला कर दिया।

हमला में उनके परिवार के विकास, महीपाल, सत्तो देवी व बीरो को गंभीर चोटें आईं। आरोपी भोला ने सीधी कुल्हाड़ी विकास और महीपाल के सिर पर दे मारी, जिससे दोनों के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। वे लहूलुहान होकर वहीं जमीन पर गिर पड़े। जिसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गए। झगड़े में घायल दोनों को गंभीर हालत में उपचार के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि घायलों के बयान दर्ज किए जा रहे है, बयान दर्ज होने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

संक्षिप्त समाचार

मानव सेवा समिति ने धूमधाम से मनाया होली मिलन

पलवल। मानव सेवा समिति ने होली मिलन समारोह धूमधाम से मनाया। जिसमें गिरजेश शर्मा द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया। बंशीधर मखीजा के जोर-शोर से किए गए मंच संचालन के साथ इस कार्यक्रम में फूलों के होली खेली गई एवं डांडिया नृत्य करके सभी लोगों ने कार्यक्रम का भरपूर आनंद उठाया। मानव सेवा समिति की अध्यक्ष सीता वर्मा ने कहा होली रंगों का त्योहार है एवं सभी को प्यार से रहने की सीख देता है। इसलिए हर वर्ष हमें जोर-जोर से मिलकर प्यार से होली का त्योहार मनाना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित गौरव गौतम एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित पूनम बंसल ने सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं दीं एवं मानव सेवा समिति द्वारा हर वर्ष किए जाने वाले होली परिवार मिलन समारोह का आभार व्यक्त किया। सचिव राजबहादुर रावत ने कार्यक्रम में शामिल हुए सभी मेहमानों का धन्यवाद किया। कार्यक्रम में महेंद्र वर्मा, डॉ. सरदाना, संजय खत्री, गायत्री खन्ना, मोनिका सिंगला, यतिन कालड़ा, राजेश अरोड़ा, शशि बंसल, अनीता गर्ग, लोकनाथ कालड़ा, नीतू तेवतिया, सागर सोनी, पियूष गर्ग, सुनीता शर्मा, चंचल, राम गर्ग, सविता बघेल, देवेंद्र बघेल, राजेश गर्ग, हरीश गोयल, रेनू चुघ उपस्थित रहे।

मुंह की नियमित सफाई न करने से होता है इंफेक्शन

फरीदाबाद। डॉ. गजिंदर कुमार गोयल, डायरेक्टर-कार्डियोलॉजी, मैरिंगो एशिया अस्पताल फरीदाबाद ने बताया कि मुंह की नियमित साफ-सफाई पर ध्यान न देने के कारण दांतों में इंफेक्शन हो जाता है। दांतों में इंफेक्शन होने के कारण ह्दय में भी इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि दांतों का इंफेक्शन ब्लड में बहुत जल्दी चला जाता है। इंफेक्शन के ब्लड में जाने पर हार्ट के वाल्व में भी ये इंफेक्शन पहुंच जाता है, जिससे हार्ट के वाल्व में भी इंफेक्शन का डर रहता है। कई बार हार्ट के वाल्व में इंफेक्शन होने के कारण हार्ट वाल्व में छेद हो सकता है। अगर किसी मरीज की हार्ट की ब्लड थिनर मेडिसिन चल रही हैं तो मसूड़ों से ब्लीडिंग होने का रिस्क ज्यादा रहता है, इसलिए मुंह की साफ-सफाई रखना बहुत जरूरी है, ताकि मसूड़ों से ब्लीडिंग न हो।

योगासन के प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित

पलवल। जिला योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन पलवल के तत्वावधान मे योगाचार्य गुरमेश सिंह के सानिध्य में प्रतिभा खोजो योगासन प्रतियोगिता के लिए जिलाभर के इंटर सेंटर से आए हुई प्रतिभागियों द्वारा एक सफल प्रतियोगिता का आयोजन सरस्वती महिला महाविद्यालय पलवल बाईपास रोड पलवल के प्रांगण आयोजित की गई। प्रतियोगिता की संयोजक आयोजक प्रवक्ता रानी सांगवान ने बताया कि विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता के दौरान सर्वश्रेष्ठ योगी का किताब कुमारी बबीता वीरेंद्र पृथला ने जीता तथा अंजलि उपविजेता बनी। इसी प्रकार विजेता योगासन खिलाड़ियों में कोमल रावत, रचना घोड़ी, मधु चांदहट, मोनिका घोड़ी, अनीता कृष्णा कॉलोनी, निशा, सुमन, नेहा, गायत्री, काजल हथीन, साक्षी, ममता, शीतल, अंजलि, स्नेहा, सुषमा, रूपांशी, अंजलि ने विभिन्न आयु वर्गों में स्थान प्राप्त करके पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर सविता मनचंदा, सीमा, रानी, गीता, प्रिया, मनीषा विशेष रूप से उपस्थित रही।

जमीन बेचने के नाम पर 70 लाख की ठगी

फरीदाबाद। जमीन बेचने के नाम पर दो लोगों ने गांव खेड़ी निवासी युवक से 70 लाख रुपये ठग लिए। पैसे लेने के बाद आरोपी तय समय पर जमीन की रजिस्ट्री कराने नहीं आए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। गांव खेड़ी कलां निवासी सुरेंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया महावतपुर गांव निवासी मिंटू और किरणपाल ने उनसे सवा करोड़ रुपये में 20 कनाल (10 बीघा) जमीन बेचने का सौदा किया था। तीन मार्च 2016 को आरोपियों ने इस बाबत मिंटू के साथ इकरारनामा कर 35 लाख रुपये ले लिए। बाकी रकम चार जुलाई 2016 को रजिस्ट्री के वक्त देनी थी। इसी बीच मिंटू ने उनसे 10 अगस्त 2016 को 15 लाख और 10 अक्तूबर को 20 लाख रुपये और ले लिए। जमीन की रजिस्ट्री कराने की बात पर मिंटू ने तारीख आगे बढ़ा दी। 20 अप्रैल 2018 को मिंटू जमीन की रजिस्ट्री कराने तहसील में नहीं आया। जांच में पता लगा मिंटू ने अपनी जमीन में से 24 कनाल 12 मरले (12.06 बीघा) का हिस्सा इकरारनामा से पहले अपनी माता राजेश को बेच रखा था। इसके अलावा कुछ हिस्सा सुनीता कमल, राजपाल व कंवर सिंह के नाम कर दिया। पैसे वापस मांगने पर आरोपी उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

कृष्णपाल गुर्जर ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली

पलवल। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल में होडल क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस अवसर पर हरियाणा राज्य फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष दिनेश अदलखा, भाजपा जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, भाजपा नेता हरेंद्र रामरतन सहित पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभर में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। लोगों का अपार जनसमर्थन भाजपा को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से कोई हलचल नहीं है। लड़ने से पहले ही विरोधियों ने हार स्वीकार कर ली है। देश और दुनिया में मोदी जी की लहर चल रही है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया ने भी यह मान लिया है कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय है। गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश दुनिया का सिरमौर बनेगा। भारत को विश्वगुरू बनाने के लिए मोदी ने अथक प्रयास किया है। अमृत काल के दौरान भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। भारत आर्थिक रूप से मजबूत बन रहा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से भारी वोटों के साथ विजय हासिल करेंगे और मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे।

पायनियर
नई दिल्ली, बुधवार, 20 मार्च, 2024

व्लादीमिर पुतिन

सत्ता पर पकड़ मजबूत

रूसी राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन ऊर्जा से भरे हैं और सत्ता पर उनकी पकड़ मजबूत बनी हुई है। हालांकि, आरोप हैं कि सत्ता के पीछे उनके प्रशासन ने अनेक हथकंडे अपना कर चुनाव से वैधता प्राप्त की है। पुतिन ने अपना नियंत्रण मजबूत किया है और 'तानाशाह' होने तथा चुनावी हेरफेर के आरोपों के बावजूद उनका लोकप्रिय समर्थन बना हुआ है। हालांकि, रविवार को समाप्त तीन दिवसीय हालिया मतदान में अनेक रूसी नागरिकों ने कुछ मतदान केन्द्रों पर विरोध प्रदर्शन भी किए। चुनाव कानूनों और संस्थानों में परिवर्तन पुतिन के मनपसंद उपकरण हैं। रूसी नेतृत्व ने काफी समय से ऐसी नीतियां बनाई हैं जो मूलत: आलोचकों को खामोश करती हैं तथा असली राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में बाधा डालती हैं। पुतिन और उनके सहायकों को चुनावी नियंत्रण चयनित ढंग से लागू करने, मीडिया की चयनित कवरेज तथा कठोर पंजीकरण नियमों से लाभ होता है। ऐसे में क्रेमलिन को लक्षित परिणामों की गारंटी करते हुए प्रतियोगी चुनाव प्रक्रिया प्रदर्शित करने का मौका मिल जाता है। इसके लिए विमर्श को अपने अनुकूल बनाया जाता है तथा विपक्षी स्वरों का प्रचार रोका जाता है। इसके साथ ही पुतिन ने अपनी ऐसे शक्तिशाली और दृढ़ नेता की छवि बनाई है जो बाहरी खतरों के मुकाबले रूस के हितों की रक्षा कर सकता है। पुतिन ने राज्य-संचालित मीडिया को अपने इशारे पर चलाने तथा स्वयं को देश की सुरक्षा और समृद्धि के लिए जरूरी 'व्यक्तित्व' के रूप में पेश करने में सफलता पाई है। पुतिन ने बाहरी युद्धों और भू-राजनीति का प्रयोग देश में लाभ उठाने के लिए किया है। उदाहरण के लिए, रूस की जनता ने व्यापक रूप से 2014 में क्रीमिया पर रूसी कब्जे का समर्थन किया था तथा इसे देश के भूभाग और गरिमा की वापसी की तरह देखा था।

भारी संख्या में रूसी नागरिक पुतिन को संभावित बाहरी आक्रमण के खिलाफ मजबूत ढाल की तरह देखते हैं जिससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ी है। पुतिन स्वयं को रूसी हितों का वैश्विक चैंपियन बता कर मतदाताओं का समर्थन और एकजुटता प्राप्त कर सकते हैं। इससे जनता की नजरों में उनके अधिकार को वैधता और स्वीकार्यता मिलती है। इसके साथ ही पुतिन ने अनेक राज्य संस्थानों पर कब्जे तथा सुरक्षा अवस्थापना को अपने आदेशों से सुनिश्चित किया कि चुनाव परिणाम सरकार के लिए लाभकारी हों। लोकप्रिय एक्टिविस्ट तथा विपक्षी नेता अलेक्सेई नवलनी जैसे व्यक्ति को हिरासत में लेने जैसी राजनीतिक उत्पीड़न की कार्रवाइयां पुतिन की सत्ता पर मजबूत पकड़ का अनुभव कराती हैं जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता है। पुतिन का उद्देश्य राज्य सत्ता के महत्वपूर्ण कारकों पर कब्जा बनाए रखना है ताकि रूसी राजनीति में उनकी वर्तमान सर्वोच्चता लगातार बनी रहे।

पुतिन का चुनाव अभियान हेरफेर, दुष्प्रचार तथा दबाव पर केन्द्रित था ताकि रूसी चुनाव से उनको वैधता प्राप्त हो सके। पुतिन का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से सत्ता पर कब्जा बनाए रखने के साथ ही अपनी वैधता मंजूर कराना है। इससे उनका 'सार्वजनिक व्यक्तित्व' विकसित होता है और वे अंतरराष्ट्रीय संकटों में इसका लाभ उठाते हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद जनता में उनका विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है तथा सरकारी अवस्थापनाओं में जनता का विश्वास लगातार घट रहा है। यह पुतिन के प्रशासन के लिए खतरा पैदा करता है। इसका अर्थ है कि रूसी राजनीति में बढ़ते टकरावों के कारण उनकी 'वैधता' पर लगातार सवाल उठते जा रहे हैं।

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का प्रयास

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बाहुबल, धनबल, गलत सूचनाओं तथा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों से निपटना होगा।

कल्याणी शंकर
(लेखिका, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

भारत जैसे विशाल देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। इस बार भी लोकसभा चुनाव में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बाहुबल, धनबल, गलत सूचनाओं तथा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों से निपटना होगा। हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 18वें लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया। सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया अप्रैल में शुरू होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनावों की अधिघोषणा करते हुए प्रेस सम्मेलन में भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने में चार बड़ी बाधाओं का उल्लेख किया। उन्होंने इनको '4 एम' के रूप में परिभाषित किया जिनका अर्थ बाहुबल, धनबल, गलत सूचनायें तथा आदर्श आचार संहिता-एमसीसी का उल्लंघन है। हालांकि, ये समस्यायें नई नहीं हैं और भारत का चुनाव आयोग लंबे समय से इनसे निपटने के प्रयास करता रहा है। इसके साथ ही राजनीति का अपराधीकरण तथा चुनाव में काले धन के उपयोग की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है।

2014 में चुनाव प्रचार अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजनीति का अपराधीकरण समाप्त करने तथा चुनाव में काले धन के प्रयोग पर लगाम लगाने का वादा किया था। लेकिन यह सवाल बना हुआ है कि क्या आदर्श चुनाव आचार संहिता का दुरुपयोग रोकना तथा धनबल व बाहुबल के प्रयोग पर नियंत्रण करना संभव है। चुनावों पर नजर रखने वाली संस्था 'द असोसियेशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म्स' के अनुसार अतीत में अनेक बड़ी भारतीय राजनीतिक पार्टियों ने आपराधिक मामलों में संलिप्त रहे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इनमें भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी, रांकापा, राजद, आप, माकपा और वाईएसआरसीपी शामिल हैं।

वर्तमान संसद सदस्यों के पास 29,251 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियां हैं और उनकी औसत संपदा 38.33 करोड़ रुपये है। संस्था की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 44 प्रतिशत केन्द्रीय मंत्रियों का आपराधिक रिकार्ड है और 25 प्रतिशत सांसदों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुल सांसदों में से 53 अरबपति और 475 करोड़पति हैं। धनबल और बाहुबल का बढ़ता प्रयोग भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करता है। पहले राजनेताओं ने अपने काम के लिए बाहुबलियों का प्रयोग शुरू किया था, पर 1980 के दशक से इन अपराधियों ने स्वयं चुनाव मैदान में उतरना शुरू कर दिया और वे विभिन्न पदों के लिए प्रतियोगिता करने लगे।

राजनीतिक पार्टियों को भी यह रास्ता आसान लगा क्योंकि उनको अपने अभियानों के लिए पैसा आसानी से मिलने लगा और लोग उनके भय के कारण वोट भी डालते थे। इस प्रकार अपराध और राजनीति के बीच गठजोड़ निरंतर चलने वाला एक मुद्दा बन गया और इसके जल्दी समाप्त होने की उम्मीद भी नहीं है। इस गठजोड़ के कारण देश का लोकतंत्र और प्रशासन प्रभावित होता है। इन दोनों आयामों के बीच संबंध के कारण चुनावों पर भारी खर्च होने लगा और मतदाताओं को 'रिश्वतें' दी जाने लगीं। इस प्रकार वित्तीय संसाधनों से लैस लोग राजनीति में प्रवेश का रास्ता 'खरीदने' लगे तथा उन्होंने प्रतियोगिता बढ़ा दी। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार मार्च, 2003 से चुनाव में उतरने वाले उम्मीदवारों को अपने आपराधिक मामलों, वित्तीय स्थिति, वैवाहिक स्तर, संसाधनों तथा आय की धनराशि, संपदा और शिक्षा एक स्वघोषित शपथपत्र के माध्यम से देना अनिवार्य हो गया है। लेकिन कुछ उम्मीदवारों ने अपनी शिक्षा और संपदा के बारे में समुचित जानकारियां नहीं दी हैं। चुनाव आयोग ने चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग के नियम भी बदले हैं। नये नियमों के अनुसार नकद दान की सीमा 20,000 से घटा कर 2,000 रुपये कर दी है तथा चुनाव बांडों के माध्यम से योगदानों की अनुमति भी दी है। लेकिन कंपनियां अब भी बिना स्रोत का खुलासा किए राजनीतिक पार्टियों को एक सीमा तक दान दे सकती हैं। यह कानून पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नकद दान की संख्या की कोई सीमा नहीं निर्धारित करता है। इस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव बांडों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

सरकार ने चुनाव बांड व्यवस्था 2018 में शुरू की थी। इसके अनुसार व्यक्ति या कंपनियां इन निश्चित मूल्य वाले बांडों को खरीद सकती थी जो 1,000 से एक करोड़ रुपये तक हो सकते थे। इनकी कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई थी। पिछले पांच विधानसभा चुनावों में 6,128 करोड़ रुपये के चुनाव बांड बेचे गए जिनसे इनकी पारदर्शिता व जवाबदेही पर सवाल उठने लगे। इनसे भाजपा व कांग्रेस समेत कुछ ही पार्टियों को लाभ हुआ तथा इनमें भाजपा का हिस्सा सबसे ज्यादा था। अदालत ने पाया कि इन बांडों में पारदर्शिता का अभाव है और हाल ही में उसने इन पर प्रतिबंध लगा दिया। चुनाव अधिकारियों ने पांच चुनाव वाले राज्यों में 1780 करोड़ के नशीले पदार्थ, नकदी और शराब भी जब्त की है जो पहले विधानसभा चुनावों के दौरान जब्त 239.15 करोड़ से सात गुना से भी अधिक है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 2024 चुनाव के नए नियमों के अनुसार सूर्यास्त के बाद बैंक वाहनों से नकदी परिवहन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही आयोग अपने जब्ती प्रयासों के अंतर्गत नकदी, शराब और नशीले पदार्थों के परिवहन पर लगाम लगाने के लिए चार्टर्ड विमानों पर भी नजर रखेगा। विभिन्न चुनौतियों, जैसे निरक्षरता, गरीबी, आदि के बावजूद भारतीय लोकतंत्र 75 साल से ज्यादा समय से फल-फूल रहा है। भारत में पड़ोसी देशों के उलट चुनावों के माध्यम से 17 बार सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण हुआ है।

भारत के चुनाव आयोग ने अब तक 17 लोकसभा चुनाव, 16 राष्ट्रपति चुनाव तथा 400 से अधिक विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराए हैं। भारत में 978 मिलियन पंजीकृत मतदाता हैं और उनको भी लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया की सफलता का श्रेय दिया जाना चाहिए। भारत में अनेक समितियों तथा प्रशासनिक सुधार आयोगों ने समय-समय पर चुनाव सुधारों का प्रस्ताव किया है। इनमें गोस्वामी, वोहरा व इंद्रजीत गुप्ता समितियां, विधि आयोग, भारतीय चुनाव आयोग शामिल हैं। विभिन्न समितियों द्वारा प्रस्तावित इन चुनाव सुधारों का तत्काल क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। समितियों ने चुनाव प्रक्रिया में विभिन्न सुधार सुझावों के माध्यम से अवांछित लोगों को महत्वपूर्ण पदों तक पहुंचने से रोकने का प्रयास किया है। इस तथ्य को भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए कि अतीत की तुलना में आज भारतीय चुनाव आयोग के प्रयासों से लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव ज्यादा स्वच्छ और निष्पक्ष हुए हैं तथा इनमें खासकर बाहुबल के प्रयोग पर काफी सीमा तक रोक लगी है। भारत के चुनाव आयोग ने चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियों द्वारा प्रयोग के लिए आदर्श आचार संहिता-एमसीसी बनाई है।

चुनाव आयोग ने समय-समय पर आदर्श आचार संहिता लागू कराने के लिए कठोर कदम उठाए हैं, लेकिन इसके बावजूद इसके उल्लंघन की खबरें तथा आम जनता व प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों से शिकायतें आती रहती हैं। इन शिकायतों व उल्लंघनों को देखते हुए चुनाव आयोग को ज्यादा शक्तियां दी जानी चाहिए ताकि वह राजनीतिक पार्टियों द्वारा आदर्श आचार संहिता का संपूर्ण व समग्र क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सके। चुनावों के दौरान एक और बड़ी शिकायत गलत सूचनाओं तथा फर्जी खबरों का प्रसार है। हालांकि, चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और ऐसे दुष्प्रचार पर लगाम लगाने के लिए मीडिया और सोशल मीडिया समेत लगभग सभी एलेक्ट्रानिक माध्यमों पर नजर बनाए रखता है, पर चुनाव आयोग को इन पर नियंत्रण के लिए और कठोर कदम उठाने की जरूरत है।

दुष्प्रचार और अफवाहें उम्मीदवारों को समान आधार देने में बाधा पैदा करती हैं। व्यक्तियों, राजनीतिक पार्टियों तथा सरकार को एकसाथ काम करते हुए लोकतांत्रिक सिद्धान्त बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। संसद को ऐसी नीतियां लागू करनी चाहिए जिनसे राजनीतिक फाइनेंसिंग पर नियंत्रण मजबूत हो तथा गंभीर अपराधों में लिप्त उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोका जाए। इसके साथ ही सरकार को राजनीतिक पारदर्शिता, जवाबदेही तथा नैतिक व्यवहार को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।

मार्गदर्शकों की अपरिहार्य भूमिका

"व्यक्तियों का मार्गदर्शन करने से लेकर कौशल विकास को बढ़ावा देने तक, सलाहकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।"

साक्षी सेठी
(लेखिका, शिक्षक हैं)

आज की गतिशील और तेज़ गति वाली दुनिया में, सलाहकारों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शायद ही कोई ऐसे समय के बारे में सोच सकता है जब मार्गदर्शन के अलावा उन पर किसी महत्वपूर्ण तरीके से प्रभाव पड़ा हो। प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति और नौकरी की बदलती आवश्यकताओं के साथ, कार्यबल में प्रासंगिक बने रहने के लिए निरंतर कौशल विकास आवश्यक है। जैसे-जैसे पेशेवर परिदृश्य अधिक परिष्कृत होता जा रहा है, संभावित विशेषज्ञों को ध्यान केंद्रित और प्रेरित रहने के लिए मार्गदर्शन और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है।

मेंटरिंग एक अधिक अनुभवी व्यक्ति यानी संरक्षक और कम अनुभवी व्यक्ति यानी मेंटर के बीच एक गतिशील संबंध है, जिसमें पूर्व व्यक्ति को व्यक्तिगत, पेशेवर या शैक्षणिक रूप से विकसित होने में मदद करने के लिए मार्गदर्शन, समर्थन और विशेषज्ञता प्रदान करता है। संक्षेप में, यह पेशेवर विकास और सफलता के लिए मौलिक है और आजकल अत्यधिक सफल लोगों में यह एक आम खोज है। यह जीवन के विभिन्न रूपों और क्षेत्रों में आता है और इसमें उन लोगों से प्रशिक्षण, संगत, प्रोत्साहन और निर्देशन जैसे कई पहलू शामिल हैं, जिनके पास दोनों हैं - पहले ऐसा किया है और आम तौर पर शिष्य के वर्तमान से स्वतंत्र हैं।

परिवर्तन अत्यधिक अपरिहार्य है, चाहे वह उद्योग व्यवधान, संगठनात्मक पुनर्गठन या व्यक्तिगत जीवन परिवर्तन के रूप में हो। उच्च स्तर के तनाव, चिंता और जलन से चिह्नित युग में, सलाहकार उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सुनने की क्षमता प्रदान करते हैं,

मुकाबला करने की व्यवस्था प्रदान करते हैं और लचीलेपन और संतुलन को बढ़ावा देने के लिए स्व-देखभाल प्रथाओं को प्रोत्साहित करते हैं।

पेशेवर मार्गदर्शन के साथ-साथ, वे लक्ष्य निर्धारित करने, कार्यों को प्राथमिकता देने, समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और यहां तक कि एक स्वस्थ कार्य-जीवन संतुलन बनाए रखने जैसे विभिन्न कार्यों में मार्गदर्शन करने वालों की मदद करके व्यक्तिगत विकास का भी समर्थन करते हैं। सलाह न केवल संगठनों में आवश्यक है, बल्कि स्कूलों और संगठनों में भी आवश्यक है क्योंकि यह कौशल विकास, कैरियर मार्गदर्शन, व्यक्तिगत विकास, नेतृत्व विकास, विविधता और समावेशन, उन्नत प्रदर्शन और कल्याण को बढ़ावा देता है। यह शैक्षणिक संस्थानों की समग्र सफलता और स्वास्थ्य में योगदान देता है। उनमें से कुछ और यहां तक कि सलाहकार के रूप में सेवारत वरिष्ठ भी अपने ज्ञान, विशेषज्ञता और नेतृत्व कौशल को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी ताकत और सुधार के क्षेत्रों पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं और उन्हें अपने करियर में प्रगति करने में मदद कर सकते हैं जिससे संगठन के भीतर निरंतरता और उत्तराधिकार सुनिश्चित हो सके।

अनुसंधान से पता चला है कि जिन कर्मचारियों के पास मेंटरशिप कार्यक्रमों तक पहुंच है, वे अपनी नौकरी से व्यस्त और संतुष्ट महसूस करते हैं क्योंकि वे उन्हें मूल्यवान और समर्थित महसूस करने में मदद करते हैं, जिससे संगठन के प्रति उनकी वफादारी बढ़ती है और टर्नओवर कम होता है। इतना ही नहीं, बल्कि वे कम प्रतिनिधित्व वाले कर्मचारियों का समर्थन करके, उनकी उन्नति की वकालत करके और समावेशिता की संस्कृति को बढ़ावा देकर कार्यस्थल में विविधता और समावेश को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुल मिलाकर, सलाहकार विश्वसनीय सलाहकार, मार्गदर्शक और रोल मॉडल के रूप में कार्य करते हैं जो प्रशिक्षुओं की व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में सफलता और पूर्ति में योगदान देते हैं।

एक अच्छा गुरु एक नए नौकरी आवेदक को तेजी से आगे बढ़ा सकता है और उठने वाले प्रश्नों के उत्तर देने में मदद कर सकता है। मार्गदर्शन वह हाथ हो सकता है जो नीचे तक पहुंचता है और किसी व्यक्ति को गड्ढे से बाहर खींचता है। यह जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है और स्थायी रिश्ते बना सकता है। यह किसी बच्चे को सही रास्ते पर आने में भी मदद कर सकता है अगर उसके पास मदद के लिए कोई और न हो।

जटिलता के माध्यम से व्यक्तियों का मार्गदर्शन और समर्थन करने, कौशल विकास को बढ़ावा देने, नेटवर्किंग की सुविधा देने, नेतृत्व का पोषण करने और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने के लिए सलाहकार अपरिहार्य हैं। उनका मार्गदर्शन और समर्थन आधुनिक दुनिया की चुनौतियों और अवसरों से निपटने में प्रशिक्षुओं की मदद करने में अत्यधिक अमूल्य है और रहेगा।

आप की बात

राहुल की फिसलन

राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर एक रैली में कहा, हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। यह कथन राहुल गांधी की फिसलन का एक और उदाहरण है जिससे वे खुद के साथ अपनी पार्टी कांग्रेस और सहयोगियों को मुसीबत में डालते रहे हैं। हिंदू धर्म और संस्कृति पर राहुल का यह पहला विवादस्पद बयान नहीं है। वे हिंदू धर्म ग्रन्थ पढ़ने का दावा करते हैं। उनको पता होना चाहिए कि हिंदू धर्म में शक्ति से लड़ने वाले को महिषासुर कहते है। क्या वे स्वयं को महिषासुर कहने का साहस करेंगें? यदि उनका निशाना मोदी और भाजपा थे तो उन्होंने अनावश्यक रूप से हिंदू धर्म का नाम क्यों लिया? जब मोदी ने इस वक्तव्य पर पलटवार किया तो राहुल के सिपहसालार लीपापोती करने लगे। उनके गुरु कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह ने कहा कि राहुल का संकेत राक्षसी शक्तियों की ओर था। लेकिन राहुल की बार-बार फिसलन यही दिखाती है कि वे प्राचीन नीति वाक्य की तरह ऐसे बेंत के पौधे की तरह हैं जो अमृत वर्षा से भी फलने-फूलने वाला नहीं है तथा ब्रह्मा के समान गुरु भी उनके मन-मस्तिष्क में चेतना नहीं पैदा कर सकेगा। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को अपने सिर पर लदे इस मूर्खतापूर्ण बोझ से मुक्ति पाने के बारे में विचार करना चाहिए।

– **सुशील कुमार बतरा,** मेरठ

सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव

डाक्टरों के अनुसार, लोगों पर रील्स और सोशल मीडिया का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। सेहत के लिहाज से हमारी सोसायटी में ये एक सुनामी की तरह आई है। अब हमें इससे लड़ना होगा। मोबाइल का प्रयोग तो जरूरी है लेकिन अति-प्रयोग से अनेक युवाओं में अनिद्रा, नींद ठीक से न आने, बेचैनी और तनाव काफी बढ़ गया है। बच्चों से लेकर बड़ों तक स्मार्टफोन जहां जीवन को सुगम, सहज व सरल बना रहा था अब वही बच्चों, किशोरों और युवाओं में शारीरिक व मानसिक बीमारियों का कारण बनता जा रहा है। अनेक मामलों में जबरन मोबाइल छीन लेने पर बच्चे क्रोधित होकर अपने आप को चोट पहुंचा रहे हैं। इसके चलते अनेक बच्चे पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं, कम उम्र में चश्मे लग रहे हैं, सुनने में परेशानी आने लगी है तथा उनके शरीर अत्यंत दुर्बल और कांतिहीन होते जा रहे हैं। मोबाइल गेम और ऑनलाइन सट्टे वाले गेम्स ने बच्चों की बर्बादी के सारे रास्ते खोल दिए हैं। मोबाइल तथा सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों से बच्चों व किशोरों को खासतौर से बचाने के लिए सरकार, समाज, परिवार, सिविल सोसाइटी संगठनों, शिक्षकों व शिक्षण संस्थाओं तथा धर्मगुरुओं आदि को एकसाथ आना होगा।

– **सुभाष बुडावन वाला,** रतलाम

कर्ज और बीमा

बैंकों द्वारा शिक्षा ऋण व सरकार द्वारा चिकित्सा-बीमा योजनाएं विद्यार्थियों की पढ़ाई व लोगों के इलाज में काफी सुविधा देती हैं। लेकिन अनेक लोगों को इतनी बेहतर नौकरी नहीं मिलती कि वे शिक्षा ऋण चुका दें और घर-परिवार भी चला लें। इसी तरह चिकित्सा-बीमा ने भी अस्पतालों में व्यापारिक दृष्टिकोण या लालच भर दिया है। कई अस्पताल तो पहले से ही स्वास्थ्य बीमा की जानकारी मांगते हैं ताकि उसी हिसाब से मरीज का इलाज करें। इस प्रकार शिक्षा ऋण व चिकित्सा बीमा ने शिक्षा और इलाज महंगे कर दिए हैं। सरकार बच्चों और युवकों को बेहतर और सस्ती शिक्षा के लिए गाइडलाइन तैयार करनी चाहिए। इसी तरह मरीजों को सस्ते व अच्छे इलाज की दिशा में आने वाली बाधायें दूर करनी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लगभग सभी बीमारियों के लिए मानक ट्रीटमेंट प्रोटोकाल तैयार किए हैं। भारत में इनको अनिवार्य रूप से उपयुक्त संशोधनों व परिवर्धनों के साथ सभी सरकारी व निजी अस्पतालों में लागू करना चाहिए। इसके साथ ही डाक्टरों को अपने ब्रिटिश व अमेरिकन समकक्षों की तरह जनता के स्वास्थ्य शिक्षण की दिशा में व्यापक कदम उठाने चाहिए ताकि आम लोगों को अस्पतालों में लूट से मुक्ति मिल सके।

–**शकुंतला महेश नेनावा,** इंदौर

आम आदमी को राहत

रसोई गैस के और सस्ती होने की उम्मीद से राहत मिली है। महिला दिवस के दिन केंद्र सरकार ने रसोई गैस के दाम 100 रूपये कम करके आम उपभोक्ता व खासकर महिलाओं को बड़ी राहत दी थी। तब इसे चुनावी दौर में सरकार द्वारा वोट बढ़ाने का जुगाड़ कहा जा रहा था। लेकिन अब सरकार रसोई गैस की कीमतें और कम करने की बात कर रही है। यह कमी सिर्फ एलपीजी में ही नहीं बल्कि पीएनजी की कीमतों में भी हो सकती है। यदि निकट भविष्य में अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड आयल की कीमत स्थिर रही तो पेट्रोल डीजल भी कुछ सस्ता हो सकता है। इस खबर से आम आदमी को और राहत मिलेगी। रसोई गैस ही नहीं, बल्कि पेट्रोल डीजल भी आम आदमी की जिंदगी में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से भी आम लोगों को बिजली पर खर्च से न केवल राहत मिलेगी, बल्कि इससे देश नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा। इससे बिजली उत्पादन में वृद्धि से बिजली वाहनों को चार्ज करने में आसानी होगी तथा इससे स्वाभाविक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ई-दोपहिया का प्रचलन बढ़ेगा।

– **एमएम राजावत,** शाजापुर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

जातीय रैलियों के मामले में हाईकोर्ट ने की सुनवाई

भाजपा, कांग्रेस, सपा व बसपा को पुनः नोटिस भेजने का आदेश

विधि संवाददाता। लखनऊ

उत्तर प्रदेश में जातीय रैलियों पर रोक लगाने की मांग वाली विचाराधीन जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने भाजपा, कांग्रेस, सपा व बसपा को नई नोटिस भेजने का आदेश दिया है। पीठ ने पाया कि 11 नवंबर 2022 के आदेश के अनुपालन में भेजी गई नोटिस इन राजनीतिक दलों को प्राप्त नहीं हो सकी है। लिहाजा नई नोटिसें भेजी जाएं।

चीफ जस्टिस अरुण भंसाली एवं जस्टिस जसप्रीत सिंह की पीठ ने यह आदेश वर्ष 2013 में स्थानीय वकील मोतीलाल यादव द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से बताया गया कि उसने ऑनलाइन जवाबी हलफ़नामा दाखिल कर दिया है। हालांकि रिकॉर्ड पर उक्त हलफ़नामा नहीं पाया गया। पीठ ने इस पर आयोग को जवाबी हलफ़नामा दाखिल करने का अंतिम अवसर देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तिथि तय की है। पीठ ने पूर्व के आदेश में चुनाव आयोग समेत केंद्र व राज्य सरकारों को जातीय रैलियों के विरुद्ध गाइडलाइंस बनाने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ता के मुताबिक पीठ ने इस बार अपने इसी आदेश के अनुपालन के संबंध में चुनाव आयोग को जवाबी हलफ़नामा दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। पीठ इससे पूर्व 11 नवंबर 2022 को इस मामले में प्रदेश के चार प्रमुख दलों भाजपा, कांग्रेस, सपा व बसपा को नोटिसें जारी करने का आदेश दे चुकी है। हालांकि इन दलों को नोटिस नहीं मिलने के कारण पुनः नई नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।

दीपक कुमार बने अपर मुख्य सचिव गृह

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

निर्वाचन आयोग की स्वीकृति के बाद शासन ने मंगलवार को 1990 बैच के आईएएस अधिकारी दीपक कुमार को अपर मुख्य सचिव (गृह) की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके पहले प्रमुख सचिव (गृह) रहे संजय प्रसाद प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, सूचना और प्रोटोकाल रहेंगे।

उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग ने बीते सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए छह राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार, गुजरात, झारखंड और हिमांचल प्रदेश के गृह सचिवों को हटाने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी हटाने का आदेश जारी किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने प्रमुख सचिव गृह पद पर तैनात आईएएस अधिकारी संजय प्रसाद को हटा दिया था। राज्य सरकार के नियुक्ति विभाग ने चुनाव आयोग के आदेश पर तीन आईएएस अफसरों का पैनल भेजा था। पैनल में वर्ष 1990 बैच के दीपक कुमार, वर्ष 1993 बैच के आलोक कुमार द्वितीय और 1998 बैच के आईएएस अधिकारी अजय कुमार चौहान के नाम शामिल थे।

आयोग ने राज्य सरकार की ओर से मिले तीन नामों के पैनल में दीपक कुमार को गृह विभाग का दायित्व देने का आदेश दिया। जिसके बाद नियुक्ति विभाग ने दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव गृह बनाए जाने का आदेश जारी कर दिया। उनके पास अब होम, गोपन, वीजा पासपोर्ट, जेल, सतर्कता विभाग का प्रभार रहेगा। 1990 बैच के आईएएस अधिकारी दीपक कुमार अभी अपर मुख्य सचिव वित्त और माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। ये दोनों विभाग भी उनके पास यथावत बने रहेंगे।

भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के साथ शक्तिहीन हो गए राहुल गांधीः केशव मौर्य

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि कड़वा सच यह है, कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के साथ राहुल गांधी 'शक्तिहीन' हो गए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लब्बोलुआब ढाक के तीन पात!

उप मुख्यमंत्री ने 'एक्स' पर लिखा कि, शक्ति स्वरूपा से शुंम्भु और निशुम्भु लड़े थे, उनका हश्र क्या हुआ, यह कांग्रेस के बहादुरशाह को पता होना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि हमारी सरकार का प्रयास, हम गरीबी के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं, हम गरीबी को परास्त करके के दम लेंगे, महिला सशक्तिकरण हमारी सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार बनी, इसलिए सभी काम अच्छे से हो रहे हैं! उन्होंने अपने संदेश के जरिए बताया है कि अब तक 34 लाख करोड़ रुपये लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजने का काम किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश में हर वर्ग का विकास हो रहा है। 12 करोड़ लोगों को इज्जत घर (शौचालय) देने का काम किया गया है और आयुष्मान योजना से स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित हुई है, इसलिए अबकी बार 400 पार! फिर एकबार मोदी सरकार! विकसित भारत के लिए! तीसरी बड़ी इकॉनॉमी के लिए, किसान कल्याण के लिए, युवाओं को नए अवसर के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए... 400 पार।

भाजपा सरकार में नहीं मिल रहा मंदिरों को उनका वार्षिक भत्ताः अजय राय

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि इलाहाबाद उच्चन्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसले में चिन्ता जाहिर की है कि, यह बहुत ही दुखद है कि मंदिरों को राज्य सरकार से अपना जायज हिस्सा लेने के लिए कोर्ट तक आना पड़ रहा है। ठाकुर रंगजी महाराज विराजमान मंदिर मथुरा द्वारा सरकार के खिलाफ किए गए मुकदमें में उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2020 से उनका वर्षिक भत्ता जो यूपी जमींदार उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के सेक्शन 99 के तहत निर्धारित है, नहीं मिला रहा है, इतना ही नहीं उनके साथ साथ वृन्दावन के अन्य 8 मंदिरों को वार्षिक भत्ता नहीं मिला है। मुकदमा सुन रहे न्यायमूर्ति ने सरकार की इस दलील पर आश्चर्य प्रकट किया कि मंदिरों को पैसा फंड की कमी की वजह से नहीं दिया गया।

अजय राय ने कहा कि जिस प्रदेश में मंदिरों को उनका जायज हक न मिल पा रहा हो वह राम राज्य की बात करते हैं, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने चुनावी एजेंडे का साधने के लिए मंदिरों का इस्तेमाल करने वाली योगी सरकार उनको उनका हक तक नहीं दे पा रही है।

राय ने कहा कि पिछले चार साल से मंदिर प्रशासन अपना हक मांगने के लिए भटक रहा है और हर रोज हिंदुत्व का झंडा उठाने का दावा करने वाले योगी को मंदिरों के ही दुर्दशा की खबर नहीं है। यह झूठे लोग है और झूठी सरकार है। सच तो यह है कि यह किसी के नहीं है यह सिर्फ अपने फायदे के हैं। राय ने कोर्ट का धन्यवाद देते हुए कहा कि इस विफल सरकार में कोर्ट ही एकमात्र सहारा रह गया है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि सभी मंदिरों का बकाया वार्षिक भत्ते का तत्काल प्रभाव से भुगतान कराया जाए।

बागपत में चेकिंग के दौरान गाड़ी से बरामद हुई डेढ़ करोड़ की नगदी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा के बाद बागपत पुलिस-प्रशासन को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीम ने सोमवार की देर रात चेकिंग के दौरान निवाड़ा चेक पोस्ट से एक गाड़ी से करीब डेढ़ करोड़ रुपए नकदी बरामद की है। गाड़ी में मौजूद दो लोगों को भी हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस व इनकम टैक्स के अधिकारी पकड़े गए दोनों लोगों से पूछताछ कर रही है। लोकसभा चुनावों को देखते हुए आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग की नियमावली के अनुसार 50 हजार रुपए तक व्यक्ति अपने पास ले जा सकता है लेकिन बीती देर रात जिला प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीम ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा को जोड़ने वाली निवाड़ा चेक पोस्ट से चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से दो लोगों के साथ करीब डेढ़ करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई। पूछताछ में पकड़े गए एक व्यक्ति ने अपना नाम अनिल कुमार दिल्ली, शाहदरा का रहने वाला बताया है जबकि दूसरा व्यक्ति अनिल कुमार का ड्राइवर है। पकड़ी गई नकदी के बाद जिला प्रशासन व पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। जिसके बाद जिला प्रशासन ने इनकम टैक्स के अधिकारियों को इस मामले की सूचना दी। पुलिस व इनकम टैक्स के अधिकारियों की पूछताछ में अनिल कुमार ने बताया कि उसने अपनी फैक्ट्री बेची है, बरामद नकदी उसी का भुगतान ह लेकिन अधिकारी अभी भी पूछताछ में लगे हुए है कि कहीं ये पैसा चुनाव के दौरान दुरूपयोग में आने वाला तो नहीं है। अधिकारी कई बिन्दुओं पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस पकड़ी गई डेढ़ करोड़ रुपए की नकदी को सीज कर छानबीन में जुटी है।

सपा व्यापार सभा ने लिया इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का संकल्प

चुनाव में व्यापारी भाजपा का पर्दाफाश कर उसे दे सकते हैं 440 वाट का करंटः अखिलेश यादव

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

समाजवादी व्यापार सभा की बैठक मंगलवार को समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के डॉ. राममनोहर लोहिया सभागार में हुई। बैठक में एकमत से बूथस्तर तक अपनी भूमिका तय करते हुए लोकसभा चुनाव 2024 में संकल्प लिया गया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व को मजबूती देते हुए पीडीए की विचारधारा पर आधारित इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को विजयी बनाने में व्यापारी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। लोकतंत्र और संविधान को बचाने तथा देश में पुनः सकारात्मक माहौल स्थापित करने के लिए भी सभी प्रतिबद्ध है। समाजवादी व्यापार सभा की बैठक में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वीर बलिदानी दानदाता भामाशाह के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। बैठक की अध्यक्षता व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने की और कार्यक्रम का संचालन अभिमन्यु गुप्ता ने किया।

अखिलेश यादव ने समाजवादी व्यापार सभा के मुख्य प्रस्ताव और समाजवादी सरकार में हुए महत्वपूर्ण कार्यों की विवरण पुस्तिका का विमोचन किया तथा सदस्यता प्रमाण पत्र दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा व्यापारियों के साथ खड़ी रही है। समाजवादी सरकार में उनके साथ न्याय होता था। आज व्यापारी वर्ग तबाह है। उसका शोषण और उत्पीड़न हो रहा है। छोटे और खुदरा व्यापारी भाजपा की कुनीतियों से तबाह हैं। भाजपा की गलत नीतियों के चलते 30 प्रतिशत व्यापार ही बचा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में व्यापारी वर्ग अपनी दुकानदारी करते हुए भी बाजार में ग्राहकों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में चर्चा करना न भूलें। देश में लोकतंत्र, संविधान और आजादी को बचाना है। व्यापारी भाजपा का पर्दाफाश कर उसे 440 वाट का करंट दे सकते हैं।

इलेक्टोरल बॉण्ड मामले में खुल चुकी है भाजपा की वसूली की पोल

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि देश की जनता लोकसभा चुनाव में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी भाजपा सरकार के अन्याय, अत्याचार के खिलाफ वोट करेगी। भाजपा सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं का दुरूपयोग किया। ईडी, सीबीआई और इन्कम टैक्स के छापों के बल पर वसूली की। देश के इतिहास में इस तरह की वसूली कभी नहीं हुई। भाजपा ने लोकतंत्र को कमजोर किया है। संविधान विरोधी काम किया है। इलेक्टोरल बॉण्ड के मामले में देश भर में भाजपा की वसूली की पोल खुल चुकी है। चंदा के नाम पर वसूली हुई, पैकेज लिया गया। भाजपा के पास इसका कोई जवाब नहीं है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यह बात पार्टी मुख्यालय में आयोजितत पत्रकार वार्ता के दौरान कही। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने ईडी, सीबीआई और इन्कम टैक्स के जरिए विपक्षी दलों के नेताओं को प्रताड़ित किया। बदनाम किया। भाजपा में शामिल होने के लिए दबाव बनाया। पार्टियों को तोड़ने का काम किया। जनता सब देख रही है। लोकसभा चुनाव में जनता भाजपा के खिलाफ खड़ी होगी। जनता ही देश में लोकतंत्र बचाएगी। भाजपा विपक्षी नेताओं पर दबाव बना कर पार्टी में तो शामिल करा सकती है लेकिन जनता को शामिल नहीं करा सकती है। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को सतर्क रहना होगा। पार्टी के नेता-कार्यकर्ता चुनाव में हर स्तर पर ध्यान रखे और निगरानी करें। भाजपा देश की हर संवैधानिक संस्था को कमजोर कर रही है। यह लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इस चुनाव में भाजपा को हराने से चूक गये तो जनता आने वाले समय में वोट नहीं डाल पायेगी। भाजपा जनता के अधिकार छीन रही है।

सपा में प्रदेश सचिव समेत कई पदों पर पदाधिकारी नामित

लखनऊ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की स्वीकृति से प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल द्वारा दूधनाथ पटेल निवासी बनई का पूरा पोस्ट अटरामपुर फाफामऊ जनपद प्रयागराज तथा आशीष कुमार मौर्य निवासी नरसिंहपुर कछुआ सिराथू जनपद कौशाम्बी को समाजवादी पार्टी की राज्य कार्यकारिणी में प्रदेश सचिव तथा गोविन्द त्रिपाठी कानपुर ग्रामीण, सुधाकर त्रिपाठी निवासी बगहा कटरा नगर जनपद औरैया तथा रंगीलाल यादव निवासी ग्राम बरेस्ता कला प्रतापपुर जनपद प्रयागराज को समाजवादी पार्टी की राज्य कार्यकारिणी में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नामित किया गया है। राजविजय यादव एडवोकेट निवासी जनपद मऊ को समाजवादी लोहिया वाहिनी की राज्य कार्यकारिणी में प्रदेश उपाध्यक्ष तथा अभिषेक मद्धेशिया निवासी जनपद मऊ को प्रदेश सचिव नामित किया गया है।

कांग्रेस मुख्यालय पर मनाई गई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जीवटराम की पुण्यतिथि

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर मंगलवार को भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जीवटराम भगवानदास कृपलानी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष व प्रभारी प्रशासन दिनेश कुमार सिंह ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

इस मौके पर दिनेश सिंह ने कहा कि जीवटराम भगवानदास कृपलानी गांधी जी के सबसे उत्साही शिष्यों में से एक थे। उन्होंने लगभग एक दशक तक कांग्रेस के महासचिव के रूप में कार्य किया था। उनके पास शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का अनुभव था और कांग्रेस के पुनर्निर्माण के लिए उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। प्रक्रियात्मक मामलों पर पार्टी और सरकार के बीच विवादों ने सरकार में सहयोगियों के साथ उनके संबंधों को प्रभावित किया। उन्होंने चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वेद प्रकाश त्रिपाठी, महिला कांग्रेस मध्य जोन की अध्यक्ष ममता चौधरी, अशोक कुमार दुबे, नितान्त सिंह, राम आशीष मौर्य, डॉ. राजेन्द्र कुमार मौर्य, जितेन्द्र पटेल, अंचल सिंह, आदि शामिल रहे।

मेट्रीमोनियल साइट पर ठगी करने वाले ईनामी दम्पति गिरफ्तार

लखनऊ। मेट्रीमोनियल साइट पर फर्जी नाम से कई आईडी बनाकर ठगी करने वाले 25-25 हजार रुपए ईनामी दम्पति को एसटीएफ ने प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अश्वनी कुमार वैश्य निवासी 167/151 हीवेट रोड, विवेकानन्द मार्ग, थाना कोतवाली प्रयागराज और उसकी पत्नी रीतू वैश्य उर्फ रीतू यादव की एसटीएफ को पिछले काफी समय से तलाश थी। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि उक्त दम्पति कल्याणी देवी पार्क, थाना क्षेत्र अतरसुईया, प्रयागराज के पास टहलने आते है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया। पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वह दोनो पति पत्नी है, जो मेट्रीमोनियल साइट यथा जीवन साथी.कॉम, शादी.कॉम आदि पर कई प्रकार के फर्जी नाम की आईडी बनाकर शादी के लिए युवक/युवतियों को इनवाइट करते है। फर्जी नाम पते पर सिम खरीदकर इस माध्यम से जुड़े लोगों से कई महीनों तक बात करते है और इस दौरान उनसे पैसे, जेवरात आदि की मांग करते है, जब उनसे पैसा एवं जेवरात आदि मिल जाता है तो मोबाइल ऑफ कर देते है और सिम फेंक देते है। इस तरह से यह लोग काफी लोगों से ठगी कर चुके है।

यूपी की आधी आबादी इस बार भी चुनाव में साबित होगी बड़ा फैक्टर

उत्तर प्रदेश में 7.17 करोड़ से अधिक है महिला मतदाताओं की संख्या, जीत-हार में निभा रहीं बड़ी भूमिका

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश की आधी आबादी हर बार की तरह इस बार भी चुनावों में बड़ा फैक्टर साबित होने जा रही है। सभी पार्टियां आधी आबादी को लुभाने में लगी हुई हैं लेकिन यदि पिछले कुछ चुनावों में वोटिंग पैटर्न पर नजर डालें तो आधी आबादी का रुझान पीएम मोदी और सीएम योगी के समर्थन में रहा है। 2014 से आए इस बदलाव में 2017 के बाद और मजबूती आई है। विगत 7 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने महिला केंद्रित योजनाओं को आगे बढ़ाकर आधी आबादी को और सशक्त किया है। योगी सरकार प्रदेश में बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा और विवाह तक के लिए योजनाएं चला रही है। वहीं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी कई तरह की योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बेहतर स्थिति के चलते महिलाएं अब बिना भय के जीवनयापन कर पा रही हैं। राज्य की महिला श्रम बल में भागीदारी दर 32.10 प्रतिशत पहुंच चुकी है। सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के साथ ही आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहीं महिलाएं इस बार 80 में 80 सीटें जीतने के पीएम मोदी के संकल्प को पूरा करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 15.34 करोड़ है, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या 7.17 करोड़ है, जो डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकता है। महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सुनिश्चित करने के सीएम योगी के संकल्प के साथ ही किए गए प्रयासों के सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। पीरियॉडिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य की महिला श्रम बल में भागीदारी दर 2017-18 में 14.2 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 32.10 प्रतिशत हो गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित प्रयास किए गए, जिसके परिणामस्वरूप यह वृद्धि हुई है। महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध में सजा दिलाने में यूपी पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनकर उभरा है। महिलाएं रात की पाली में भी काम कर सकें, इसके लिए नियमों को आसान बनाने का काम सरकार ने किया। खदानों में महिलाओं के काम करने पर जो कुछ बंदिश थी, वो सरकार ने हटाई है। देशभर के सैनिक स्कूलों के दरवाजे, लड़कियों के लिए खोल देने का काम भी ऐतिहासिक है। बलात्कार जैसे संगीन अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए योगी सरकार ने 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स स्थापित किए हैं। बालिकाओं को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सहायता राशि 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दी गई है।

योजना से अब तक 18.66 लाख बेटियां लाभान्वित हुई हैं। निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक योजना संचालित है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ ही सामान्य वर्ग के निर्धन परिवार भी आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ विधवा और तलाकशुदा भी उठा सकती हैं। एक जोड़े के विवाह पर कुल ?51 हजार की धनराशि की व्यवस्था है। योजना के तहत अब तक 3.50 लाख जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया जा चुका है। निराश्रित महिला को प्रति लाभार्थी 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। वर्तमान में 32.71 लाख निराश्रित महिलाओं पेंशन दी जा रही है।

पुरुषों से ज्यादा मतदान में दिलचस्पी ले रहीं महिलाएं

उत्तर प्रदेश में महिला मतदाताओं की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुर्सी तक पहुंचाने में महिला वोटर्स की हिस्सेदारी काफी महत्वपूर्ण रही है। बीते कुछ वर्षों में यूपी में वोटिंग पैटर्न कुछ इस तरह का रहा है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा वोट कर रही हैं। साल 2017 में 63.31 फीसद महिला मतदाताओं ने वोट किया था, जबकि 2019 लोकसभा में यह प्रतिशत 67.18 रहा। एक अनुमान के मुताबिक महिला वोटिंग में पिछले तीन दशकों में 15 फीसद तक की बढ़त हुई है। महिलाओं में बढ़ती राजनीतिक चेतना के साथ-साथ चुनावों में उनकी रुचि का यह साफ संकेत है। महिलाएं राजनीतिक रूप से अपनी स्थिति को पहले से बेहतर समझ रही हैं और निर्णायक वोट बैंक के तौर पर उभर रही हैं। आंकड़ों से यह बात साफ हो गई है कि महिलाओं का जिस दल की ओर झुकाव रहा है वह सत्ता में पहुंचने में कामयाब रहा है।

फेक और पेड न्यूज पर कड़ी नजर रखेगा चुनाव आयोग

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मीडिया प्रतिनिधियों के साथ किया संवाद

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मंगलवार को लोकभवन स्थित मीडिया सेन्टर में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के संबंध में मीडिया प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। उन्होंने संवाद के दौरान मीडिया प्रतिनिधियों को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लागू की गई आदर्श आचार संहिता के बारे में विस्तृत रूप से बताया। आदर्श आचार संहिता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का संग्रहण है, जिसके द्वारा राजनैतिक दलों, शासकीय सेवकों एवं निर्वाचन प्रक्रिया में अन्य सहभागियों को निर्वाचन के दौरान अपेक्षित आचरण करने के लिए बाध्य करती है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान फेक और पेड न्यूज पर आयोग की कड़ी नजर होगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस दौरान मीडिया प्रतिनिधियों को फेक न्यूज के बारे में सचेत करते हुए उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में बताया कि किसी भी समाचार या गलत सूचना और मीडिया स्टोरी की पहचान व त्वरित प्रतिक्रिया के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक एसओपी तैयार की गई है। एमसीएमसी द्वारा राजनैतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन, पेड न्यूज निगरानी और रिपोर्टिंग तथा मीडिया उल्लंघनों की मॉनीटरिंग की जाती है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन के दौरान समस्त विज्ञापन एमसीएमसी द्वारा प्रमाणित किये जाने के बाद ही इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रसारित किये जा सकते हैं। नामांकन दाखिल करने की तारीख से पेड न्यूज मामलों को ध्यान में रखा जाता है। उन्होंने बताया कि विशिष्ट समाचार पत्रों के एक ही पृष्ठ पर, प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों की प्रशंसा करते हुए एक के ही चुनाव जीतने की संभावना का दावा संबंधी लेख, ऐसा समाचार जिसमें एक उम्मीदवार को समाज के प्रत्येक वर्ग का समर्थन मिला होना और वह उस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतेगा संबंधी प्रकाशित खबर पेड न्यूज की श्रेणी में आयेंगे। पेड न्यूज का प्रकरण सत्यापित होने पर डीआईपीआर/डीएवीपी दरों के आधार पर इसका वास्तविक या अनुमानित व्यय उम्मीदवार के चुनाव व्यय खातों में जोड़ा जायेगा। प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नाम, पेड न्यूज आइटम के सभी विवरणों के साथ आयोग द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु भारतीय प्रेस परिषद और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को भेजा जायेगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन के दौरान प्राधिकार पत्र धारित मीडिया प्रतिनिधियों को मतदान एवं मतगणना केन्द्रों में प्रवेश दिया जायेगा। उन्होंने मतदान से संबंधित गोपनीयता बनाये रखने हेतु मीडिया प्रतिनिधियों से अपेक्षा की है। मीडिया प्रतिनिधियों के लिए प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर मीडिया केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

आयोग के निर्देशों के क्रम में निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के 48 घण्टें पूर्व की अवधि में निर्वाचन संबंधी कोई भी प्रचार सामग्री सिनेमा हॉल, टेलीविजन या किसी अन्य विधि से प्रसारित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। प्रथम चरण के मतदान से लेकर अंतिम चरण के मतदान की समाप्ति के आधे घण्टे बाद तक एक्जिट पोल भी प्रतिबंधित रहेगा। एमसीएमसी से प्रमाणन के बाद ही राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों के राजनैतिक विज्ञापन प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशित हो सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव के दौरान मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक ही प्रत्याशी को प्रोजेक्ट नहीं करना है बल्कि सभी को समान कवरेज देना है।

जनपद में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत धारा 144 हुई लागू

कानपुर देहात। वर्तमान में रमजान माह का आरम्भ है एवं आगामी दिनों में होलिका दहन, होलिकोत्सव, गुड फ्राइडे ईद.उल.फित्रए चैत्र नवरात्रि श्रीराम नवमी आदि विशेष पर्व त्योहार मनाये जायेगें तथा लोकसभा सामान्य निर्वाचन.2024 की अधिसूचना के अनुसार जनपद में आदर्श आचार संहिता मतगणना की तिथि तक प्रभावी है। उक्त त्योहारों के दृष्टिगत जनपद में लोक व्यवस्थाध्शान्ति व्यवस्था एवं जनमुख बनाये रखना अतिआवश्यक है। जिसके दृष्टिगत अपर जिला मजिस्ट्रेट ;प्रशासनद्ध कानपुर देहात अमित कुमार द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा.144 में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक व्यवस्थाध्शान्ति व्यवस्थाध्जन सुरक्षा एवं जनजीवन को सामान्य बनाये रखने की दृष्टि से जनपद की सम्पूर्ण सीमा में इसके अन्तर्गत पड़ने वाले समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु निम्नलिखित निषेधाज्ञाए पारित करता है। जनपद कानपुर देहात में किसी भी व्यक्तिध्संस्थाध् संगठन द्वारा किसी कार्यक्रम ध् माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव व सामाजिक सौमनस्य को बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया जायेगा। जनपद में कोई भी ड्रोन कैमरा का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना नहीं करेगाए किन्तु सुखा एजेन्सिया इससे मुक्त रहेगी। किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के समूह के साथ सम्मलित नहीं होगाए जिसका उद्देश्य किसी विधि विरुद्ध गतिविधि में भाग लेना हो। कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेन्स तेजाब व अन्य कोई पदार्थ जो विस्फोटक सामग्री की श्रेणी में आता है एकत्रित नहीं करेगा साथ ही कंकड़ए पत्थर खाली बोतलोंए शीशे के टुकड़े आदि ऐसी सामग्री का संग्रहए जिसका प्रयोग लोक व्यवस्था, शान्ति, कानून व्यवस्था, शान्ति, कानून व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए हो सकता है, अपने भवनों में या छतों या अन्य स्थानों पर कहीं नहीं करेगा और न ही रखेगा। किसी व्यक्तिध्संगठन द्वारा ऐसा कोई कार्यक्रम सार्वजनिक/निजी स्थल पर आयोजित नहीं किया जायेगा, जिससे किसी जाति, पंथ, संगठन, धर्म के अनुयायिओं/ व्यक्तियों की भावनाओं को आधात पहुंचे और साम्प्रदायिक/धार्मिक उन्माद की स्थिति उत्पन्न हो। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के प्रचार आदि के लिए अपने साथ.साथ किसी अन्य व्यक्ति की भूमिए भवन आदि का किसी भी रूप में प्रयोग बिना पूर्व अनुमति के नहीं करेगा। कोई भी व्यक्तिए भवन स्वामी की अनुमति के बिना उसके भवन, दीवार अथवा अन्य स्थान पर पोस्टर, हैण्डबिल नहीं चिपकायेगा।

बिना सीएमओ की अनुमति के साठ लाख का आक्सीजन प्लांट उतारा कंपनी के वर्करों ने

हमीरपुर। मरीजों की सुविधा के लिये दस लाख लीटर क्षमता का व साठ लाख कीमत का शासन से आया आक्सीजन प्लांट बिना सीएमओ की अनुमति के ही 36 घंटे बाद अस्पताल परिसर में कंपनी के वर्करों ने उतार कर छुट्टी पा ली है। प्लांट लावारिस हालत में अस्पताल परिसर में पड़ा है। सदर अस्पताल के लिये दस लाख लीटर क्षमता का साठ लाख कीमत का एलएमको आक्सीजन प्लांट शासन ने खरीद कर कारपोरेशन के माध्यम से हमीरपुर सोमवार को सुबह दिल्ली से भेज दिया गया था। मगर जिला अस्पताल में स्थान न होने व शासन से स्पष्ट आदेश न होने के कारण सीएमओ डा.गीतम सिंह ने प्लांट उतारने से साफ इंकार कर दिया। दिल्ली से एलएमको कंपनीसे प्लांट लेकर आये कंपनी के वर्कर पंकज कुमार ने सीएमओ को कारपोरेशन के समस्त कागजात दिखाये तो सीएमओ असमंजस में पड गये मगर उन्होने कहा कि सदर अस्पताल में कोई स्थान न होने के कारण वह प्लांट लेकर कोई रिस्क नही लेना चाहते है। हमीरपुर सीएमओ दफ्तर के सामने खड़ा ट्रक 36 घंटे बाद हार थक कर कंपनी के वर्कर व चालक ने अस्पताल परिसर में टंकी के पीछे प्लांट उतार दिया है। सीएमओ का कहना है कि कंपनी के वर्कर अपने रिस्क में उतार गये है। कोई बात होती है तो वह जानेगे प्लांट लेने के लिये कोई शासन से आदेश नही है। जिले में यह सबसे भारी व अधिक क्षमता का प्लांट बताया जाता है। जिला अस्पताल के सीएमएस डा एसपी गुप्ता का कहना है कि आक्सीजन प्लांट कहा लगाया जाये सोचना पडेगा। यदि अस्पताल के सामने बने आवास ढहा दिये जाये तो प्लांट स्थापित किया जा सकता है।

आदर्श आचार संहिता का अनुपालन और दैनिक खर्च को व्यय लेखा में अंकन करें राजनैतिक दलः डीएम

● डीएम ने ली राजनीतिक दलों संग बैठक, बताए चुनाव के कायदे कानून

लखीमपुर खीरी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने, राजनैतिक दलों को व्यय के अनुवीक्षण से संबंधित सभी प्राविधानों से अवगत कराने के उद्देश्य से मंगलवार को डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कलेक्ट्रेट में राजनीतिक दलों के संग बैठक की। इसमें आयोग की ओर से व्यय मद की दरों के बारे में दिए गए निर्देशों की जानकारी दी गई। साथ ही लेखा व्यय सही न होने पर आयोग की ओर से कार्रवाई के दिए गए निर्देशों के बारे में भी बताया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि व्यय लेखा राजनैतिक दलों के चुनाव खर्च की पारदर्शिता को दर्शाता है। सभी राजनैतिक दल दैनिक खर्च होने वाली रकम का मदवार व्यय लेखा में अंकन करें। इससे जांच के समय किसी प्रकार की दिक्कत न हो। आयोग की जवाबदेही से भी बचें। उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता और निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण, सी विजिल, वोटर हेल्पलाइन एप्प, सुविधा ऐप सहित अन्य लिंक सहित राजनीतिक दलोंए अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन के दौरान व्यय किए जाने की सीमाए व्यय लेखों के संरक्षण के संबंध में आयोग के निर्देशों की जानकारी दी। सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने निर्वाचन अवधि के दौरान वाहनों व रैलियों की अनुमति की प्रक्रिया तथा इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा.निर्देशों से भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया। सभी राजनीतिक दलों से उनके स्टार प्रचारकों की रैलियोंए रोड शो और अन्य होने वाले चुनावी आयोजनों के लिए खर्च के प्रावधान की भी जानकारी दी।

अज्ञात वाहन की टक्कर में वैन सवार तीन की मौत, एक गंभीर

फर्रुखाबाद। जहानगंज थाना क्षेत्र में आज किसी किसी ज्ञात वाहन की जोरदार टक्कर से एक मारुति बैन में सवार तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई तथा एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया । यह जानकारीआज मोहम्मदाबाद पुलिस उपाधीक्षक अरुण कुमार ने दी। पुलिस ने बताया कि जहानगंज थाना क्षेत्र में काली नदी पुल के समीप रात्रि कालीन पिकेट ड्यूटी पुलिस को आज मंगलवार तड़के रात्रि 1. 30 बजे सूचना मिली कि फर्रुखाबाद - काली नदी छिबरामऊ मार्ग पर थाना क्षेत्र के फौजी पेट्रोल पंप के पास किसी अज्ञात वाहन की जोरदार टक्कर से एक मारुति वैन के बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने से उसमें फंसे सवारो की चीख पुकार मची हुई है।

इसी सूचना पर जहानगंज थानाध्यक्ष भोलेद्र चतुर्वेदी अपने दलवल के साथ मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के वाद दुर्घटना ग्रस्त मारुति वैन को कटवाकर वैन में फंसे सवारो मे कन्नौज जिले के थाना छिबरामऊ के ग्राम कसावा निवासी खिलावन उर्फ दीपू व इसी जिले के थाना तालग्राम के ग्राम यूसूपुर निवासी रामजीत प्रजापति व इसी जिले के मौकमपूर पुलिया बिशनगढ़ निवासी अनमोल तथा ग्राम युसूपुर निवासी शिवम को बाहर निकला गया। इसके बाद एम्बुलेंस 108 से इन चारों गंभीर रूप से घायलों को अचेतावस्था समीपवर्ती कन्नौज जिले के छिबरामऊ के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया जहां सरकारी चिकित्सक ने खिलावन उर्फ दीपू व रामजीत प्रजापति व अनमोल को मृत घोषित कर दिया तथा उनके साथी शिवम को उपचार के लिए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया ।जहानगंज थानाध्यक्ष भोलेद्र चतुर्वेदी ने बताया कि मारुति वैन सवार तीनों मृतकों के शवो के पोस्टमार्टम कन्नौज जिला अस्पताल में होंगे।

पुखरायां में निकाली खाटू श्याम जी की निशान यात्रा

संवाददाता। पुखरायां, कानपुर देहात

श्री खाटू श्याम भक्त मंडल के तत्वाधान में मंगलवार को खाटू श्याम जी की भव्य निशान शोभा यात्रा निकाली गई। निशान यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला। निशान यात्रा गुलजारेश्वर धाम से मेन रोड, मंडी मोड़, टाकीज गली, अग्रवाल चौराहा, मौहर देवी मंडी, बडेमहादेवन, महाराजा अग्रसेन मार्ग होते हुए श्री श्याम मंदिर तक निकाली गई। निशान यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन अपने हाथों में श्याम ध्वज लेकर शामिल होकर पदयात्रा निकाली। भाव विभोर होकर लोगों ने पदयात्रियों का भव्य स्वागत किया। सभी इमारतों से फूल बरसाए गए। इस दौरान निशान यात्रा में बाबा की झलक पाने के लिए राहगीर भी लालायित हो रहे थे। श्री श्याम मंदिर में निशान चढ़ाते हुए भक्तों ने श्याम बाबा के दर्शन किए। इस निशान यात्रा में अनुभव अग्रवाल, करुणा शंकर दिवाकर, दीपक कंछल, अमित गोयल, कुलदीप गौड़, संदीप गौड़, सृजन बंसल, कुशल बंसल, सार्थक गर्ग, नवनीत गर्ग, शिवम गर्ग, अंशू गौड़, मुकेश गोयल, पुन्नू गौड़, रिंकू बाजपेई, संजय गुप्ता, पुलकित गोयल, प्रसुन गोयल, प्रतीक अग्रवाल, आकाश मित्तल शिवम गौड़ व सुप्रिया, पूनम दिवाकर, जहान्वी गर्ग, प्रीति बंसल, संगीता गोयल, संगीता कंछल, राधा गर्ग, अर्चना अग्रवाल, शैल प्रभा गोयल, जानकी सोनी, दीपिका गुप्ता, साधना देवी, विद्या देवी, नीतू गुप्ता, सारिका गुप्ता, निधि गुप्ता, रजनी ओमर, शिवानी गुप्ता, शामिल हुईं। पद यात्रा और निशान चढ़ाने को लेकर मान्यता यह रही है कि श्री श्याम बाबा के महाबलिदान शीश दान के लिए उन्हें निशान चढ़ाया जाता है। यह उनकी विजय का प्रतीक है, जिसमें उन्होंने धर्म की जीत के लिए दान में अपना शीश ही भगवान श्री कृष्ण को दे दिया था। जिन्हें प्रसन्न करने को निशान छोटे से बड़े मुख्यत केसरी नीला, सफेद, लाल या पीले रंग का झंडा निशानों पर श्याम बाबा और कृष्ण भगवान के जयकारे और दर्शन के फोटो लगाते है।

खाटू श्याम की यात्रा में निशान लेकर शामिल महिलाएं

दसवी का छात्रा समेत तीन ने फांसी लगाकर दी जान

हमीरपुर। अलग अलग थाना क्षेत्रों में मंगलवार को नाबालिंग छात्रा समेत तीन लोगो ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। स्थानीय मेरापुर मोहाल निवासी मोवाइल विक्रेता रिफाकत (50) की पत्नी की आकस्मिक मृत्यु के बाद रिफाकत डिप्रेशन में रहने लगे थे। इधर रिफाकत का सोलह वर्षीय पुत्र पिता से दूरिया बनाता जा रहा था। जिससे रिफाकत और भी डिप्रेशन में आ गया मंगलवार को घर में सूनसान पाकर रिफाकत गमछे से फांसी लगाकर जान दे दी। दूसरी घटना मौदहा क्षेत्र के करहिया गांव में घटित हुई,गांव की ऊषा(45) पत्नी शिव विशाल ने मंगलवार को अज्ञात कारणों के चलते घर में फांसी लगाकर जान दे दी। तीसरी घटना राठ क्षेत्र औडेरा गांव निवासी सपना (16) दसवी की छात्रा थी। सपना के पिता विश्वनाथ अपनी पत्नी के साथ हरियाणा में जाकर मेहनत मजदूरी करता था सपना अपने बाबा फूलसिंह अहिरवार के साथ रह रही थी। सपना सूना घर पाकर घर में दुपट्टे से फांसी लगाकर जान दे दी।

क्विक न्यूज

खाद्य विभाग की टीम ने आठ स्थानों से लिए नमूने

फतेहपुर। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में होली पर्व के अवसर पर जनपद में मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों में मिलावट पर प्रभावी रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मंगलवार को टीम ने जिले के आठ स्थानों पर छापेमारी करके नमूने संग्रहित कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं। साथ ही दुकानदारों को मिलावटखोरी से दूर रहने व साफ्सफाई पर फोकस करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार दीक्षित, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरविन्द कुमार सिंह, महेन्द्र कुमार यादव, धीरज कुमार दीक्षित, राम बाबू, पूजा गुप्ता की टीम बिंदकी खोया मंडी पहुंची जहां रामनारायन से खोया का एक नमूना, इसी मंडी में उमाशंकर, राजन, सुभाष से खोया का एक-एक नमूना, सामर्था डेयरी जोनिहा बिन्दकी से मिश्रित दूध का एक नमूना, जोनिहां कस्बे में अशोक कुमार से पनीर का एक नमूना, भकीनपुर में अनिल कुमार से पापड़ का एक नमूना व जोनिहां कस्बे में उत्तम सिंह से पनीर का एक नमूना संग्रहित कर जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा। जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी। समस्त खाद्य कारोबारियों को खाद्य पदार्थों को ढककर रखने, दुकानों में साफ्सफाई रखने, मिलावट रहित शुद्ध एवं गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ बेचने एवं सभी खाद्य पदार्थों के क्रय बिल ध् टैक्स इनवाईस को रखने तथा व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करने के साथ ही बिना लाइसेंस के खाद्य कारोबार संचालित नही करने के कड़े निर्देश दिये गये। होली पर्व के दृष्टिगत सम्पूर्ण जनपद में छापेमारी अभियान अनवरत जारी रहेगा।

अधेड़ की ट्रेन से टकराकर मौत

फर्रुखाबाद। कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव गांधीनगर भटपुरा निवासी देवेंद्र बाथम पुत्र रामरूप की आज ट्रेन से कट कर मौत हो गई। 45 वर्षीय देवेंद्र मेंन रोड स्थित एक होटल पर कुछ दिन पहले काम करते थे। होटल संचालक ने बताया कि लगभग 15 दिन पहले देवेंद्र यह काम पर नहीं आये। आज घूमते देखे गए होटल के सामने ही उनकी ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। जिसकी सूचना पुलिस तथा उनके परिवार वालों को दी गई। मौके पर पहुंचे दरोगा शंकरानंद ने शव का पंचनामा भर कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। गांव वालों ने बताया कि देवेंद्र दो भाई थे एक भाई शिवपाल पंजाब में मजदूरी करता है। देवेंद्र होटल पर काम करते थे और वही खाना खाते थे। देवेंद्र का एक 8 वर्षीय पुत्र भी है जिसका नाम विकास है। पत्नी की दो-तीन साल पहले मृत्यु हो चुकी है। देवेंद्र की दो बहने हैं जान देवी, सीमा दोनों का विवाह हो चुका है। माता-पिता की भी मौत हो चुकी है। दरोगा शंकारानंद ने बताया कि देवेंद्र की बहन से बात हुई थी, उसे विक्षिप्त बताया गया। होटल संचालक ने भी बताया कि देवेंद्र को दौरा पड़ने की शिकायत थी।

किसान की गोली मारकर हत्या, अर्धनिर्मित दुकान में सोया था

संडीला (हरदोई)। अर्धनिर्मित दुकान में सो रहे एक किसान की अज्ञात हत्यारों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। घटना थाना अतरौली के अंतर्गत महंगवां संडीला मार्ग पर बरतली चौराहे के पास हुई। बताया गया है कि ग्राम रेहरियामऊ निवासी सुरेश पुत्र पुत्तू आयु लगभग 45 वर्ष अपने खेतों में बन रही दुकान में लेटने के लिए गया था। सुबह ग्रामीणों ने उसका शव चारपाई के नीचे पड़ा हुआ देखा। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तथा मामले की छानबीन शुरू की। मृतक सुरेश को दो गोलियां मारी गयी हैं। एक गोली उसके पेट में तथा दूसरी गोली उसकी छाती पर लगी है। इस घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक केशव चन्द्र गोस्वागमीए अपर पूलिस अधीक्षक पूर्वी निर्पेन्द्र सिंहए सीओ शिल्पा कुमारी और फॉरेन्सिक टीम ने मौके का बारीकी से निरीक्षण किया। मौके पर पहुंचे एसपी श्री गोस्वामी ने बताया कि मृतक पासी जाति का है और उसके सीने में गोली लगी है। पास में ही 312 बोर का कारतूस का खोखा भी मिला है। इस घटना की एफ्आईआर मृतक के परिजन ने दो लोगों को नामजद करते हुए कराई है। पुलिस घटना के खुलासे के लिए जुट गई है।

ट्रक की टक्कर से ट्रॉली खड्ड में गिरी, मजदूर की मौत

संडीला (हरदोई)। एक ईंट भट्ठे की ट्रैक्टर ट्रॉली को तेज गति से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी जिससे ट्रॉली खड्ड में जा गिरी जिससे उसपर बैठे मजदूर की दुखद मृत्यु हो गयी। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना कासिमपुर के अंतर्गत ग्राम कुमेदानखेड़ा निवासी 35 वर्षीय मोतीलाल एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी करता था। वह ईंटे लादकर मल्लावां गया था। ट्रैक्टर ग्राम समोधा निवासी मनोहर चला रहा था। देर रात ईंट उतारकर वापस लौटते समय पीछे से आ रहे ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टककर मार दी जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली खड्ड में जा गिरी और इसके नीचे दबकर मोतीलाल की मौत हो गयी। पुलिस ने मोतीलाल के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है।

डीएम ने की राजनैतिक दलों के साथ बैठक

कानपुर देहात। जिलाधिकारी आलोक सिंह की अध्यक्षता में राजैनतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक मॉ मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष कलेक्ट्रेट में सम्पन्न हुई। बैठक में लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 में आचार संहिता के अनुपालन व निर्वाचन को शांतिपूर्ण, सकुशल, सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत विभिन्न दिशा निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिये गये। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील किया कि वे आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए प्रचार.प्रसार व अन्य गतिविधियों को सम्पादित करे, जिससे जनपद में सौहार्दपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराया जा सके। उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर कन्ट्रोल रूम बनाया गया हैए जहां पर अपनी शिकायतें/सुझाव राजनैतिक दल नोट करा सकते है, प्राप्त शिकायतों का त्वरित संज्ञान लेकर कार्यवाही की जायेगी। कोई भी राजनैतिक दल किसी मतदान बूथ के दो सौ मीटर के दायरे के अन्दर में कार्यालय नही खोलेगा।

दोषियों को कारावास व जुर्माने की सजा

लखीमपुर. खीरी। ऑपरेशन कन्वैक्शन के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह के दिशा निर्देशन में थाना मोहम्मदी व पसगवां की पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मदी व न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मदी द्वारा 9 आपराधिक मामलों में दोषियों को कारावास व अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मदी द्वारा थाना मोहम्मदी क्षेत्र के ग्राम पालचक के निवासी प्रकाश पुत्र गोवर्धन कहार ए मुकदमा अपराध संख्या 374/2010 धारा 60 (2) आबकारी अधि., तेजा पुत्र राम भरोसे, मुकदमा अपराध संख्या 707/2010 धारा 60 (2) आबकारी अधिनियम, थाना मोहम्मदी के ग्राम बौधनिया निवासी संतराम पुत्र बालक राम व राम सिंह पुत्र बाबूराम व ग्राम मुकदमा अपराध संख्या 1299/2008, धारा 60 (2) आबकारी अधि. एवं बिशनू पाल पुत्र श्रीपाल, बबलू पुत्र श्रीपाल मुकदमा अपराध संख्या 747/2006 धारा 60 (2) आबकारी अधिनियमए ग्राम मोहम्मदपुर मजरा अमीननगर के निवासी अरसद पुत्र सिरजू, मुकदमा अपराध संख्या 1073/2008, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, ग्राम पलचक निवासी कमलेश पुत्र राधे गिरी व बालक राम पुत्र प्यारेलाल, मुकदमा अपराध संख्या 39/2023, धारा 60;2द्धआबकारी अधिनियम, ग्राम गुलौली निवासी ललित कुमार मिश्रा पुत्र राम सागर मिश्रा मुकदमा अपराध किया 408/2002, धारा 25 आर्म्स एक्ट ए ग्राम पलिया के निवासी हंसराज पुत्र शंभू लोहार मुकदमा अपराध संख्या 353/1999, 60/62 आबकारी अधि., मा. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मदी द्वारा थाना पसगवां के ग्राम ताल सागर निवासी सर्मेन्द्र पुत्र सत्यवान को मुकदमा अपराध संख्या 1057/2012, धारा 60 (2) आबकारी अधिनियम के अतंर्गत मुकदमे का विचारण किया गया था द्य विचारण के बाद माननीय न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्तों के दोषी पाये जाने पर जेल में बिताई अवधि के कारावास एवं अर्थ दण्ड की सजा से दंडित किया है।

जल जीवन मिशन टैंकों में हो रहा घटिया सामग्री का प्रयोग

● आधे गांव के नलों की टोटियों तक नहीं पहुंच रहा पानी ●समस्या का निस्तारण न होने पर ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार की चेतावनी दी

जलनिगम का लागत बोर्ड, सेम ईंट लगाते मजदूर व प्रदर्शन करते ग्रामीण।

गुरसहायगंज (कन्नौज)। केंद्र सरकार द्वारा जहां एक ओर ग्रामीण अंचलों में घर-घर पानी पहुंचाये जाने के उद्देश्य से ग्राम खाड़ेदेवर में जल जीवन मिशन द्वारा करोड़ों की लागत से पानी की टंकी बनवाई गई है। वहीं दूसरी ओर पेयजल आपूर्ति के लिए डलवाई गई मानक विहीन पाइपलाइन दर्जनों जगह से लीकेज है। जिसके कारण आधे गांव के घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। वही जिम्मेदारों द्वारा पानी की टंकी के अतिरिक्त पानी को सोखने के लिए बनवाई जा रहे टैंको में सेम ईट सहित मानक के अनुसार सीमेंट मौरम का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। जब संवाददाता द्वारा जिम्मेदार ठेकेदार से दूरभाष पर वार्ता की गई तो ठेकेदार संतुष्टि जनक बयान नहीं दे सके। वही मौके पर मौजूद ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मो. इरफान उर्फराजू ने बताया कि आधे गांव में जगह-जगह लीकेज हुई पाइपलाइन के कारण गलियों व सड़कों में पानी भर रहा है। जबकि आधे गांव में लगी नल की टोटियों तक पानी पहुंच ही नहीं रहा है। उनके द्वारा जिम्मेदार कर्मियों को कई बार सूचना दी गई लेकिन समस्या का निस्तारण नहीं किया गया। जिस पर संवाददाता ने अपनी टीम के साथ गांव का भ्रमण किया तो पाया गया कि करीब दो दर्जन से अधिक जगहों पर पाइपलाइन लीकेज की समस्या पाई गई। वहीं ब्लाक तालग्राम के ग्राम खाड़ेदेवर के आंशिक भाग पुरबा में पेयजल की समस्या से त्रस्त ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि पेयजल की समस्या का निस्तारण न होने की स्थिति में वह आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। अब देखना यह है कि जिम्मेदारों द्वारा केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना में बरती गई लापरवाही की जांच कर कर दोषियों पर कार्रवाई करेंगे या फिर ग्रामीणों की समस्या को एक बार फिर से चलता कर देंगे।

रणजी में सिलेक्शन करवाने का झांसा देकर भाजपा नेत्री ने ठगे लाखों

फतेहपुर। भाजपा नेत्री ने एक युवा क्रिकेटर को रणजी में सिलेक्शन करवाने का झांसा देकर 4.50 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस ने भाजपा नेत्री और उसके दो बेटों पर धोखाधड़ी सहित अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक, कल्यानपुर थाना क्षेत्र के इटरौरा पिलखनी गांव निवासी अरविंद कुमार सदर कोतवाली क्षेत्र के शांतीनगर मोहल्ले में किराए के मकान में रहकर क्रिकेट की कोचिंग करता है। बताया जा रहा है कि करीब एक महीने पहले उसकी मुलाकात भाजपा के महिला मोर्चा की जिला मंत्री वंदना द्विवेदी से हुई थी। इस दौरान भाजपा नेत्री ने क्रिकेटर अरविंद से कहा कि उसका बेटा अमित द्विवेदी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में रणजी टीम में सेलेक्ट हो गया है। नेत्री ने अरविंद के भी चयन करा देने की बात कही। साथ ही एवज में 10 लाख रुपए की मांग की। इस पर अरविंद तैयार हो गया और नेत्री के कहने पर उसके बेटे अमित के बैंक खाते में अलग-अलग किस्तों में 4.50 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। महीनों बीत जाने के बाद जब अरविंद महिला से इस बारे में जानकारी ली तो चयन हो जाने की बात कह कर महिला ने टरका दिया। आशंका अरविंद हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन पहुंचकर जानकारी की तो पता चला कि अमित द्विवेदी नाम के किसी खिलाड़ी का वहां चयन नहीं हुआ। इसके बाद वापस लौटे पीड़ित ने महिला से रुपए वापस मांगे। पीड़ित का आरोप है कि इस दौरान भाजपा नेत्री और उसके बेटे अमित और सुमित ने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। कोतवाल राजेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में कोर्ट के आदेश पर भाजपा नेत्री और उनके दो बेटों के खिलाफधोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी के साथ अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

पैमाइश में गलत निकली नगर पंचायत की कार्यवाही

● पूर्व अध्यक्ष के निर्माण कार्य को पंचायत कर्मियों द्वारा ध्वस्त करने का मामला, नायब तहसीलदार की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

संवाददाता। गुरसहायगंज (कन्नौज)

क्षेत्र के कस्बा समधन में पूर्व चेयरमैन के पुत्र द्वारा अपनी जमीन पर कराये जा रहे निर्माण कार्य को नगर पंचायत कर्मियों द्वारा अवैध बता कर बगैर राजस्व कर्मी के ध्वस्त किए जाने के मामले में बड़ी चूक सामने आई है। नायब तहसीलदार की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि निर्माण कार्य पूर्ण रूप से वैध था।

बताते चलें कि विगत महापूर्व नगर पंचायत समधन द्वारा प्रभारी निरीक्षक को संबोधित प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि समधन के पूर्व चेयरमैन के पुत्र सैयद अहमद उसैब बद्दू द्वारा अवैध निर्माण कार्य तालाब की भूमि पर करवाया जा रहा है। जिस पर पुलिस द्वारा अवैध निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया था। लेकिन अगले दिन फिर से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था। नगर पंचायत के कर्मचारियों द्वारा बगैर प्रशासन के बलपूर्वक निर्माण कार्य को गिरवा दिया गया था। वहीं पूरे मामले में लेखपाल की भूमिका को भी पंचायत कर्मियों ने संदिग्ध बताया था। पंचायत कर्मी ने लेखपाल व अन्य उच्चाधिकारिओ की साठ गांठ से नगर पंचायत की सरकारी तालावी भूमि पर अवैध निर्माण कार्य करवाए जाने का आरोप लगाया था। जिस पर निर्माण कार्य करवा रहे बसपा नेता सैयद अहमद उसैब द्वारा मामले के संबंध में उच्च अधिकारियों को एक प्रार्थना पत्र देकर पुन जांच की मांग की गई थी। उच्चाधिकारियों को निर्देश पर एक जांच टीम का गठन किया गया जिसमें छिबरामऊ तहसील के नायब तहसीलदार सहित राजस्व निरीक्षक एवं तीन लेखपालों द्वारा जांच के उपरांत तैयार की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि सैयद अहमद उसैब द्वारा निर्माण कार्य गाटा संख्या 2041 में कराया जा रहा था जो की पूर्णता सही था। वह भूमि संक्रमणीय भूमिधर आरजी में स्थित है। तालाब की भूमि में कोई नया निर्माण कार्य नहीं किया गया है इस पूर्व उक्त गाटा संख्या 2040 की राजस्व निरीक्षक की उपस्थिति में राजस्व टीम द्वारा पैमाइश की जा चुकी है।

जानकारी देते बसपा नेता सैयद उसैब का फाईल फोटो।

डीएम ने की राजनैतिक दलों के साथ बैठक

● सभी राजनैतिक दल आयोग द्वारा दिये निर्देशों का करें अनुपालनः डीएम

●राजनैतिक दल आदर्श आचार संहिता का करें पालनः जिलाधिकारी

कानपुर देहात। डीएम आलोक सिंह की अध्यक्षता में राजैनतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक मॉ मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष कलेक्ट्रेट में सम्पन्न हुई। लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 में आचार संहिता के अनुपालन व निर्वाचन को शांतिपूर्णए सकुशलए सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत विभिन्न दिशा निर्देश डीएम द्वारा दिये गये। डीएम ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील किया कि वे आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए प्रचार.प्रसार व अन्य गतिविधियों को सम्पादित करेए जिससे जनपद में सौहार्दपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराया जा सके। जनपद स्तर पर कन्ट्रोल रूम बनाया गया है, अपनी शिकायतें/ सुझाव राजनैतिक दल नोट करा सकते है, प्राप्त शिकायतों का त्वरित संज्ञान लेकर कार्यवाही की जायेगी। कोई भी राजनैतिक दल किसी मतदान बूथ के दो सौ मीटर के दायरे के अन्दर में कार्यालय नही खोलेगाए राजनैतिक दल बिना अनुमति के सभा, जुलूश, रैली आदि का आयोजन नही कर सकेंगे। इस दौरान राजनैतिक दलों को व्यय सूची भी उपलब्ध करायी गयी। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी दल व्यय सीमा के अन्दर ही खर्च कर सकते है। अन्य संबंधित बिन्दुओं पर भी डीएम ने विस्तृत दिशा निर्देश दिये। अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश पाण्डेय, भारतीय जनता पार्टी से महेन्द्र कटियार, व अजय पाल, समाजवादी पार्टी से शेखू खान व डा0 नरेन्द्र सिंहए बहुजन समाज पाटी से सर्वेश कुमारए कम्युनिस्ट पार्टी व आमआदमी पार्टी के सदस्यगण आदि मौजूद रहे।

डीएम ने एआरओ व एफएसटी टीम के अधिकारियों के साथ की बैठकए दिये निर्देश

कानपुर देहात। डीएम आलोक सिंह की अध्यक्षता में एआरओ व एफएसटी टीम के अधिकारियों के साथ बैठक मॉ मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष कलेक्ट्रेट में सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल, शान्तिपूर्ण सम्पन्न करायें जाने के दृष्टिगत विभिन्न दिशा निर्देश संबंधित को दिये। जिलाधिकारी ने कहा कि गठित एफएसटी टीम अपने.अपने क्षेत्रों में निरंतर भ्रमणशील रहकर मॉडल कोड ऑफ कन्डक्ट/आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। एफएसटी टीम द्वारा कोई भी कार्यवाही अण्डर वीडियोग्राफी की जायेगी, एफ्एसटी टीम कन्ट्रोल रूम से प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण कराना सुनिश्चित करेंगी, कोई भी एफएसटी टीम अपने क्षेत्र से बाहर विचरण/भ्रमणशील नहीं रहेगी। आयोग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का भली भाति अध्ययन कर ले, उसी के अनुरूप कार्यवाही करें।

विपक्षी गठबंधन केवल हिंदू धर्म को निशाना बनाता है : मोदी

भाषा। सलेम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शक्ति वाली टिप्पणी को लेकर मंगलवार को विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया) पर एक बार फिर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) समेत उसके सहयोगी दल इसका (शक्ति का) विनाश करना चाहते हैं लेकिन वे खुद ही बर्बाद हो जाएंगे। कांग्रेस और उसकी दक्षिणी सहयोगी, तमिलनाडु की सत्तारूढ़ द्रमुक पर हमला बोलते हुए उन्होंने दोनों दलों को सिक्के के दो पहलू करार दिया और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार तथा वंशवाद की राजनीति के आरोप लगाए।

राहुल गांधी के शक्ति के खिलाफ लड़ाई वाले बयान पर सोमवार को विवाद खड़ा हो गया था और मोदी ने उस पर कड़ा जवाब देते हुए कहा था कि हर मां और बेटी उनके लिए शक्ति का रूप हैं और वह उनकी सुरक्षा के लिए अपना जीवन खपा देंगे। मोदी ने रविवार को मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की रैली में की गई राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उन पर सोमवार को निशाना साधा जिसके बाद कांग्रेस नेता ने स्पष्टीकरण दिया कि वह किसी धार्मिक शक्ति की नहीं, बल्कि अधर्म, भ्रष्टाचार और झूठ की शक्ति की बात कर रहे थे।

मोदी ने यहां की रैली में मंगलवार को इंडिया गठबंधन पर भी हमला करते हुए कहा, इंडी गठबंधन वाले बार-बार, जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। द्रमुक और कांग्रेस का इंडी गठबंधन और किसी धर्म का अपमान नहीं करता। किसी और धर्म के खिलाफ इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता। लेकिन हिंदू धर्म को गाली देने में ए एक सेकंड नहीं लगाते। उन्होंने कहा, अभी तो चुनाव अभियान की शुरुआत हुई है। लेकिन इंडी गठबंधन की योजनाओं और बदइरादे मुंबई में हुई उनकी पहली रैली में ही खुलकर सामने आ गए हैं। ए कह रहे हैं कि हिंदू धर्म की जिस शक्ति में आस्था होती है, उन्हें उस शक्ति का विनाश करना है। हिंदू धर्म में शक्ति किसे कहते हैं, ए तमिलनाडु का हर व्यक्ति जानता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि शक्ति का अर्थ मरियमन, मदुरै मीनाक्षीअम्मन और कांची कामाक्षीअम्मा जैसे राज्य के विभिन्न देवी-देवताओं से संबंधित है। राष्ट्रीय कवि सुब्रमण्यम भारती ने भारत माता को शक्ति के रूप में पूजा है। तमिलनाडु उन्हें सजा देगा, जो शक्ति का नाश करने की बात करते हैं। मैं शक्ति उपासक हूं। मोदी ने कहा, हमारे महाकाव्य इस बात का सबूत हैं कि जो लोग शक्ति का विनाश करना चाहते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। तमिलनाडु में 19 अप्रैल को होने वाले चुनावों की तारीख का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, मेरा तमिलनाडु भी 19 अप्रैल को यही करेगा। तमिलनाडु उन्हें सजा देगा जो शक्ति का नाश करने की बात करते हैं। यह तमिलनाडु के करोड़ों लोगों की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना सहित सरकार की विभिन्न महिला केंद्रित योजनाओं को भी रेखांकित किया और कहा कि इन योजनाओं के केंद्र में नारी शक्ति है। द्रमुक के बारे में उन्होंने कहा कि यह सबको पता है कि जब दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता जीवित थीं तो पार्टी ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया था।

यह द्रमुक का असली चेहरा है। वे महिला आरक्षण विधेयक का भी विरोध करते हैं। इस वजह से तमिलनाडु में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। द्रमुक के इस महिला विरोधी रवैए के खिलाफ 19 अप्रैल को वोट करें। द्रमुक और उसकी सहयोगी कांग्रेस की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि वे सिक्के के दो पहलू हैं जिन्हें बड़े भ्रष्टाचार, एक परिवार के शासन के लिए जाना जाता है। केंद्र में कांग्रेस के सत्ता से दूर होने के कारण देश संचार के 5जी स्तर पर पहुंच गया है। 2जी घोटाला कर उन्होंने (द्रमुक ने) भारत और तमिलनाडु को बदनाम किया... केंद्र तमिलनाडु के विकास के लिए लाखों करोड़ रुपए भेज रहा है लेकिन यहां की सरकार उसे लूट रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवारवादी पार्टियों ने दिवंगत दिग्गज कांग्रेस नेता जी के मूपनार को प्रधानमंत्री बनने की क्षमता के बावजूद उन्हें नई ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचने दिया।

आठ नए मंत्रियों के साथ हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार, अनिल विज को नहीं मिली जगह

भाषा। चंडीगढ़

हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार ने मंगलवार को अपना पहला मंत्रिमंडल विस्तार किया और पार्टी के आठ विधायकों को मंत्री बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को सैनी के मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। सैनी और पांच मंत्रियों ने पिछले सप्ताह शपथ ली थी। हरियाणा में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 14 मंत्री ही हो सकते हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने यहां राजभवन में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

हिसार से भाजपा विधायक कमल गुप्ता ने सबसे पहले कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। गुप्ता ने संस्कृत में शपथ ली। वह पूर्ववर्ती मनोहर लाल खट्टर मंत्रिमंडल में भी मंत्री थे। इसके बाद फरीदाबाद के बड़खल से विधायक सीमा त्रिखा, पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा, अंबाला सिटी से विधायक असीम गोयल, महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी क्षेत्र से विधायक अभय सिंह यादव, कुरुक्षेत्र के थानेसर से विधायक सुभाष सुधा, भिवानी के बवानी खेड़ा से विधायक बिशंबर सिंह वाल्मीकि और गुरुग्राम के सोहना से विधायक संजय सिंह ने राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद थे।

लोकसभा चुनाव से पहले पिछले सप्ताह भाजपा ने बदलाव करते हुए मनोहर लाल खट्टर की जगह अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के नेता सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया था। पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष सैनी ने एक सप्ताह पहले खट्टर के इस्तीफे के कुछ घंटे बाद पांच मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सैनी सरकार ने गत बुधवार को राज्य विधानसभा के विशेष सत्र में विश्वास मत हासिल किया। सैनी के शपथ ग्रहण वाले दिन खट्टर से पूछा गया था कि क्या विज का नाम उपमुख्यमंत्री पद की दौड़ में है, तो उन्होंने कहा था, मंत्रियों को आज शपथ लेनी थी और उनका (विज का) नाम उस (सूची) में था, लेकिन वह नहीं आ सके। यह पूछे जाने पर कि क्या विज असंतुष्ट हैं, तो उन्होंने कहा था, अनिल विज हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं... वह कभी-कभी जल्द नाराज हो जाते हैं।

दंतेवाड़ा में हुई मुठभेड़ में महिला नक्सली समेत दो नक्सली ढेर

भाषा। दंतेवाड़ा

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में हुई मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने एक महिला नक्सली समेत दो नक्सलियों को मार गिराया है। पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती इलाके में गमपुर गांव के जंगल में यह मुठभेड़ हुई। अधिकारियों ने बताया कि जंगल में सशस्त्र माओवादियों की उपस्थिति की सूचना मिलने के बाद सोमवार को डीआरजी, बस्तर फाइटर्स दंतेवाड़ा तथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त दल को नक्सल विरोधी अभियान पर भेजा गया था। अधिकारियों ने बताया कि अभियान के दौरान जब सुरक्षाबलों के जवान क्षेत्र में थे तब नक्सलियों ने उनपर गोलीबारी शुरू कर दी, इसके बाद सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्वाई की। उन्होंने कहा कि कुछ देर तक दोनों ओर से गोलीबारी के बाद नक्सली वहां से फरार हो गए, बाद में जब सुरक्षाबलों ने घटनास्थल की तलाशी ली तो वहां एक महिला नक्सली समेत दो नक्सलियों के शव, दो हथियार, विस्फोटक और अन्य सामान बरामद किया। उन्होंने बताया कि मारे गए नक्सलियों की पहचान की जा रही है, मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने की संभावना है, क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है। राज्य के कांकेर जिले में शनिवार को सुरक्षाबलों ने एक नक्सली को तथा शुक्रवार को बीजापुर जिले में दो नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया था।

मतदाताओं को लुभाने के लिए कुकर बांट रही है कांग्रेसः कुमारस्वामी

भाषा। बेंगलुरु

जनता दल (सेक्युलर) के नेता एच डी कुमारस्वामी ने बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं को लुभाने के लिए कांग्रेस पर कुकर बांटने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मंगलवार को मांग की। कुमारस्वामी ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार और उनके भाई एवं बेंगलुरु ग्रामीण सीट से मौजूदा सांसद और उस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार डी के सुरेश पर निशाना साधते हुए निर्वाचन क्षेत्र में उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और सीईओ (जिला पंचायत) पर निष्पक्ष चुनाव कराने का साहस नहीं होने का आरोप लगाया तथा निर्वाचन आयोग से उन्हें हटाने का आग्रह किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुकर, साड़ी समेत अन्य वस्तुओं के वितरण का एक दौर पहले ही पूरा हो चुका है।

जद(एस) के प्रदेश अध्यक्ष कुमारस्वामी ने कहा, बैंगलोर ग्रामीण में इस चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग, बाहुबल और धनबल का इस्तेमाल किया जा रहा है। वे (कांग्रेस) अधिकारियों की मदद से चुनाव जीतना चाहते हैं। मैं राज्य के अधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में मतदाताओं को लुभाने के लिए कांग्रेस द्वारा कथित तौर पर वितरित किए जाने वाले कुकर की तस्वीरें और वीडियो दिखाते हुए सवाल किया, अगर कांग्रेस ने वास्तव में गरीबों के लिए काम किया है और अगर उन्हें विश्वास है कि लोगों ने पिछले एक साल में उनके कार्यक्रमों को पसंद किया है, तो "उन्हें इस तरह से चुनाव क्यों कराना पड़ रहा है? उन्होंने कहा, क्या इस राज्य में कोई निर्वाचन आयोग है? क्या वहां उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक (एसपी) हैं? निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है? चुनाव की घोषणा के बाद बेंगलुरु ग्रामीण संसदीय क्षेत्र में क्या हो रहा है? मैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त से इस पर गौर करने की मांग करता हूं।

जदएस और भाजपा के बीच गठबंधन व्यवस्था के अनुसार, प्रसिद्ध सर्जन सी एन मंजूनाथ इस वोक्कालिगा बहुल क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार हैं। वह पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के दामाद हैं। कुमारस्वामी ने कहा कि बेंगलुरु ग्रामीण में जो सब चल रहा है, इसके बारे में उन्होंने कर्नाटक में निर्वाचन अधिकारियों को अवगत कराया है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ए मतदाताओं के लिए वितरित किए जाने वाले कुकर की तस्वीरें हैं...कल भी, उन्होंने दो वाहनों को लोड किया है और चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद चार लाख से अधिक कुकर वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी कुकर बांटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा, "कल रात दो लाख दस हजार कुकर वितरण के लिए भेजे जाने के लिए (एक वाहन में) लोड किए गए थे। यह कर्नाटक में चुनाव की स्थिति है...एक दिन पहले हमारे जद (एस) कार्यकर्ताओं ने मारलावाडी होबली में कुकर के साथ दो वाहनों को पकड़ा है और अधिकारियों को सूचित किया।

कुमारस्वामी ने उस गोदाम की तस्वीरें दिखाई जहां कथित तौर पर कुकर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे को कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के संज्ञान में लाए, जिन्होंने रामनगर के उपायुक्त (डीसी) को इस पर गौर करने का निर्देश दिया। डीसी ने मामला वाणिज्य कर विभाग को भेज दिया।

हालांकि, मौके पर जाने पर विभाग के अधिकारियों ने दावा किया कि उन्हें वहां ऐसी कोई गतिविधि नहीं मिली। उन्होंने कहा, लेकिन सच्चाई यह है कि यह अभी भी चल रहा है और आज भी इस उद्देश्य के लिए कुकर का निर्माण किया जा रहा है। डीके बंधुओं (शिवकुमार और सुरेश) ने (निर्माताओं को) बिना किसी लेबल के कुकर बक्से भेजने का निर्देश दिया है और आपूर्ति लेने के बाद वे अपनी तस्वीरों के साथ लेबल एक अलग जगह पर चिपका देंगे। कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि विनिर्माण हरोहल्ली औद्योगिक क्षेत्र में किया जा रहा है। अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं को चेतावनी देते हुए कुमारस्वामी ने कहा, अगर इन गतिविधियों को तुरंत नहीं रोका गया, तो वह जद (एस) कार्यकर्ताओं को उन जगहों पर आग लगाने के लिए बुलाएंगे जहां मतदाताओं के बीच वितरित करने के लिए कुकर रखे गए हैं। उन्होंने कहा, मैं देखता हूं कि कौन मामला दर्ज करता है।

अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न एवं अभिभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा : विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि उसने चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा अरुणाचल प्रदेश के भूभाग पर "बेतुके दावे को आगे बढ़ाते हुए" की गई टिप्पणी पर गौर किया है और कहा कि राज्य भारत का अभिन्न एवं अविभाज्य हिस्सा" था, है और सदैव रहेगा। विदेश मंत्रालय की ओर से यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है, जब कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर चीन की आपत्ति को भारत के खारिज करने के बाद चीन की सेना ने राज्य पर अपने दावे को दोहराते हुए इसे चीन के क्षेत्र का स्वाभाविक हिस्सा बताया था। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के हवाले से कहा गया, "हमने चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के भूभाग पर बेतुके दावों को आगे बढ़ाते हुए की गई टिप्पणी पर गौर किया है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि यह अरुणाचल प्रदेश के संबंध में चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा की गई टिप्पणी पर मीडिया के सवालों के जवाब में है। इस संबंध में निराधार तर्क को दोहराने से ऐसे दावों को कोई वैधता नही मिलती। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। इसके लोग हमारे विकास कार्यक्रमों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से लाभान्वित होते रहेंगे। चीन की सरकारी मीडिया ने देश के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नल झांग शियाओगांग के हवाले से कहा था कि जिजांग (तिब्बत का चीनी नाम) का दक्षिणी भाग चीन के भूभाग का एक अंतर्निहित हिस्सा है और बीजिंग भारत द्वारा अवैध रूप से स्थापित तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को कभी स्वीकार नही करता और इसका दृढ़ता से विरोध करता है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावों को बार-बार खारिज किया है और कहा है कि राज्य देश का अभिन्न अंग है। नई दिल्ली ने क्षेत्र को मनगढ़ंत नाम देने के चीन के कदम को भी खारिज किया है और कहा है कि इससे वास्तविकता में कोई बदलाव नही आएगा।

मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में भीड़ के बीच दम घुटने से एक श्रद्धालु की मौत

मथुरा (उप्र)। मथुरा के वृंदावन में स्थित ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर मे मंगलवार को दर्शन करने पहुंचे मुंबई के निवासी एक व्यक्ति की कथित रूप से भीड़ में दम घुटने के कारण मंदिर के बाहर मृत्यु हो गई। अधिकारियो ने यह जानकारी दी। उन्होने बताया कि मौके पर मौजूद चिकित्सकों के दल ने उसके इलाज का प्रयास किया गया, लेकिन कोई सुधार नही होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया, शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। चिकित्सकों ने दिल का दौरा पड़ने से मौत होने की बात कही है। चिकित्सा विभाग की त्वरित प्रतिक्रिया टीम के प्रभारी डॉक्टर भूदेव प्रसाद ने बताया कि वृंदावन के ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे मुंबई के साईं कोलीवाड़ा की कर्मक्षेत्र बिल्डिंग में रहने वाले सुनील मांगो (68) को मंदिर के अंदर भीड़ मे सांस लेने मे दिक्कत हुई थी जिसके बाद वह मंदिर के द्वार (संख्या एक) से बाहर निकल आए थे। मांगो के साथ आईं प्रमिला कन्नौजिया ने बताया कि वह 40 लोगों के दल के साथ मुंबई से रविवार को ब्रज दर्शन पर वृंदावन आए थे, वे लोई बाजार में स्थित बसंती धर्मशाला में ठहरे थे, मंगलवार को वे सभी बिहारी जी मंदिर मे दर्शन करने गए थे, तभी यह हादसा पेश आया। मांगो सेवानिवृत्त बैंककर्मी थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेष कुमार पाण्डेय ने बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि श्रद्धालु की मौत मंदिर के अंदर नही, बाहर चबूतरे पर विश्राम करते वक्त हुई है। पुलिसकर्मी उन्हे एंबुलेंस मे संयुक्त जिला अस्पताल ले गए थे, जहां उन्हे मृत घोषित कर दिया गया।

ईडी के आरोप पत्र के बाद कार्ति चिदंबरम, अन्य को तलब किया

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने कथित चीनी वीजा घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले मे मंगलवार को कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और अन्य को समन जारी कर पांच अप्रैल को अपने समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए आरोपियो को तलब किया। न्यायाधीश ने कार्ति चिदंबरम, उनके पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट एस भास्कर रमन को और कुछ कंपनियों के प्रतिनिधियों सहित छह अन्य को पांच अप्रैल को अदालत मे पेश होने का निर्देश दिया। आरोपियो मे पदम दुगार, विकास मखारिया, मंसूर सिद्दीकी, दुगार हाउसिंग लिमिटेड, एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और तलवंडी साबो पावर लिमिटेड भी शामिल है। ईडी ने 2011 मे 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से संबंधित कथित घोटाले मे आरोपियो के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया है। कथित घोटाले के समय कार्ति के पिता पी चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे। जांच एजेंसी ने कहा कि मामले मे काले धन से सफेद मे तब्दील धन की वास्तविक मात्रा अभी तक साबित नही हो पाई है और सीबीआई के मामले मे उल्लिखित 50 लाख रुपए की रिश्वत के कथित भुगतान को वर्तमान मामले का आधार नही माना जा सकता। ईडी ने इसी मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अपनी तरफ से मामला दर्ज किया था।

महाराष्ट्र के गडचिरोली में पुलिस के साथ मुठभेड़ में चार नक्सली मारे गए

गडचिरोली (महाराष्ट्र)। महाराष्ट्र के गडचिरोली जिले में मंगलवार को पुलिस के साथ मुठभेड़ में चार नक्सली मारे गए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन नक्सलियों पर 36 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल ने बताया कि पुलिस को सोमवार दोपहर को सूचना मिली थी कि कुछ नक्सली लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बीच विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के मकसद से प्राणहिता नदी पार कर पड़ोसी तेलंगाना से गडचिरोली में आए हैं। गडचिरोली पुलिस की विशेष लड़ाकू इकाई सी-60 के कई दलों और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के त्वरित कार्वाई दल को इलाके में तलाशी के लिए भेजा गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब सी-60 इकाई का एक दल रेपनपल्ली के समीप कोलामार्का पहाड़ी क्षेत्र में मंगलवार सुबह तलाशी अभियान चला रहा था तो नक्सलियों ने उस पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी।

खाटू श्याम मंदिर में उमड़े लोग, मेले में पांच लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान

सीकर। जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटूश्यामजी मंदिर में जारी वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेले में भारी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं और बुधवार को एकादशी के अवसर पर मुख्य मेले में पांच लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। मेले में मंगलवार को दशमी के दिन श्याम बाबा को गुलाब के इत्र से स्नान करवाकर लाल रंग के फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया। देश के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालुओं ने श्याम दरबार में दर्शन किए। श्याम मंदिर कमेटी के एक पदाधिकारी के अनुसार बाबा श्याम के मुख्य मेले में बुधवार को भारी संख्या में आने की उम्मीद है। एकादशी के दिन मुख्य मेले में बाबा श्याम की शोभायात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्य मेले से पहले मंगलवार को बाबा श्याम की एक झलक पाने के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रही।

फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन बाबा श्याम की सवारी मंदिर परिसर से गाजे बाजे के साथ रवाना होगी। श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि मंदिर से सवारी मुख्य बाजार, महिला श्याम कुण्ड, शनि मंदिर होते हुए अस्पताल चौराहे से होकर कबुतरियां चौक पर पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि मुख्य मेले में पांच लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं के खाटू नगरी पहुंचने का अनुमान है।

चौहान ने बताया कि एकादशी के दिन बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार किया जाएगा, विशेष श्रृंगार के साथ 56 भोग लगेगा, इस भोग को तैयार करने के लिए हलवाई राजस्थान से बाहर से बुलाए गए हैं। हलवाई छप्पन भोग के लिए गत तीन दिन से तैयारी में जुटे हुए है। पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए मंदिर परिसर और उसके आस पास के क्षेत्र में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है, सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है।

चुनावी बॉण्ड पर राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग को दिए रोचक उत्तर

नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी बॉण्ड को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलो से विवरण भेजने का अनुरोध किया था जिस पर जो जवाब आए हैं, वे काफी रोचक हैं। एक दल ने बताया कि उनका अध्यक्ष ही हर तीन माह बाद स्वयं 500 रुपए पार्टी को दान कर देता था वहीं एक दल ने तो अपनी मान्यता रद्द करने का अनुरोध कर दिया। निर्वाचन आयोग को दिए जवाब में कुछ दलों ने चुनावी बॉण्ड के माध्यम से कोई दान नहीं मिलने की बात कही जबकि अन्य ने मांगी गई जानकारी प्रदान करने में असमर्थता जाहिर की। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ने एक नई पार्टी के रूप में अपनी स्थिति का हवाला दिया और दावा किया कि उसे चुनावों में कोई वोट नहीं मिला है और इसलिए उसके पास देने के लिए कोई विवरण नहीं है। सर्वजन लोक शक्ति पार्टी ने एक हस्तलिखित जवाब प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि उसे अभी तक कोई दान नहीं मिला है।

भारत का किसान मजदूर पार्टी ने उसे पहचान नही मिल पाने पर निराशा व्यक्त की। पार्टी ने उद्योगपतियों या पूंजीपतियों से कोई समर्थन नहीं मिलने का दावा किया और कहा कि इसलिए उसे कोई चुनावी बॉण्ड नहीं मिला। तमिलनाडु की तमिलर देसिया मुन्नानी ने दी गई समय सीमा के भीतर चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देने में असमर्थता के लिए अपने नेतृत्व के खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया। इसमें यह भी उल्लेख किया गया कि उसे 30 सितंबर, 2023 तक चुनावी बॉण्ड के माध्यम से कोई दान नहीं मिला है। मक्कल नाला कषगम ने कहा कि उसके अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से हर तीन महीने में पार्टी के खाते में पैसा जमा करते हैं। पार्टी अध्यक्ष एस सत्यमूर्ति संबंधित बैंक में पार्टी खाते में तीन महीने में एक बार अपने 500 रुपए जमा करा रहे हैं।

कन्नड़ नाडु पार्टी ने खुद को विघटित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। उसने निर्वाचन आयोग को एक पत्र सौंपकर पार्टी की मान्यता रद्द करने का अनुरोध किया है। कन्नड़ नाडु पार्टी ने अपने जवाब में कहा, ...संबंधित बैठकों में पारित प्रस्तावों को आपके कार्यालयों में भेज दिया गया था और हम एक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता रद्द करने की आपकी मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जन शक्ति दल, नीति निजयथी पार्टी और गुंज सत्य नी जनता पार्टी जैसे दलों ने दावा किया है कि उन्हें अब तक कोई दान नहीं मिला है। आसरा लोकमंच पार्टी, भारतीय सार्थक पार्टी और राष्ट्रीय भ्रष्टाचार मुक्ति पार्टी सहित कई दलों ने कहा कि उन्हें कोई दान नहीं मिला है। वे चुनावी बॉण्ड प्राप्त करने के लिए तय अर्हता के अंतर्गत नहीं आते हैं। बहुजन राज्यम पार्टी ने स्पष्ट किया कि उसे कोई चुनावी बॉण्ड नहीं मिला है। पात्रता मानदंड को रेखांकित किया जिसके तहत पिछले चुनावों में कम से कम एक प्रतिशत वोट हासिल करने वाले दल ही चुनावी बॉण्ड के जरिए चंदा लेने की अर्हता रखते हैं।

पेज 1 का शेष

दिल्ली दुनिया...

के रूप में क्लाउड सीडिंग की ओर रुख किया था। पीएम 2.5 के लिए वाहन उत्सर्जन 40 फीसदी जिम्मेदार है देश की राजधानी में प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 2018 के अंत में प्रतिबंध लागू होने के बाद से सड़क पर कारों की संख्या में 35 फीसदी की गिरावट आई है। दुनिया भर में एयर-सेंसर डेटा एकत्र करने वाले आईक्यू एयर रिपोर्ट के अनुसार लाहौर, पाकिस्तान शीर्ष 10 सूची में एकमात्र अपवाद था। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के पास एक व्यापक वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क है, जो क्षेत्र के अन्य सभी देशों की तुलना में अधिक वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन हैं। विशाल निगरानी नेटवर्क ने 2023 में 256 शहरों से डेटा का योगदान दिया है, जो मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्र के 74 फीसदी शहरों का प्रतिनिधित्व करता है। क्षेत्र के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारतीय शहरों का लगभग आनुपातिक अनुपात शामिल है, जिसमें 15 रैंक वाले शहरों में से 13 भारत में स्थित हैं। रिपोर्ट के अनुसार, अनुमान है कि भारत में 1.36 अरब लोग पीएम2.5 से अधिक सांद्रता का अनुभव करते हैं, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा अनुशंसित वार्षिक दिशानिर्देश स्तर 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक है। साथ ही, 1.33 अरब लोग, यानी भारतीय आबादी का 96 प्रतिशत, पीएम 2.5 के स्तर को डब्ल्यूएचओ के वार्षिक पीएम 2.5 दिशा-निर्देश से सात गुना अधिक अनुभव करते हैं। यह प्रवृत्ति शहर-स्तरीय डेटा में परिलक्षित होती है, देश के 66 प्रतिशत से अधिक शहरों में वार्षिक औसत 35 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक है।आईक्यू एयर की पीएम 2.5 वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट 134 देशों के 7,812 शहरों के आंकड़ों के सारांश को प्रस्तुत करती है। इसने अनुसंधान संस्थानों, सरकारी निकायों, विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक सुविधाओं, गैर-लाभकारी संगठनों, निजी कंपनियों और नागरिक वैज्ञानिकों द्वारा संचालित 30,000 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों से डेटा प्राप्त किया। रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में अफ्रीका और मध्य और दक्षिण एशिया के देशों, क्षेत्रों और क्षेत्रों को जनसंख्या के हिसाब से उच्चतम वार्षिक औसत पीएम 2.5 सांद्रता का सामना करना पड़ा। जबकि अफ्रीका के वायु गुणवत्ता डेटा की उपलब्धता धीरे-धीरे बढ़ रही है, अफ्रीका के 54 देशों में से केवल 24 के पास 2023 की रिपोर्ट में शामिल करने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध था, जिससे 30 देशों को शामिल नहीं किया गया। अफगानिस्तान 2019 के बाद से लगातार शीर्ष 15 सबसे प्रदूषित देशों में स्थान रहा है। हालांकि, ओमान देश (2022 में 6 वें सबसे प्रदूषित देश के रूप में स्थान) के साथ, यह डेटा उपलब्धता की कमी के कारण उल्लेखनीय रूप से अनुपस्थित है। हालाँकि, दिलचस्प बात यह है कि आंकड़े दो तरह से तैयार होता है। जहां यह दर्शाता है कि भारत में संकट कितना गंभीर है, वहीं यह निगरानी में बड़ी खामियों को भी उजागर करता है। शुरुआत के लिए दक्षिण एशिया को लें तो दुनिया के शीर्ष तीन सबसे प्रदूषित देश यहीं से हैं, इसी क्रम में बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत हैं। लेकिन बांग्लादेश में केवल दो जगहें वायु गुणवत्ता की निगरानी करती हैं, जबकि पाकिस्तान में 10 जगहें हैं। भारत 256 शहरों पर नजर रखता है। रिपोर्ट में केवल अफ्रीका के 79 स्थानों और पूरे लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में 219 स्थानों का डेटा है। इसके ठीक विपरीत, अकेले यूनाइटेड किंगडम में 219 निगरानी स्थल हैं, यूरोप में 2,004 और अमेरिका में 3,242 हैं।डब्ल्यूएचओ के अनुसार, वायु प्रदूषण हर साल दुनिया भर में अनुमानित 70 लाख असामयिक मौतों के लिए जिम्मेदार है। पीएम 2.5 वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से कई स्वास्थ्य स्थितियां पैदा होती हैं और बिगड़ जाती हैं, जिनमें अस्थमा, कैंसर, स्ट्रोक और फेफड़ों की बीमारी शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। सूक्ष्म कणों के ऊंचे स्तर के संपर्क में आने से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास ख़राब हो सकता है, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं और मधुमेह सहित मौजूदा बीमारियाँ जटिल हो सकती हैं।

भाजपा के...

श्रवण अग्रवाल ने कहा कि पार्टी नेता जल्द मिलकर आगे की कार्रवाई के बारे में निर्णय लेंगे। उन्होंने साफ किया कि पारस चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी के छह सांसदों में से कुछ समय पहले तक पारस को पांच सांसदों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन प्रेस वार्ता में उनके साथ इनमें से कोई नहीं था। सूत्रों के मुताबिक कुछ सांसद अन्य दलों के साथ चुनाव लड़ने की संभावना तलाश रहे हैं जिनमें पारस से अलग राजनीति कर रहे उनके भतीजे चिराग पासवान की लोजपा (राम विलास) भी शामिल है। पारस बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाले विपक्षी गठबंधन के साथ हाथ मिलाने की संभावना पर विचार कर सकते हैं और हाजीपुर सीट से अपने भतीजे चिराग के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। निवर्तमान लोकसभा में वह हाजीपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चिराग पासवान ने भी आगामी चुनाव में इस सीट से लड़ने का संकेत दिया है जिसे उनके दिवंगत पिता राम विलास पासवान के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है।

मनमोहक....

उन्होंने कहा, मुझे रंगों का यह त्योहार बहुत पसंद है और फूलों के त्योहार में भाग लेने के लिए मथुरा जाने की योजना थी। पिछले साल, मैं लठ मार होली देखने के लिए बरसाना में थी। उन्होंने कहा, लेकिन अब द्वारका के इस्कॉन मंदिर में मैं मनमोहक फूलों की होली का अनुभव कर सकती हूं, जहां सुगंधित फूलों से हवा को अपनी मीठी सुगंध से भरने की उम्मीद की जाती है और साथ ही लठ मार और मटका फोड़ होली की ऊर्जावान लय में गोता लगाया जाता है। आईटी इंजीनियर रमेश कुमार अंजना के उत्साह को साझा करते हैं। उनकी आंखें प्रत्याशा से चमक उठीं क्योंकि उन्होंने खुद की उत्साही लठ मार होली में भाग लेने की कल्पना की, जहां रंगों से सराबोर महिलाएं लाठियों से लैस होकर पुरुषों को चिढ़ाती हैं, जो राधा और कृष्ण की सदियों पुरानी प्रेम कहानी को दर्शाती हैं। फूलों की होली, होली के सबसे मनोरम रूपों में से एक है जहां रंगों के बजाय सुगंधित फूलों की पंखुड़ियों का उपयोग भगवान कृष्ण के साथ-साथ प्रकृति के रंगों में एक दूसरे को सराबोर करने के लिए किया जाता है। कोई भी होली उत्सव स्वादिष्ट मिठाइयों, भोजन और पेय के बिना पूरा नहीं होता है। इसलिए, उत्सव के दौरान त्योहार से जुड़े विभिन्न प्रकार के पारंपरिक स्नैक्स जैसे गुझिया, ठंडाई, पकोड़े और मिठाइयाँ पेश करने वाले खाद्य स्टॉल आपकी थाली में होंगे, जो परिवार और दोस्तों के साथ उत्सव की भावना का आनंद लेने के लिए एक आदर्श स्थान है। सांस्कृतिक प्रदर्शन, लाइव संगीत और जीवंत माहौल के साथ, आयोजकों ने साझा किया कि वे आध्यात्मिकता के साथ रंगों के दंगल का जश्न मनाने के लिए भक्तों और आगंतुकों की एक बड़ी भीड़ की उम्मीद करते हैं।

पूर्व भारतीय....

समर्थन व्यापक बनाने के लिए ठोस प्रयास कर रही है और उसे उम्मीद है कि लोकसभा चुनावों में राज्य में इसका प्रभाव दिखेगा। सत्तारूढ़ दल अमृतसर को वापस जीतने के लिए उत्सुक है। भाजपा के लिए नवजोत सिंह सिद्धू ने 2009 में आखिरी बार यहां से जीत हासिल की थी। इसके बाद से पार्टी यह सीट जीतने में नाकाम रही है। सिद्धू अब कांग्रेस में हैं और इस सीट का प्रतिनिधित्व पार्टी के सदस्य गुरजीत सिंह औजला कर रहे हैं। भाजपा के दिवंगत नेता अरुण जेटली और हरदीप सिंह पुरी को क्रमशः 2014 और 2019 में अमृतसर से हार का सामना करना पड़ा था। पुरी केंद्र सरकार में मंत्री हैं। पार्टी का मानना है कि संधू अमृतसर के ही हैं और एक सम्मानित जाट सिख परिवार से आते हैं। कांग्रेस से यह सीट छीनने में संधू उसके लिए अच्छा दांव साबित हो सकते हैं।

हनुमान चालीसा बजाने पर व्यापारी पर हुए हमले के खिलाफ भाजपा का विरोध प्रदर्शन

बेंगलुरु (भाषा)। नागरथपेट में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने अजान के दौरान अपनी दुकान में तेज आवाज में कथित तौर पर हनुमान चालीसा बजाने को लेकर युवाओं के एक समूह द्वारा एक व्यापारी पर हमला किए जाने की घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। एक व्यापारी पर हमले की घटना के संबंध में दो और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे और भाजपा विधायक एस सुरेश कुमार उन लोगों में शामिल थे जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त बी दयानंद ने कहा कि घटना के सिलसिले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से दो को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया है, एक और व्यक्ति को अभी हिरासत में लिया जाना है। भाजपा ने पीड़ित मुकेश की दुकान से शांतिपूर्ण मार्च निकालने का आह्वान किया था, जिसमें प्रतिभागियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया।

हेमंत सोरेन की भाभी सीता ने झामुमो को दिया झटका

● भाजपा में शामिल

भाषा। रांची-नई दिल्ली

पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और जामा से झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की विधायक सीता सोरेन मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गईं और उन्होंने कहा कि वह राज्य को बचाने एवं अपने लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की खातिर मोदी परिवार का हिस्सा बन रही हैं। सीता सोरेन ने झामुमो को झटका देते हुए मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया और लोकसभा चुनाव से कुछ सप्ताह पहले भाजपा में शामिल हो गईं। उन्होंने दावा किया कि राज्य में सत्तारूढ़ झामुमो में उन्हें उपेक्षित और अलग-थलग किया जा रहा था। तीन बार के विधायक सीता सोरेन का भाजपा में शामिल होने का निर्णय अनुसूचित जनजाति के साथ अपने जुड़ाव को बढ़ाने के झामुमो के प्रयासों

के लिए एक झटका है। यह समुदाय झामुमो का मुख्य वोट आधार रहा है। दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन ने भाजपा महासचिव विनोद तावड़े और झारखंड के चुनाव प्रभारी लक्ष्मीकांत बाजपेई की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। पार्टी सुप्रीमो और अपने ससुर शिबू सोरेन को लिखे इस्तीफे में सीता ने कहा कि उनके पति दुर्गा सोरेन के निधन के बाद पार्टी ने उन्हें तथा उनके परिवार को पर्याप्त सहयोग नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वह झामुमो में उपेक्षित महसूस कर रही थीं और उन्होंने भारी मन से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला किया है। इससे पहले सोरेन परिवार में उस समय दरार सामने आई थी जब सीता ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के दौरान उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाए जाने के किसी भी कदम का खुलकर विरोध किया था। हालांकि चंपई सोरेन को पार्टी ने हेमंत सोरेन की जगह लेने के लिए चुना था, लेकिन कल्पना सोरेन तब से राजनीतिक कार्यक्रमों में दिखाई दे रही हैं, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि वह हेमंत की अनुपस्थिति में पार्टी की एक प्रमुख प्रचारक होंगी। उन्होंने झामुमो सुप्रीमो और अपने ससुर शिबू सोरेन को संबोधित अपने त्यागपत्र में लिखा, मेरे दिवंगत पति दुर्गा सोरेन के निधन के बाद से मैं और मेरा परिवार लगातार उपेक्षा का शिकार हुआ है। मेरे पति झारखंड आंदोलन के अगुवा थे और महान क्रांतिकारी थे। पार्टी और परिवार के सदस्यों ने हमारी उपेक्षा की जो बहुत पीड़ादायक रहा।

जदयू महासचिव फातमी ने छोड़ी पार्टी

पटना। जनात दल यूनाइटेड (जदयू) के महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उनके वापस राष्ट्रीय जनता दल (राजद) मे जाने की अटकलें शुरू हो गई है।जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाथ से लिखे पत्र मे फातमी ने कहा कि वह अपने मूल्यों की रक्षा करते हुए महासचिव के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे है। उन्होंने फोन पर पीटीआई-भाषा से कहा, मैंने जदयू छोड़ दी है और इस मामले मे ज्यादा कुछ नही कहना चाहता। जहां तक मेरे भावी कदम का सवाल है तो यह कुछ दिन में पता चल जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने सोमवार को बिहार के लिए सीट-बंटवारे के फॉर्मूले की घोषणा की थी, जिसके एक दिन बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। फॉर्मूल के तहत भाजपा दरभंगा और मधुबनी समेत 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी। फातमी दरभंगा से चार बार सांसद रहे है जबकि अंदरूनी सूत्रों के अनुसार मधुबनी सीट जदयू के खाते मे जाती, तो उन्हें यहां से उम्मीदवार बनाया जा सकता था। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की पहली सरकार मे मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रहे फातमी ने पांच साल पहले राजद की ओर से एक अन्य प्रमुख मुस्लिम चेहरे अब्दुल बारी सिद्दीकी को दरभंगा से टिकट देने और तत्कालीन गठबंधन सहयोगी विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के लिए मधुबनी सीट छोड़ने के विरोध में राजद छोड़ दी थी।

चुनाव जीतने के लिए एक ठाकरे को चुराने का प्रयास कर रही है भाजपा: उद्धव

भाषा। छत्रपति संभाजीनगर

शिवसेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को भाजपा पर चुनाव जीतने के लिए एक ठाकरे को चुराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उद्धव ठाकरे की यह टिप्पणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच दिल्ली में हुई एक बैठक के मद्देनजर आई है। उद्धव ठाकरे ने नांदेड़ जिले में एक सभा को संबोधित करते हुए, यह भी कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उनके चचेरे भाई को अपने साथ ले लेती है, तो वह इससे परेशान नहीं हैं। राज ठाकरे की दिल्ली में शाह से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर निशाना साधा है। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब ऐसी चर्चा है कि भाजपा महाराष्ट्र में अपने गठबंधन को बढ़ाने के लिए लोकसभा चुनाव में

उनके साथ गठबंधन करना चाहता है। उन्होंने कहा, भाजपा अच्छी तरह से जानती है कि उसे महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलते हैं। लोग यहां (बाल) ठाकरे के नाम पर वोट करते हैं। इस अहसास ने भाजपा को बाहर (भाजपा) से नेताओं को चुराने की कोशिश करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भाजपा पर बाल ठाकरे की विरासत को हड़पने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने मराठवाड़ा क्षेत्र में नांदेड़ और हिंगोली जिलों के अपने दो दिवसीय दौरे के समापन पर कहा, "पहले, उन्होंने बाल ठाकरे की तस्वीर चुराई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज, वे एक और ठाकरे को चुराने की कोशिश कर रहे हैं...इसे ले लो, मैं और मेरे लोग काफी हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी विपक्षी महा विकास आघाडी और इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। उन्होंने दावा किया कि ईसाइयों और मुसलमानों को भी उनकी हिंदुत्व की शैली से कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा, जब हम भाजपा के साथ थे, तब शिवसेना (अविभाजित) की छवि खराब हो रही थी। लेकिन जब से हमने उनसे संबंध तोड़ा है, ईसाई और मुस्लिम समुदाय के सदस्य भी कह रहे हैं कि उन्हें हमारी हिंदुत्व की विचारधारा से कोई दिक्कत नहीं है। जब शिवसेना अविभाजित थी, तब राज ठाकरे ने उद्धव के साथ अपने मतभेदों के कारण, उससे नाता तोड़ लिया था और 2006 में मनसे की स्थापना की थी। हालांकि, उनकी मनसे ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ सकी।

एनआईए 11 लोगों को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल मे पिछले वर्ष मार्च मे रामनवमी के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित साजिश रचने के लिए 11 अन्य आरोपियो को गिरफ्तार किया गया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने मंगलवार को यह जानकारी दी।एनआईए को 27 अप्रैल, 2023 को छह मामलो की जांच सौपी गई थी, जिसमे एजेंसी ने एक महीने से कम समय मे यह गिरफ्तारियां की है। एनआईए ने इससे पहले इन मामलो मे 16 लोगो को पकड़ा था।एनआईए ने एक बयान मे बताया कि ए 11 आरोपी 30 मार्च, 2023 को हावड़ा पुलिस कमिश्नरेट के शिबपुर मे रामनवमी के मौके पर यात्रा के दौरान एक विशेष समुदाय के सदस्यों पर हमला करने की साजिश रचने और उसे अंजाम देने में शामिल थे।

अधिकारी असामाजिक तत्वों पर नजर रखे

चंडीगढ़। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने प्रदेश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को राज्य के पुलिस अधिकारियों को असामाजिक तत्वो, मादक पदार्थो तस्करो और शराब तस्करों पर निगरानी रखने के लिए अंतरराज्यीय एवं अंतर जिला जांच चौकियां बनाने का निर्देश दिया। यादव ने क्षेत्रीय प्रभुत्व एवं विश्वास बहाली के उपायों के लिए अधिकतम बल जुटाने के निर्देश भी जारी किए। प्रदेश पुलिस प्रमुख ने अपने कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ एक राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

अधुनिकता से बढ़ेगी कार्यक्षमता : अग्रवाल

बेंगलुरू। सूर्या लिमिटेड में लाइटिंग एवं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के सीईओ जितेंद्र अग्रवाल ने कहा कि सूर्या रोशनी के लिए टर्मिनल टी 3 एक प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट पर काम करने की हमें बहुत खुशी है। हमारे आधुनिक लाइटिंग सॉल्यूशन लोगों को अच्छा माहौल देने के साथ-साथ कार्यक्षमता बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। हम यात्रियों को बेहतर अनुभव देने के प्रति हवाई अड्डे की प्रतिबद्धता के अनुसार काम करते हैं। गौरतलब हो कि भारत के सबसे बड़े लाइटिंग प्रोडक्ट ब्रांड सूर्या रोशनी ने चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के टर्मिनल टी-3 को रोशनी से जगमग करने के मकसद से एक अहम सहयोग करार करते हुए इसे अपना गौरव बताया है।

मेक इन इंडिया को बढ़ावा

नई दिल्ली। बेहतरीन प्रदर्शन और अद्भुत शक्ति के साथ, आईकू नियो 9 प्रो का 8+128 जी बी वाला वेरिएंट 21 मार्च 2024 से अमेजन इन और आईकू ई-स्टोर पर उपलब्ध होगा। यह 32,999 रुपए के नेट इफेक्टिव प्राइस से शुरू होगा, जिसमें क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने पर आकर्षक 2,000 रुपए की छूट या 4,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस शामिल है। यह दो आकर्षक रंग विकल्पों; फीरी रेड और कॉन्करर ब्लैक में उपलब्ध होगा। आईकू की मेक इन इंडिया पहल के तहत, सभी आईकू नियो 9 प्रो डिवाइस का निर्माण विवो की ग्रेटर नोएडा फैसिलिटी में किया गया है।

एचआईएल टॉपलाइन का अधिग्रहण करेगी

मुंबई। एचआईएल लिमिटेड 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सीके बिरला समूह का एक हिस्सा ने टॉपलाइन के अधिग्रहण के लिए क्रेस्टिया पॉलीटेक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो पूर्वी भारत में पाइप और फिटिंग का एक लोकप्रिय ब्रांड है, साथ में क्रेस्टिया के चार पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियाँ पॉपलाइन इंडस्ट्रीज, आदित्य पॉलिटेक्निक, आदित्य इंडस्ट्रीज और साईनाथ पॉलीमर 265 करोड़ में क्रेस्टिया पॉलीटेक और इसकी सहायक कंपनियां, वित्त वर्ष 2023-.24 में 330 करोड़ के अनुमानित कारोबार के साथ अन्य प्रमुख ब्रांडों के साथ पाइप, फिटिंग और पानी टैंक के क्षेत्र में मजबूत खिलाड़ी हैं।

मतुआ समुदाय नई सरकार के गठन तक सीएए के तहत आवेदन न करे

भाषा। कोलकाता

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के क्रियान्वयन को लेकर मतुआ समुदाय की खुशी में उस समय खलल पड़ गया जब उसके एक अहम संगठन ने अपने सदस्यों को इस नए कानून के तहत अभी नागरिकता के लिए आवेदन नहीं करने की सलाह दी, क्योंकि उनके पास बांग्लादेश में उनके पूर्व पते को साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं। अखिल भारतीय मतुआ महासंघ ने अपने सदस्यों से केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद ही भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने को कहा है। सीएए के नियमों को पिछले सप्ताह अधिसूचित किया गया था और सरकार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर आए उन गैर-मुस्लिम प्रवासियों -

हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई - को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करना शुरू कर देगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे। अखिल भारतीय मतुआ महासंघ के महासचिव महितोष बैद्य ने बताया कि समुदाय के सभी सदस्यों को अगली सरकार के गठन तक नागरिकता के लिए आवेदन नहीं करने का संदेश भेजा गया है।केंद्र ने सीएए के तहत नागरिकता का आवेदन करने के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की है। बैद्य ने पीटीआई भाषा से कहा, नियम बनने के बाद मतुआ समुदाय के कई सदस्यों ने ऑनलाइन आवेदन भरने की कोशिश की लेकिन उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा क्योंकि कॉलम पांच में उनसे बांग्लादेश में उनके पते के प्रमाण या उनके निवास से संबंधित दस्तावेजों को उपलब्ध कराने को कहा गया। बैद्य ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मतुआ समुदाय एक कठित स्थिति में फंस गया है क्योंकि उनमें से अधिकतर या तो दस्तावेजों के बिना बांग्लादेश से आए हैं या भारत में दस्तावेज मिलने पर उन्होंने बांग्लादेशी दस्तावेजों को नष्ट कर दिया है। मतुआ महासंघ के शांतनु ठाकुर गुट से संबंधित बैद्य ने कहा, उन्होंने अपने लिए यहां मतदाता कार्ड और आधार कार्ड का प्रबंध करने के बाद पुराने दस्तावेजों को नष्ट कर दिया क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए दो देशों के दस्तावेज रखना खतरनाक है। ऐसा करते पकड़े जाने पर उन पर विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाता।

कोर्ट ने रामदेव व बालकृष्ण से पेश होने को कहा

पतंजलि विज्ञापन मामला

भाषा। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने पतंजलि आयुर्वेद के उत्पादों और उनके चिकित्सकीय प्रभावों के विज्ञापनों से संबंधित अवमानना कार्यवाही के मामले में मंगलवार को योग गुरु रामदेव और कंपनी के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण से व्यक्तिगत रूप से अपने समक्ष पेश होने को कहा। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कंपनी और बालकृष्ण को पहले जारी किए गए अदालत के नोटिसों का जवाब दाखिल नहीं करने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्हें नोटिस जारी कर पूछा गया था कि अदालत को दिए गए वचन का प्रथम दृष्टया उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाए। पीठ ने रामदेव को भी नोटिस जारी कर पूछा कि उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाए। शीर्ष अदालत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें रामदेव पर कोविड रोधी टीकाकरण अभियान और आधुनिक दवाओं के खिलाफ मुहिम चलाने का आरोप लगाया गया है।न्यायालय ने कहा कि उसे रामदेव को कारण बताओ नोटिस जारी करना उपयुक्त लगता है क्योंकि पतंजलि द्वारा जारी विज्ञापन 21 नवंबर, 2023 को अदालत में दिए गए हलफनामे का विषय हैं।

आयोग ने संजय मुखर्जी को बंगाल का डीजीपी नियुक्त किया

भाषा। कोलकाता

निर्वाचन आयोग ने विवेक सहाय को पश्चिम बंगाल का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए जाने के 24 घंटे के भीतर उन्हें मंगलवार को पद से हटा दिया और राज्य सरकार को उनके स्थान पर संजय मुखर्जी को नियुक्त करने का निर्देश दिया। मुखर्जी भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) काडर में सहाय से एक साल कनिष्ठ हैं। इस अप्रत्याशित कदम के बाद सहाय पश्चिम बंगाल में सबसे कम समय तक कार्यकाल में रहे डीजीपी बन गए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी सहाय को वरिष्ठता क्रम के

● विवेक सहाय को एक दिन में हटाया

आधार पर नियुक्त किया गया था लेकिन वह लोकसभा चुनाव खत्म होने से पहले 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसलिए निर्वाचन आयोग ने 1989 बैच के अधिकारी मुखर्जी को डीजीपी नियुक्त करने को कहा है। लोकसभा चुनाव चार जून को औपचारिक रूप से समाप्त होंगे। राज्य अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के महानिदेशक अधिकारी मुखर्जी डीजीपी के पद के लिए निर्वाचन आयोग को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भेजी गई तीन

अधिकारियों की सूची में दूसरे स्थान पर थे। निर्वाचन आयोग ने चुनाव से पहले राजीव कुमार को डीजीपी पद से हटाने का निर्देश दिया था। निर्वाचन आयोग ने राज्य को तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने और मंगलवार शाम पांच बजे तक नियुक्ति की पुष्टि करने का निर्देश दिया है। राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के बारे में अचानक हुए बदलाव के बारे में बताते हुए निर्वाचन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि सहाय की नियुक्ति केवल एक अंतरिम नियुक्ति थी। पोल पैनल के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि सहाय को उनकी वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर ही डीजीपी नामित किया गया था। हालांकि, पश्चिम बंगाल काडर के एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा कि यदि किसी अधिकारी को आयोग, चुनाव के संचालन जैसे किसी विशेष कार्य की जिम्मेदारी देता है तो उसके पास उसका कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार होता है।

कोलकाता में इमारत ढहने से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 10, दो लोग अभी भी लापता

कोलकाता। कोलकाता के गार्डन रीच इलाके में पांच मंजिला एक इमारत के ढहने से मलबे के नीचे दबे एक अन्य व्यक्ति का शव बचावकर्मियों ने मंगलवार शाम को बरामद किया, जिसके बाद हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। दो और व्यक्ति अभी भी लापता हैं। पुलिस अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया, रात करीब आठ बजे एक व्यक्ति को मलबे के नीचे दबा हुआ पाया गया। हम उसे अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पूर्व पुलिसकर्मी प्रदीप शर्मा को 2006 के फर्जी मुठभेड़ मामले में आजीवन कारावास

मुंबई। मुंबई के विवादास्पद एनकाउंटर स्पेशलिस्ट , पूर्व पुलिसकर्मी प्रदीप शर्मा को मंगलवार को एक बड़ा कानूनी झटका लगा। बंबई उच्च न्यायालय ने उन्हें 2006 में मुंबई में गैंगस्टर छोटा राजन के कथित करीबी सहयोगी रामनारायण गुप्ता की फर्जी मुठभेड़ के मामले में दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुना दी। उच्च न्यायालय का फैसला सत्र अदालत के पहले के फैसले के बिल्कुल उलट है, जिसने शर्मा को बरी कर दिया था। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की एक खंडपीठ ने शर्मा को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को गलत और नहीं टिकने लायक करार देते हुए रद्द कर दिया। अदालत ने कहा, निचली अदालत ने शर्मा के खिलाफ उपलब्ध पर्याप्त सबूतों को नजरअंदाज कर दिया। सबूत मामले में उनकी संलिप्तता को स्पष्ट रूप से साबित करते हैं। ग्यारह नवंबर 2006 को एक पुलिस दल ने गुप्ता उर्फ लखन भैया को पड़ोसी वाशी से इस संदेह पर पकड़ा था कि वह राजन गिरोह का सदस्य है। उसके साथ उसके दोस्त अनिल भेड़ा को भी पकड़ा गया था। गुप्ता को उसी शाम पश्चिम मुंबई के उपनगरीय वर्सोवा में नाना नानी पार्क के पास एक फर्जी मुठभेड़ में मार डाला गया था।

कोर्ट ने 15 मुकदमों को समाहित करने के आदेश के खिलाफ याचिका का निपटारा किया

कृष्ण जन्मभूमि मामला:

भाषा। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित 15 मुकदमों को समाहित करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली एक नई याचिका का मंगलवार को निस्तारण कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने शाही मस्जिद ईदगाह की प्रबंध न्यासी समिति को उच्च न्यायालय के समक्ष आदेश वापसी की याचिका दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की। समिति ने उच्च न्यायालय के 11 जनवरी के आदेश को चुनौती दी है। पीठ ने आदेश दिया, याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को वापस लेने का अनुरोध किया है। हम मौजूदा विशेष अनुमति याचिका का निस्तारण करते हैं और याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय में फिर से याचिका दायर करने की छूट देते हैं। वकील ने कहा कि 11 जनवरी के आदेश को वापस लेने का आवेदन हाई कोर्ट में लंबित है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि आवेदन को एक विशिष्ट तारीख पर उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाए। हालांकि पीठ ने ऐसा कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने 11 जनवरी को न्याय के हित में निर्देश दिया था कि हिंदू वादी द्वारा दायर एक आवेदन पर 15 मुकदमों को समाहित कर दिया जाए। हिंदू पक्ष ने उच्च न्यायालय में अपने आवेदन में कहा था कि दीवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ संभाग), मथुरा के समक्ष 25 सितंबर, 2020 को दायर मूल मुकदमे और 13.37 एकड़ जमीन से संबंधित अन्य मुकदमों को समाहित कर दिया जाए।

पांच न्याय और 25 गारंटी वाला होगा कांग्रेस का घोषणापत्र

भाषा। नई दिल्ली

कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव में जिस चुनावी घोषणापत्र के साथ उतरने जा रही है वो पार्टी के पांच न्याय और 25 गारंटी की घोषणा पर आधारित होगा। पार्टी का कहना है कि यह दस्तावेज उसके लिए न्याय पत्र है जिसे वह घर-घर गारंटी के मंत्र के साथ देश के हर मतदाता तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। कांग्रेस कार्य समिति ने इस घोषणापत्र के मसौदे पर साढ़े तीन घंटे की चर्चा के बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को इसे मंजूर करने और जारी करने की तिथि निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया। कांग्रेस घोषणापत्र में जिन पांच

न्याय और 25 गारंटी का प्रमुख रूप से उल्लेख होगा उनकी घोषणा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान की गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में हमारे 5 न्याय और 25 गारंटियों समेत पार्टी के घोषणापत्र पर गहन चर्चा हुई। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से हम लगातार गांव-गांव, गली-गली लोगों के बीच गए और देश की आवाज़ सुनी। हमने लोगों के साथ हो रहे अन्याय और उनके जीवन के संघर्षों को करीब से

● घर-घर गारंटी रहेगा पार्टी का मंत्र

जाना और समझा। उन्होंने कहा, इसीलिए हमारा घोषणा पत्र और गारंटी महज़ दस्तावेज नहीं, करोड़ों देशवासियों के साथ हुए संवाद से निकला रोडमैप है, जो रोज़गार क्रांति और अधिकारपूर्ण भागीदारी के माध्यम से हर वर्ग का जीवन बदलने जा रहा है। राहुल गांधी का कहना है, हम 5 न्याय का संकल्प लेकर किसानों, युवाओं, श्रमिकों, महिलाओं और वंचितों के बीच जाएंगे और सीधे तौर पर लोगों के जीवन से जुड़े वास्तविक मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की गारंटियां देशवासियों के जीवन में खुशहाली लाने का संकल्प हैं। कांग्रेस के अनुसार, उसका घोषणापत्र पार्टी के पांच न्याय हिस्सेदारी न्याय , किसान न्याय , नारी न्याय , श्रमिक न्याय और युवा न्याय - पर आधारित होगा। पार्टी ने युवा न्याय के तहत जिन पांच गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपए देने का वादा शामिल है। पार्टी ने हिस्सेदारी न्याय के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा खत्म करने की गारंटी दी है।

क्विक न्यूज

पारस और कुशवाहा के लिए राजग को छोड़ना आत्मघाती होगा: भाजपा

पटना। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपने असंतुष्ट सहयोगियो पशुपति कुमार पारस और उपेन्द्र कुशवाहा के बारे में मंगलवार को कहा कि उनका विपक्षी महागठबंधन के साथ जाना आत्मघाती होगा। पारस के केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने और बिहार के लिए सोमवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सीट बंटवारे की घोषणा के समय कुशवाहा या उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के किसी सदस्य के मौजूद नही रहने पर प्रतिक्रिया देते हुए सिन्हा ने यह टिप्पणी की। जनवरी मे जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के प्रमुख और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजग मे वापसी के बाद उपमुख्यमंत्री बने सिन्हा ने कहा, केवल भाजपा ही अपने सहयोगियो का सम्मान करना जानती है। यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इसका एहसास हो गया है। पारस ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने उनके भतीजे चिराग पासवान को हाजीपुर सीट सौंपकर उनका अपमान किया है, जिसे खारिज करते हुए सिन्हा ने कहा, पारस बाबू के लिए हमारे मन मे बहुत सम्मान है। यही कारण है कि इतने सालो तक उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल मे स्थान दिया गया जिसने उन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का मौका दिया। भाजपा नेता ने कहा, लेकिन, हमें हर सहयोगी को उसका हक देना चाहिए। जिसे (चिराग को) उनके पिता (रामविलास पासवान) की मृत्यु के बाद भी कुछ नही मिला, उसे भी कुछ मिलना चाहिए। पारस ने रामविलास पासवान के निधन के बाद 2021 मे चिराग के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी को विभाजित कर दिया था। इसके बाद पार्टी के अन्य सभी सांसदो के पारस के साथ जाने के कारण चिराग अलग-थलग पड़ गए थे। चिराग को दी गई पांच सीट मे हाजीपुर भी शामिल है, जहां से वह मौजूदा सांसद है। इस सीट से दिवंगत रामविलास पासवान कई बार सांसद रहे थे। हालांकि भाजपा ने पारस गुट के बारे मे कुछ खास नही कहा है लेकिन यह स्पष्ट कर दिया है कि वह चिराग को उनके पिता का सच्चा उत्तराधिकारी मानती है। सिन्हा ने यह भी कहा, हम चाहते है कि लोजपा एक परिवार के रूप मे एकजुट रहे ताकि पूरा राजग एक परिवार की तरह काम कर सके। भाजपा नेता से यह भी पूछा गया कि क्या कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को केवल एक सीट मिलने से पार्टी नाराज है जबकि राजग मे शामिल रहे उनके पुराने दल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने 2014 मे तीन सीट जीती थी। कुशवाहा ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राजग छोड़ दिया था। विपक्षी गठबंधन ने संकेत दिया है कि वह पाला बदलने के इच्छुक पारस या किसी अन्य राजग सहयोगी का स्वागत करेगा, इसपर कटाक्ष करते हुए सिन्हा ने कहा, किसी भी पार्टी के लिए उनके साथ गठबंधन करना आत्मघाती होगा। उस गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पिछले लोकसभा चुनाव मे एक भी सीट नही जीत पाई थी। इस बीच जदयू ने भी एक बयान जारी कर पारस से महागठबंधन के साथ नही जाने का आग्रह किया है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार ने कहा कि पारस को यह ध्यान रखना चाहिए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह पाकर उन्हें जो सम्मान मिला है, वह बिहार के लोगो का एक कर्ज़ है।

भारतीय बीमा उद्योग में आ रहा है बदलाव

मुंबई। भारत में बीमा उद्योग जी-20 देशों में सबसे तेज़ी से बढ़ने का अनुमान है। 2024 और 2028 के बीच प्रीमियम औसतन 7.1प्रतिशत की दर से बढ़ेगा। वर्तमान में देश की केवल चार प्रतिशत आबादी ही बीमा के दायरे में है, जो कि विश्व में सात प्रतिशत के औसत से काफी कम है। पीबीपार्टनर्स का पीओएसपी मॉडल भारत में बीमा के परिवेश में एक नया व क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है। यह खासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों में काफी कारगर है, जहाँ अभी भी बीमा की पहुँच कम है। पीबीपार्टनर्स के चीफ बिज़नेस ऑफिसर (सीबीओ), ध्रुव सरीन ने बताया पीबीपार्टनर्स के पीओएसपी मॉडल में एजेंट पार्टनर व्यक्तिगत स्पर्श और टेक्नोलॉजी पर आधारित प्रक्रियाओं की मदद से व्यक्ति के लिए अनुकूलित सेवाओं की मांग को पूरा करते हैं। पिछले समय में, टियर-2 और टियर-3 शहरों में बीमा सेवाओं का वही स्तर नहीं मिला है जैसा कि मेट्रो इलाकों में मिलता है। इन इलाकों में बीमा के विस्तार का लक्ष्य रखते हुए यह मॉडल दो मुख्य रणनीतियों द्वारा पूरा करता है, पहली, एजेंट पार्टनर्स को व्यापक प्रशिक्षण देकर और दूसरी, उन्हें अत्याधुनिक तकनीक से लैस करके। हम इन दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश करने के प्रति समर्थ हैं। एजेंट पार्टनर्स को सशक्तिकरण केवल उनके लाभ के लिए ही नहीं है बल्कि यह ग्राहक अनुभव को भी बेहतर बनाता है। पीबीपार्टनर्स उत्तर प्रदेश में लगभग 20,000 एजेंट पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं। पीबीपार्टनर्स के एजेंट्स पार्टनर्स उत्तर प्रदेश में पॉलिसियों की बिक्री लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। इस साल पीबीपार्टनर्स का लक्ष्य अपने नेटवर्क को और अधिक बढ़ावा देना तथा नए उद्योग रुझानों एवं उत्पादों के बारे में अपने एजेंट्स पार्टनर्स को लगातार प्रशिक्षण देते रहना है, ताकि वो नए बाजारों और उद्योग की समझ विकसित करते रहें। पीओएसपी एजेंट पार्टनर विभिन्न उत्पाद बेचने के लिए प्रशिक्षित होते हैं, जिससे आय अर्जित करने की उनकी क्षमता भी बढ़ जाती है। पीओएसपी मॉडल में टेक्नोलॉजी की एक अहम भूमिका है। यह एजेंट पार्टनर्स को प्रभावशाली और पारदर्शी बीमा सेवाएं प्रदान करने में समर्थ बनाती है।

केरल में आरएसएस नेता की हत्या के मामले में एनआईए ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने केरल में 2022 में राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) के एक नेता श्रीनिवासन की हत्या के मुख्य आरोपी शफीक को गिरफ्तार किया है। एक आधिकारिक बयान मे मंगलवार को यह जानकारी दी गई।बयान के मुताबिक, 16 अप्रैल, 2022 को पलक्कड़ मे श्रीनिवासन की हत्या के बाद से शफीक फरार था, जिसे एनआईए की एक टीम ने राज्य के कोल्लम जिले से ढूंढ निकाला। एनआईए ने बयान मे बताया कि मामले मे आरोपी की संलिप्तता के लिए सोमवार को आतंकवाद निरोधक एजेंसी ने उसे हिरासत में लिया। बयान के मुताबिक, शफीक प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) का एक प्रमुख सदस्य था, जो पिछले काफी समय से फरार था।हत्या की साजिश रचने के हिस्से के रूप मे कुल 71 लोगो की पहचान की गई है और एनआईए पहले ही दो आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है।एनआईए ने पिछले साल 17 मार्च और छह नवंबर को आरोपपत्र दाखिल किया था।केरल के मलप्पुरम जिले का रहने वाला शफीक पीएफआई का एक प्रमुख सदस्य था, जिसने श्रीनिवासन की हत्या को अंजाम दिया था।

गर्मियां आते ही ठंडी वस्तुओं की मांग बढ़ेगी

मुंबई। गर्मी आते ही ठंडी वस्तुओं की मांग बढ़ने की संभावना है। इसी के तहत क्रोमा ने अपने गर्मियों की सेल अभियान की घोषणा की है जो मई 2024 तक जारी रहेगा। गर्मी की शुरुआत के साथ, यह बहुप्रतीक्षित गर्मियों की सेल ग्राहकों के लिए अपने घरों को बढ़ते तापमान से बचाने और शानदार डील तथा भुगतान में आसानी के साथ ताज़ातरीन उपकरणों से लैस करने का सही अवसर प्रदान करती है। ग्राहक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ला सकते हैं और नया एसी घर ले जा सकते हैं। ग्राहक आकर्षक एक्सचेंज और अपग्रेड विकल्प, कैशबैक ऑफर और 24 महीने तक की लचीली ईएमआई योजनाओं के साथ 250 एयर कंडीशनर, 300 रेफ्रिजरेटर, रूम कूलर और पंखों की व्यापक रेंज पर 45,हजार रुपये तक के लाभ और अन्य फायदों का आनंद ले सकते हैं। इस ऑफर में इन्वर्टर स्प्लिट एसी शामिल हैं जिनकी कीमत केवल 24,990 रुपये से शुरू होती है, जो आपके घर को ठंढा और आरामदायक रखने का एक किफायती तरीका प्रदान करते हैं,और एसी पर 6500 रुपये तक का एक्सचेंज लाभ भी है। क्रोमा साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर के साथ, बिना किसी अतिरिक्त लागत के क्रोमा कॉ फी मेकर मिलेगा।

रफह में इजराइल के सैन्य अभियान की आशंका से बहुत चिंतित हूं : बाइडन ने नेतन्याहू से कहा

भाषा। वाशिंगटन

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा है कि वह इजराइल द्वारा गाजा सिटी और खान यूनिस की तरह ही रफह में बड़ा सैन्य अभियान चलाए जाने की आशंका से काफी चिंतित हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने यह जानकारी दी।

सुलिवन ने सोमवार को अपने नियमित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि नेतन्याहू सोमवार को बाइडन के साथ फोन पर हुई बातचीत में दक्षिणी गाजा के रफह शहर में हमास आतंकवादियों को निशाना बनाने के लिए किसी वैकल्पिक तरीके और जमीनी स्तर पर बड़ा हमला किए बगैर मिस्र-गाजा सीमा को सुरक्षित बनाने पर चर्चा करने के लिए इजराइली अधिकारियों का एक दल वाशिंगटन भेजने पर राजी हो गए।

यह एक महीने में पहली बार है जब दोनों नेताओं ने फोन पर बात की है। सुलिवन ने बताया कि बाइडन और नेतन्याहू ने रफह को लेकर विस्तार से चर्चा की।

उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ने बताया कि वह इजराइल द्वारा गाजा सिटी और खान यूनिस की तरह ही रफह में बड़ा सैन्य अभियान चलाने की आशंका को लेकर वह क्यों इतने चिंतित हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने बताया कि 10 लाख से अधिक लोगों ने रफह में शरण ली है। उन्होंने कहा कि वे गाजा सिटी से खान यूनिस और फिर रफह गए, अब उनके पास कोई सुरक्षित जगह नहीं है। उन्होंने बताया कि गाजा के अन्य प्रमुख शहरों को बड़े पैमाने पर तबाह कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि इजराइल ने अमेरिका या दुनिया को यह योजना नहीं बताई है कि वह कैसे या कहां उन नागरिकों को सुरक्षित स्थानांतरित करेगा।

सुलिवन ने कहा कि रफह मिस्र से गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने का प्रमुख प्रवेश बिन्दु है और शहर में सैन्य अभियान से यह बंद हो जाएगा।

उन्होंने कहा, रफह मिस्र के साथ लगती सीमा पर स्थित है और मिस्र ने वहां एक बड़े सैन्य अभियान को लेकर गहरी चिंता जताई है तथा इसके परिणामस्वरूप इजराइल के साथ भविष्य में अपने संबंधों को लेकर सवाल भी उठाए हैं।

उन्होंने कहा, हमारा मानना है कि हमास को रफह या कहीं और पनाह न दी जाए। लेकिन वहां एक बड़ा जमीनी अभियान चलाना गलती होगी। इससे कई निर्दोष जान जाएंगी, पहले से ही गंभीर मानवीय संकट और बढ़ेगा, गाजा में अराजकता बढ़ेगी तथा इजराइल अंतरराष्ट्रीय रूप से और अलग-थलग होगा।

सुलिवन ने बताया कि दोनों नेताओं ने गाजा में हमास तथा अन्य आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के बदले में कई हफ्तों के लिए तत्काल संघर्ष विराम को लेकर चल रही बातचीत पर भी चर्चा की।

बाइडन ने इजराइल की दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि इजराइल को हमास पर हमले करने का अधिकार है जिसने नरसंहार के बाद से यहूदी लोगों पर सबसे वीभत्स हमला किया है।

सर्जरी के बाद पहली बार केट और प्रिंस विलियम सार्वजनिक रूप से दिखे

एपी। लंदन

प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी कैथरीन का उनके विंडसर स्थित घर के पास एक दुकान का वीडियो सामने आया है जो दो महीने पहले केट की पेट की सर्जरी के बाद उनका यह पहला फुटेज है।

द सन अखबार की खबर में यह जानकारी देते हुए बताया गया है कि लंदन के पश्चिम में विंडसर में यह वीडियो शनिवार को बनाया गया।

अखबार ने सोमवार को एक छोटा क्लिप जारी किया जिसमें विलियम और केट को मुस्कराते हुए, हाथ में खरीदे गए सामान के थैले लेकर चलते हुए देखा जा सकता है।

द सन ने वीडियो बनाने का दावा करने वाले नेल्सन सिल्वा नामक व्यक्ति के हवाले से कहा, केट खुश दिख रही थीं। हालांकि, दोनों के केनसिंगटन पैलेस स्थित कार्यालय ने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है।

पैलेस ने कहा कि केट (42) ईस्टर के बाद आधिकारिक कामकाज संभालेंगी।

इससे पहले उनकी सार्वजनिक गैर-मौजूदगी को लेकर तरह-तरह की अफवाहें चल रही थीं। पैलेस ने इस बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की थी, लेकिन कहा था कि केट की समस्या कैंसर से संबंधित नहीं है।

हांगकांग में नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित

सरकार को असहमति पर अंकुश लगाने की अधिक शक्ति दी

एपी। हांगकांग

हांगकांग की विधायिका ने मंगलवार को एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया जो सरकार को असहमति खत्म करने की अधिक शक्ति प्रदान करता है। इसे 2019 में लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों के कारण हुई व्यापक राजनीतिक कार्वाई के नवीनतम कदम के रूप में देखा जा रहा है।

विधायिका ने मंगलवार को एक विशेष सत्र के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सुरक्षा कानून पारित किया। यह चार साल पहले चीन द्वारा लागू एक ऐसे ही कानून से भी कठोर है, जिसने वित्तीय केंद्र में विपक्षी आवाजों को काफी हद तक खामोश कर दिया है।

हांगकांग की विधान परिषद में चुनावी बदलाव के बाद चीन के प्रति निष्ठा रखने वालों का दबदबा है। विधाई परिषद ने विरोधी आवाज को दबाने वाले काननू को लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। आठ मार्च को विधेयक पेश किया गया था। हांगकांग के नेता जॉन ली द्वारा कानून को पूरी गति से से आगे ले जाने की अपील के बाद एक समिति ने एक सप्ताह तक दैनिक बैठकें कीं।

कानून में कई प्रकार की उन कार्वाइयों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है जिन्हें अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। इनमें सबसे गंभीर देशद्रोह और विद्रोह है। इनमें आजीवन कारावास तक की सजा भी शामिल है। देशद्रोही किताब या सामग्री रखने सहित छोटे अपराधों के लिए भी कई वर्षों की जेल हो सकती है। कुछ प्रावधान दुनिया में कहीं भी किए गए कृत्यों के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने की अनुमति देते हैं।

आलोचकों ने चिंता जताई है कि नया कानून नागरिक स्वतंत्रता को और कमजोर कर देगा जिसे चीन ने तब 50 वर्षों तक संरक्षित करने का वादा किया था जब 1997 में पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश चीनी शासन में वापस आया था।

फ़लस्तीन के भावी प्रधानमंत्री ने सुधार की योजनाएँ बनाईं लेकिन बाधाओं का करना पड़ेगा सामना

एपी। रामल्ला (पश्चिमी तट)

फलस्तीन के भावी प्रधानमंत्री ने मंगलवार को कहा कि वह गाजा के पुनर्निर्माण की देखरेख के लिए प्रौद्योगोकी में निपुण लोगों को सरकार में नियुक्त करेंगे और एक स्वतंत्र न्यास कोष स्थापित करेंगे।

एसोसिएटेड प्रेस को मिले एक मिशन वक्तव्य के मुताबिक, मोहम्मद मुस्तफा ने अमेरिका द्वारा बुलाई गई बैठक में संघर्ष के समाधान के तौर पर युद्ध के बाद के फलस्तीनी प्राधिकरण (पीए) के लिए व्यापक योजनाएं पेश कीं। हालांकि, पीए के पास गाजा में कोई शक्ति नहीं है क्योंकि वहां 2007 से ही हमास सत्ता में है और केवल इजराइल के कब्जे वाले पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों तक उसका अधिकार सीमित है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में पीए की किसी भी वापसी से इनकार किया है और उनकी सरकार फलस्तीन को देश का दर्जा देने की घोर विरोधी है।

फलस्तीनी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने पिछले सप्ताह मुस्तफा को प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया था। अमेरिका में शिक्षित अर्थशास्त्री और लंबे समय तक अब्बास के सलाहकार रहे मुस्तफा एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं जिनका कोई राजनीतिक आधार नहीं है।

मिशन के बयान के मुताबिक, मुस्तफा ने कहा कि वह एक गैर-दलीय, तकनीकी लोकतांत्रिक सरकार नियुक्त करेंगे जो हमारे लोगों का विश्वास और अंतरराष्ट्रीय समुदाय का समर्थन दोनों हासिल कर सके। उन्होंने पीए संस्थानों में व्यापक सुधार और भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति का वादा किया।

उन्होंने कहा कि वह क्षेत्रों को फिर से एकीकृत करने और गाजा के पुनर्निर्माण के लिए एक स्वतंत्र, सक्षम और पारदर्शी एजेंसी और आवश्यक धन जुटाने, प्रबंधन और वितरण के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रबंधित एक न्यास कोष बनाने की कोशिश करेंगे।

दृष्टिकोण बयान में हमास का कोई उल्लेख नहीं किया गया, जिसने पिछली बार 2006 में फलस्तीनियों के राष्ट्रीय चुनावों में भारी जीत हासिल की थी। सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि उसे अभी भी अहम समर्थन प्राप्त है। पीए पर समग्र नियंत्रण रखने वाले अब्बास (88 वर्षीय) 2009 में जनादेश का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से सत्ता में बने हुए हैं और उन्होंने इजराइली प्रतिबंधों का हवाला देते हुए चुनाव कराने से इनकार कर दिया है। सर्वेक्षणों के मुताबिक, फलस्तीनियों का एक बड़ा धड़ा चाहता है कि वह इस्तीफा दे दें।

मुस्तफा ने कहा कि पीए का लक्ष्य राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव कराना है, लेकिन उन्होंने कोई समय सीमा नहीं दी। भावी प्रधानमंत्री ने कहा कि यह गाजा, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम में जमीनी वास्तविकताओं पर निर्भर करेगा, जिन क्षेत्रों पर इज़राइल ने 1967 के पश्चिम एशिया युद्ध के बाद कब्जा कर लिया था।

यूक्रेन में अपने आक्रमण से पीछे नही हटेगा रूस, बफर जोन बनाएगा: पुतिन

एपी। मॉस्को

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद कहा कि मॉस्को यूक्रेन में अपने आक्रमण से पीछे नहीं हटेगा और उसकी यूक्रेन के लंबी दूरी के और सीमा पार हमलों से रक्षा करने के लिए एक बफर जोन बनाने की योजना है।

रूस की सेना ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में प्रगति की है लेकिन यह प्रगति धीमी रही है और महंगी साबित हुई है। यूक्रेन ने रूस में तेल रिफाइनरी और डिपो को निशाना बनाने के लिए अपने लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन में स्थित क्रेमलिन के प्रतिद्वंद्वियों के एक समूह ने सीमा पार हमले भी शुरू किए हैं।

पुतिन ने रविवार देर रात कहा, हम जरूरी होने पर यूक्रेनी सरकार द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों पर कुछ सुरक्षित क्षेत्र बनाने पर विचार करेंगे।



पुतिन ने कहा कि इस सुरक्षित क्षेत्र (बफर जोन) में दुश्मन के पास उपलब्ध विदेशी हथियारों का इस्तेमाल कर घुसना मुश्किल होगा।

रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग ने सोमवार को कहा था कि देश में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में व्लादिमीर पुतिन ने जीत दर्ज की है और उन्होंने रिकॉर्ड मत प्रतिशत के साथ राष्ट्रपति पद का पांचवां कार्यकाल हासिल किया है।

पुतिन ने पश्चिमी देशों को यूक्रेन में सैन्य बलों को तैनात करने के खिलाफ एक बार फिर चेतावनी दी। उन्होंने आगाह किया कि रूस और नाटो के बीच एक संभावित संघर्ष से दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से महज एक कदम पीछे रह जाएगी।

गौरतलब है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हाल में कहा था कि यूक्रेन में पश्चिमी सेना भेजने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

कीव के साथ शांति वार्ता की संभावनाओं पर पुतिन ने दोहराया कि रूस बातचीत के लिए तैयार है लेकिन वह ऐसे युद्धविराम के झांसे में नहीं आएगा जिससे यूक्रेन को फिर से हथियारबंद होने में मदद मिले।

श्रीलंका : विक्रमसिंघे ने मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी करने के निर्देश दिए

भाषा। वाशिंगटन

श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने अपने मंत्रिमंडल को इस साल के उत्तरार्द्ध में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश ऐसे समय दिया गया है, जब नकदी संकट से जूझ रहा देश अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से उबरने का प्रयास कर रहा है। अगले राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग को सितंबर तक करनी है और नवंबर के मध्य तक मतदान संपन्न कराना है। संसद का कार्यकाल अगस्त 2025 में पूरा होगा, लेकिन राष्ट्रपति विक्रमसिंघे के पास अगस्त 2020 में निर्वाचित 225 सदस्ईय असेंबली को भंग करके चुनाव किसी भी समय आयोजित करने की शक्ति है। समाचार पोर्टल डेली मिरर ने सूत्रों के हवाले से मंगलवार को बताया कि अटकलों को समाप्त करते हुए , विक्रमसिंघे ने सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान घोषणा की कि पहले राष्ट्रपति चुनाव होगा और चुनाव के लिए तैयारी करने का निर्देश दिया। विक्रमसिंघे (74)ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि पहले राष्ट्रपति चुनाव होना चाहिए और उसके अनुसार व्यवस्था की जाएगी। श्रीलंका के 2022 में गंभीर आर्थिक संकट में फंसने के बाद यह पहला चुनाव होगा। आर्थिक रूप से संकटग्रस्त देश, खाद्य पदार्थ और ईंधन जैसी आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी से जूझ रहा है, और इसे दिवालिया घोषित किया जा सकता है। दिवालिया घोषित होने के बाद देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसकी वजह से तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा और अंततः अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा।

किम जोंग उन ने सियोल को निशाना बनाने वाली प्रणाली के अभ्यास का निरीक्षण किया

एपी। सियोल

उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने परमाणु आयुद्ध ले जाने में सक्षम उन रॉकेट को दागे जाने के अभ्यास का निरीक्षण किया जिन्हें कथित तौर पर दक्षिण कोरिया की राजधानी को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।

सरकारी मीडिया की खबर के मुताबिक, किम ने प्रतिद्वंद्वियों से बढ़ते टकराव के मद्देनजर अपने युद्ध निवारक उपाय बढ़ाने का संकल्प लिया है।

इससे एक दिन पहले दक्षिण कोरिया और जापान की सेनाओं ने कहा था कि उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तटीय क्षेत्र की ओर कम दूरी की कई बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं।

उत्तर कोरिया ने सोमवार को जिन तीन प्रणालियों का परीक्षण किया है कि उनमें 600 मिमी बहु रॉकेट प्रक्षेपक भी शामिल है जो सामरिक परमाणु हथियार पहुंचाने में सक्षम है।

उत्तर कोरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी (केसीएनए) द्वारा प्रकाशित फोटो में दिख रहा है कि प्रक्षेपण वाहन से एक साथ कम से कम छह रॉकेट दागे गए।

केसीएनए ने कहा कि इसके बाद उत्तर कोरियाई सैनिकों ने अलग परीक्षण भी किया, जिसमें तोप से दागे गए गोले से पूर्व-निर्धारित उंचाई पर बीच हवा में विस्फोट कराया गया।

किम ने 600 मिमी बहु रॉकेट प्रक्षेपक को अपने शस्त्रागार का प्रमुख हिस्सा बताया, जो कोरियाई प्रायद्वीप में एक और युद्ध छिड़ने पर दक्षिण कोरियाई राजधानी सियोल को नष्ट करने में सक्षम है। केसीएनए के मुताबिक, "(किम ने) कहा कि दुश्मनों को यह समझाना जरूरी है कि अगर सशस्त्र संघर्ष और युद्ध छिड़ जाता है, तो वे विनाशकारी परिणामों से कभी नहीं बच सकते।

सिलिकॉन वैली के भारतीय-अमेरिकी पेशेवरों ने प्रधानमंत्री मोदी की जीत के लिए हवन किया

भाषा। वाशिंगटन

सिलिकॉन वैली के भारतीय-अमेरिकी तकनीकी पेशेवरों ने भारत में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जीत के लिए एक मंदिर में विशेष हवन कराया।

ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी (ओएफबीजेपी) और यूएसए सैन फ्रांसिस्को बे एरिया चैप्टर द्वारा आयोजित हवन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।

एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह केवल एक अनुष्ठान नहीं था बल्कि अधिकांश भारतीयों और प्रवासी भारतीयों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक सामूहिक आह्वान था।

ओएफबीजेपी ने कहा कि भारतीय समुदाय आगामी संसदीय चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की निर्णायक जीत की प्रार्थना करने के लिए एक साथ आया और अबकी बार, 400 पार का नारा दोहराया।

उसने कहा, यह आध्यात्मिक सभा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गहरी आस्था और भारत में निरंतर प्रगति और शासन में सुधारों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भारत में 19 अप्रैल से एक जून तक सात चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। नतीजों की घोषणा चार जून को की जाएगी।

पंजाब सरकार की बैठकों की अध्यक्षता कर नवाज शरीफ ने विवाद खड़ा किया

भाषा। लाहौर

पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज़ (पीएमएल-एन) के शीर्ष नेता नवाज़ शरीफ ने पंजाब सरकार की तीन प्रशासनिक बैठकों की अध्यक्षता कर विवाद खड़ा कर दिया है, क्योंकि उनके पास प्रांतीय या संघीय सरकार में कोई भी पद नहीं है। पाकिस्तान के तीन बार प्रधानमंत्री रहे शरीफ पिछले महीने हुए आम चुनाव चुनाव के बाद से सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखे थे।



डॉन अखबार की खबर के मुताबिक, शरीफ ने सोमवार को उनकी बेटी मरयम नवाज़ के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की तीन बैठकों की अध्यक्षता की। बैठक के बाद जारी किए गए बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज़ पार्टी के शीर्ष नेता ने भूमिगत ट्रेन और मेट्रो बस समेत विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, किसानों की दुर्दशा, छात्रों के लिए इलेक्ट्रिक बाइक और रमज़ान राहत पैकेज के संबंध में मंत्रियों तथा अधिकारियों को निर्देश जारी किए। शरीफ के इन बैठकों की अध्यक्षता से कई सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि उनके पास प्रांतीय या संघीय सरकार में कोई आधिकारिक पद नहीं है और वह सिर्फ नेशनल असेंबली के सदस्य हैं।

दो भारतीय अपराधियों को नेपाल में गिरफ्तार किया

भाषा। काठमांडू

दक्षिणी नेपाल में कथित तौर पर डकैती करने के प्रयास में अधिकारियों ने दो भारतीय अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं।

दोनों अपराधियों को दक्षिणी नेपाल के सरलाही जिले से गिरफ्तार किया गया।

जिला पुलिस कार्यालय सरलाही के अनुसार, संदिग्धों की पहचान मोतिहारी के रहने वाले जितेंद्र राउत और उनके साथी शनि सिंह के रूप में हुई है। सोमवार को पुलिस ने उन्हें कथित तौर पर डकैती करने के प्रयास में गिरफ्तार किया था।

अपराधी पुलिस को देखकर भागने की फिराक में थे लेकिन पुलिस को उन्हें पकड़ने के लिए गोली चलानी पड़ी।

उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के दौरान पुलिस की गोली से राउत के घुटने में चोट लग गई। फिलहाल मलंगवा के प्रांतीय अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपी भारत में अपहरण और लूटपाट के लगभग एक दर्जन मामलों में वांछित थे। पुलिस ने मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है।

अमेरिकी सीनेटर ने सीएए पर चिंता व्यक्त की

भाषा। वाशिंगटन

अमेरिका के एक सीनेटर ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू करने के वास्ते भारत सरकार द्वारा नियमों को अधिसूचित किए जाने पर चिंता जताते हुए कहा है कि जैसे-जैसे अमेरिका-भारत संबंध गहराते जा रहे हैं, यह अहम है कि सहयोग धर्म से परे सभी के मानवाधिकारों की रक्षा के साझा मूल्यों पर आधारित हो।

भारत सरकार ने पिछले हफ्ते नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 का लागू कर दिया था जिससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के ऐसे गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है जिनके पास दस्तावेज़ नहीं हैं और वे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए थे।

भारत सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा था कि इससे भारतीय मुस्लिमों को चिंतित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीएए उनकी नागरिकता प्रभावित नहीं करता है और समुदाय का इससे कुछ लेना-देना नहीं जिनके पास हिंदुओं के समान ही अधिकार हैं।

सीनेट की शक्तिशाली विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष सीनेटर बेन कार्डिन ने कहा, मैं विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम को अधिसूचित करने के भारत सरकार के फैसले से, खासकर भारत के मुस्लिम समुदाय पर इस कानून के संभावित प्रभाव से बहुत चिंतित हूं। मामले को बदतर बनाने वाली बात यह है कि इसे रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान लागू किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, जैसे-जैसे अमेरिका-भारत संबंध गहराते जा रहे हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमारा सहयोग धर्म से परे सभी व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा के हमारे साझा मूल्यों पर आधारित हो।

पिछले हफ्ते अमेरिका के विदेश विभाग ने भी सीएए को अधिसूचित करने को लेकर चिंता जताई थी और कहा था कि धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान और सभी समुदायों के लिए कानून के तहत समान व्यवहार मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं।

भारत ने अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा सीएए की आलोचना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि यह "गलत सूचना पर आधारित और अनुचित" है।

एक अलग बयान में, हिंदू पॉलिसी रिसर्च एंड एडवोकेसी कलेक्टिव (हिंदूपैक्ट) और ग्लोबल हिंदू हैरिटेज फाउंडेशन ने सीएए का समर्थन किया है।

इन संगठनों ने कहा कि इस कानून में भारत के पड़ोसी देशों के प्रताड़ित हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी अल्पसंख्यकों को त्वरित नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है।

उन्होंने कहा कि यह वैश्विक मानवीय सिद्धांतों के अनुरूप धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ व्यक्तियों और परिवारों की सुरक्षा के प्रति भारत के समर्पण को रेखांकित करता है।

हिंदूपैक्ट के संस्थापक और सह-संयोजक अजय शाह ने कहा, सीएए भारत के किसी भी नागरिक को प्रभावित नहीं करता है। इस कानून को गैर-धर्मनिरपेक्ष बताया जाना निराधार है। भारत के पड़ोसी देशों में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया जाता है।

उन्होंने कहा, अमेरिकियों के तौर पर, हम इस बात से निराश हैं कि अमेरिकी मूल्यों और प्रताड़ित लोगों के मानवाधिकारों के लिए खड़े होने के बजाय, हमारी सरकार ने इस मानवीय प्रयास का विरोध करने का फैसला किया है।

ग्लोबल हिंदू हैरिटेज फाउंडेशन के वीएस नायपॉल ने कहा, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 अल्पसंख्यकों की दुर्दशा से संबंधित है, जो हमारे पड़ोसी इस्लामी देशों में क्रूरता, उत्पीड़न, जबरन धर्मांतरण, हत्या, बलात्कार और सभी प्रकार के अत्याचारों का सामना कर रहे हैं, जहां धर्मनिरपेक्षता, शांति और मानवता का विचार टिक नहीं सकता है।

आसिफा भुट्टो ने पिता द्वारा खाली की गई सीट पर उपचुनाव के लिए भरा नामांकन

भाषा। इस्लामाबाद

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और दिवंगत प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की सबसे छोटी बेटी आसिफा भुट्टो ने सिंध प्रांत में नेशनल असेंबली की एक सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर देश की उथल-पुथल वाली राजनीति में कदम रखा है।

शहीद बेनजीराबाद जिले की एनए-207 सीट आसिफा के पिता आसिफ अली जरदारी के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई है। 31 वर्षीय आसिफा कुछ समय से पाकिस्तान की राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) के सह-अध्यक्ष और उनके पिता जरदारी ने आसिफा भुट्टो को उचित समय तक संसदीय राजनीति से दूर रखा था। आसिफ अली जरदारी ने 10 मार्च को पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इस शपथ समारोह में आसिफा भुट्टो भी मौजूद थीं। अब आसिफा पाकिस्तान की पहली महिला बनेंगी। आमतौर पर प्रथम महिला का पद राष्ट्रपति की पत्नी के पास होता है।

आसिफा ने सिंध प्रांत में शहीद बेनजीराबाद जिले के एनए-207 निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए रविवार को नामांकन पत्र दाखिल किया है। उनके पिता आसिफ अली जरदारी ने यह सीट जीती थी लेकिन राष्ट्रपति बनने पर उन्होंने यह सीट छोड़ दी थी।

आसिफा की मां और दिवंगत प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की साल 2007 में रावलपिंडी में एक बम विस्फोट और आत्मघाती हमले में मृत्यु हो गई थी। अपनी मां की मृत्यु के दौरान आसिफा किशोरी थीं और अपनी बड़ी बहन बख्तावर तथा भाई बिलावल की तुलना में भावनात्मक रूप से अधिक पीड़ित थीं। शहीद बेनजीराबाद जिले के एनए-207 निर्वाचन क्षेत्र के लिए 21 अप्रैल को उपचुनाव होंगे और इसमें आसिफा का जीतना लगभग तय है। संसद का हिस्सा बनकर वह अपनी पार्टी के साथ-साथ परिवार की राजनीति को भी मजबूत करेंगी।

आईपीएल के शुरुआती मैच में नहीं खेल पाएंगे सूर्यकुमार

फिटनेस मंजूरी नहीं

भाषा। मुंबई



स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) से फिटनेस मंजूरी मिलना बाकी है जिससे निश्चित है कि वह 24 मार्च को गुजरात टाइटन्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस के इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के शुरुआती मैच में नहीं खेल पाएंगे। दुनिया के नंबर एक टी20 बल्लेबाज सूर्यकुमार स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी के बाद उबरने और रिहैबिलिटेशन के लिए बेंगलुरु स्थित एनसीए में थे। दिसंबर से क्रिकेट से बाहर रहे सूर्यकुमार का मंगलवार को एनसीए में फिटनेस टेस्ट भी कराया गया लेकिन पीटीआई को लगता है कि इस 33 साल के खिलाड़ी के फिटनेस के आकलन की जरूरत है। मुंबई इंडियंस के 27 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, एक अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ और सात अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में उनकी भागीदारी बाद में तय की जाएगी। सूर्यकुमार ने मंगलवार को अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक अस्पष्ट संदेश पोस्ट किया जिसमें दिल टूटने वाली इमोजी बनी हुई थी।

सनराइजर्स हैदराबाद के पहले तीन नहीं खेलेंगे हसारंगा

कोलंबो। आल राउंडर वानिंदु हसारंगा को 22 मार्च से बांग्लादेश के खिलाफ शुरू हो रही दो टेस्ट मैच की श्रृंखला के लिए श्रीलंकाई टीम में शामिल किया गया है जिससे वह सनराइजर्स हैदराबाद के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के कम से कम पहले तीन मैच नहीं खेल पाएंगे। हसारंगा श्रीलंका के लिए चार टेस्ट मैच खेल चुके हैं और उन्होंने पिछले साल अगस्त में सफेद गेंद के क्रिकेट पर ध्यान लगाने के लिए लंबे प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी थी। लेकिन मंगलवार को इस 26 वर्षीय खिलाड़ी को श्रीलंका की 17 सदस्यीय टीम में चुना गया। पहला टेस्ट 22 से 26 मार्च तक सिलहट में और दूसरा टेस्ट 30 मार्च से तीन अप्रैल तक चटगांव में खेला जाएगा। सनराइजर्स हैदराबाद ने हसारंगा को 1.5 करोड़ रुपए के उनके आधार मूल्य में खरीदा था। आईपीएल का अभी दो हफ्ते का ही कार्यक्रम घोषित हुआ है जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद का सामना 23 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स से होना जबकि 27 मार्च को उसे हैदराबाद में मुंबई इंडियंस से खेलना है। फिर 31 मार्च को उसका सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। देखना होगा कि यह स्पिनर पांच अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ उपलब्ध होगा या नहीं।

फैसले करने में तेजी और सटीकता के लिए स्मार्ट रीप्ले प्रणाली शुरू करेगा आईपीएल

मुंबई। आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) चरण में फैसलों में तेजी और सटीकता लाने के लिए स्मार्ट रीप्ले प्रणाली शुरू की जाएगी। ईएसपीएन क्रिकइंफो के अनुसार टीवी अंपायर को हॉक आई प्रणाली के दो ऑपरेटरों से सीधे इनपुट मिलेंगे जो उनके साथ एक ही कमरे में बैठेंगे और मैदान पर लगे आठ हाई-स्पीड कैमरों से ली गई फोटो से मदद करेंगे। इस नई प्रणाली के अंतर्गत टीवी प्रसारण निर्देशक की भूमिका गैर जरूरी हो जाएगी जो अंपायर और हॉक-आई ऑपरेटरों के बीच सूचना आदान प्रदान करने का काम करता रहा है। नई प्रणाली टीवी अंपायर को पहले की तुलना में अधिक फोटो के विश्लेषण का मौका प्रदान करेगी और हॉक आई ऑपरेटरों के साथ उनकी बातचीत का सीधा प्रसारण भी करेगी ताकि दर्शकों को स्पष्ट रूप से फैसले के पीछे की प्रक्रिया समझ आ जाए। इस प्रणाली से अंपायर को विभिन्न कोण से अधिक और स्पष्ट फोटो देखने में मदद मिलेगी जिससे वे बाउंड्री की रस्सी के पास कैच, पीछे पकड़े गए कैच, पगबाधा, स्टंपिंग पर सटीक फैसला कर पाएंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने हाल ही में यहां चुनिंदा अंपायरों के लिए दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। इससे भारतीय और विदेशी अंपायरों सहित लगभग 15 अंपायर इस आईपीएल में स्मार्ट रीप्ले प्रणाली का इस्तेमाल करेंगे। द हंड्रेड प्रतियोगिता में इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने इसी तरह की रेफरल प्रणाली का प्रयोग किया था।

आईपीएल के जरिए एक दशक बाद कमेंट्री बॉक्स में वापसी करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के जरिए लगभग एक दशक बाद कमेंट्री बॉक्स में वापसी करने के लिए तैयार भारत के पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि इस लीग से केवल भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों की भी अपनी टी20 विश्व कप टीम के चयन में मदद मिलेगी। इस 60 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर को कमेंट्री किए हुए काफी समय बीत चुका है लेकिन वहां कमेंट्री बॉक्स में अपनी वापसी से तीन दिन पहले हमेशा की तरह उत्साहित हैं। सिद्धू ने कहा, क्रिकेट मेरा पहला प्यार है। अगर आपका शौक आपका पेशा बन जाए, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। एक बत्तख का बच्चा कभी तैरना नहीं भूलेगा, मैं कमेंट्री में उसी तरह उतरूंगा जैसे मछली पानी में उतरती है। सिद्धू ने कमेंट्री में अपनी खास पहचान बनाई थी लेकिन इसके बाद वह राजनीति में व्यस्त हो गए थे। अब वह आईपीएल के साथ अपनी पुरानी पारी शुरू करने के लिए तैयार हैं। आईपीएल के तुरंत बाद जून में अमेरिका और वेस्टइंडीज में टी20 विश्व कप खेला जाएगा। सिद्धू ने पीटीआई से कहा, आईपीएल विश्व कप के लिए माहौल तैयार करेगा। इस दौरान कोई अन्य क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं होगा। दुनिया की नजरें आईपीएल पर टिकी रहेंगी। इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने पर केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशी खिलाड़ी भी टी20 विश्व कप के लिए अपनी टीम में जगह बना सकते हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने पिछले टी20 विश्व कप के बाद इस प्रारूप में बहुत अधिक मैच नहीं खेले हैं लेकिन उनकी आगामी विश्व कप के लिए भारतीय टीम में चुने जाने की संभावना है। सिद्धू ने इन दोनों का टीम में चयन का समर्थन किया। इन दोनों को वहां उतरना पड़ेगा। वह क्रिकेट जगत के दिग्गज खिलाड़ी हैं। फॉर्म सुबह की ओस की तरह होती है जो कुछ समय के लिए रहती है लेकिन कौशल हमेशा बना रहता है। मैं कोहली को भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की सूची में शामिल करूंगा और इसका एकमात्र कारण उनकी फिटनेस है। उम्र बढ़ने के साथ वह अधिक फिट होते जा रहे हैं। तकनीकी तौर पर वह शानदार बल्लेबाज हैं तथा तीनों प्रारूप में खुद को ढालने कि उनकी क्षमता अद्भुत है। यही बात रोहित पर भी लागू होती है। सिद्धू ने भारतीय टीम के पिछले साल वनडे विश्व कप में प्रदर्शन के बारे में कहा, विश्व कप में उन्होंने बहुत अच्छा खेल दिखाया।

सम्यक के शतक से कल्पना सेमीफाइनल में

लखनऊ। मैन ऑफद मैच सम्यक त्रिवेदी-118 के उम्दा शतक के बाद धारदार गेंदबाजी की सहायता से कल्पना क्रिकेट फाउंडेशन ने द्वितीय तारा देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में गियर किकेट क्लब को 106 रन से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। गियर क्रिकेट ग्राउंड पर कल्पना क्रिकेट फाउंडेशन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 40 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 245 रन बनाए। आकाश रावत ने 35, सचिन सिंह ने 18 व हर्षित तिवारी ने 17 रन का योगदान किया। प्रदीप कुमार यादव ने 4 विकेट हासिल किए। जवाब में गियर क्रिकेट क्लब लक्ष्य का पीछा करते हुए 27.4 ओवर में 139 रन ही बना सका। सत्यम ने 59 रन बनाए। आकाश गुप्ता और हर्षित तिवारी ने में 29 रन देकर 3.3 विकेट हासिल किए।

सीनियर टीम की शैली से खेलो : मुख्य कोच मूसा

नई दिल्ली। भारत की अंडर-23 फुटबॉल टीम के मुख्य कोच नौशाद मूसा ने अपने खिलाड़ियों को स्पष्ट संदेश देते हुए सीनियर टीम के लक्ष्यों के अनुरूप खेलने की महत्ता पर जोर दिया ताकि उन्हे देश के लिए खेलने में कोई परेशानी नही हो। भारत की अंडर-23 टीम 22 और 25 मार्च को कुआलालंपुर में दो अभ्यास मैच में मलेशिया से भिड़ेगी जिसके लिए टीम यहां शिविर मे तैयारी में जुटी है। मूसा ने एआईएफएफ डॉट कॉम से कहा, हमारे लिए यह देखना अहम है कि सीनियर टीम क्या चाहती है और हमें इसी के अनुसार खेलना चाहिए। ए ही खिलाड़ी आखिर सीनियर टीम मे जाएंगे और खेलेंगे।

काउंटी चैंपियनशिप में फिर ससेक्स की तरफ से खेलेंगे उनादकट

होव। भारत के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट इस साल काउंटी चैंपियनशिप मे इंग्लैड के क्लब ससेक्स की तरफ से अंतिम पांच मैचों में खेलेंगे। भारत की तरफ से चार टेस्ट खेलने वाले 32 वर्षीय उनादकट ने पिछले सत्र मे ससेक्स की तरफ से काउंटी चैंपियनशिप में चार मैच में 11 विकेट लिए थे। उनकी टीम तब डिवीजन दो मे तीसरे स्थान पर रही थी। उनादकट ने भारत की तरफ से अपना आखिरी मैच पिछले साल वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच के रूप मे खेला था। सौराष्ट्र ने 2019-20 मे उनादकट की अगुवाई मे रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था। पिछले सत्र मे उनादकट ने लीस्टरशर के खिलाफ दूसरी पारी मे 6 विकेट लेकर अपनी टीम को 15 रन से जीत दिलाने में भूमिका निभाई थी और वह फिर से यह प्रदर्शन दोहराने के लिए प्रतिबद्ध है। उनादकट ने यहां जारी बयान में कहा, पिछले सत्र मे होव मे हमने लीस्टरशर के खिलाफ आखिरी दिन रोमांचक जीत दर्ज की थी और तब मुझे काउंटी क्रिकेट मे अपनेपन का एहसास हुआ था। पहले सत्र मे मेरा प्रदर्शन अच्छा रहा था और मै फिर से अपनी काउंटी टीम से जुड़ने को लेकर उत्साहित हूं।

चोट के कारण अमेरिका में मैत्री मैच नहीं खेल पाएंगे लियोनेल मेसी

ब्यूनस आयर्स (अर्जेंटीना)। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी दाहिने पांव की मांसपेशियों मे खिंचाव के कारण अमेरिका मे इस महीने होने वाले दो मैत्री मैचों मे नही खेल पाएंगे। अर्जेंटीना फुटबॉल संघ ने यह जानकारी दी। मेसी पिछले सप्ताह इंटर मियामी की तरफ से खेलते हुए चोटिल हो गए थे। अर्जेंटीना को शुक्रवार को फिलाडेल्फिया मे अल साल्वाडोर के खिलाफ मैच खेलना है जबकि इसके चार दिन बाद वह लॉस एंजेलिस मे कोस्टारिका का सामना करेगा। छत्तीस वर्षीय मेसी इन दोनों मैच मे नही खेल पाएंगे।

रोहित ने हार्दिक-बुमराह का भरपूर समर्थन किया : पार्थिव

आरसीबी के खिलाड़ी अभ्यास के दौरान कोहली का स्वागत करते

भाषा। मुंबई

पूर्व भारतीय क्रिकेटर पार्थिव पटेल ने मंगलवार को कहा की हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह जब आईपीएल में मुंबई इंडियंस की तरफ से संघर्ष कर रहे थे तब रोहित शर्मा ने उनका पूरा समर्थन किया था। पार्थिव ने रोहित के नेतृत्व कौशल की तुलना चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से की और कहा कि मुंबई के क्रिकेटर ने कभी कोई गलती नहीं की जबकि चेन्नई के कप्तान ने आईपीएल में अपने लंबे करियर के दौरान कुछ गलतियां की। पार्थिव ने मंगलवार को जिओ सिनेमा सेकहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने (रोहित) हमेशा अपने खिलाड़ियों का समर्थन किया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह हैं। बुमराह 2014 में मुंबई इंडियंस से जुड़े और 2015 तक उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। उन्होंने कहा, वे यहां तक की आधे सत्र के बाद उन्हें वापस भेजने पर विचार कर रहे थे लेकिन रोहित शर्मा को उनकी योग्यता पर भरोसा था और 2016 के बाद उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा। पार्थिव ने कहा, ऐसा ही हार्दिक पंड्या के साथ हुआ। वह 2015 में आया और लोकप्रिय बन गया। 2016 में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था लेकिन मुंबई इंडियंस ने उन पर भरोसा बनाए रखा। इस पूर्व विकेटकीपर ने रोहित शर्मा की कप्तानी की प्रशंसा भी की। मैच में जब तनावपूर्ण पल होते हैं तो कुछ गलत फैसले या गलतियां हो सकती हैं लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी की विशेषता यह है कि पिछले 10 वर्ष में उन्होंने कोई गलती नहीं की। यहां तक की धोनी ने भी गलतियां की लेकिन आपने रोहित को कभी गलती करते हुए नहीं देखा होगा।

गेंदबाजी एक्शन को देखते हुए बुमराह को सत्र के बीच आराम की जरूरत, वर्ना वह चोटिल होता रहेगा: मैक्ग्रा

चेन्नई। आस्ट्रेलिया के महान तेज गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्रा ने मंगलवार को चेताया कि जसप्रीत बुमराह को सत्र में ब्रेक की जरूरत है क्योंकि उनका गेंदबाजी एक्शन ऐसा है कि इस तेज गेंदबाज को और अधिक चोटें लग सकती है। बुमराह मार्च 2023 मे पीठ की स्ट्रेस फ्रेक्चर की सर्जरी कराने के बाद लंबे समय तक खेल से दूर रहे और सितंबर 2022 से पहले भी वह खेल से दूर ही थे। इस दौरान वह आस्ट्रेलिया में 2022 टी20 विश्व कप और आईपीएल 2023 मे भी नही खेल पाए थे। पिछले साल अगस्त मे वापसी करने वाले बुमराह ने आयरलैंड के तीन मैच के टी20 अंतरराष्ट्रीय दौरे पर भारतीय टीम की अगुआई की और 50 ओवर के विश्व कप में 20 विकेट झटके। मैक्ग्रा ने कहा कि उनका गेंदबाजी एक्शन जिस तरह का है, उसे और उनके कार्यभार को देखते हुए बुमराह को बीच में आराम की जरूरत है क्योंकि उनकी गेंदबाजी एक्शन में काफी प्रयास की जरूरत होती है। मैक्ग्रा ने यहां एमआरएफ पेस फाउंडेशन मे मीडिया से कहा, बुमराह जैसे गेंदबाज को सत्र के बीच मे आराम की जरूरत है क्योंकि वह प्रत्एक गेंद में काफी प्रयास करता है। उसे ब्रेक की जरूरत है। अगर वह खेलता रहा तो उसके गेंदबाजी एक्शन से उस पर जो दबाव बनता है, उसे देखते हुए उसका चोटिल होना लाजमी है जो वो पहले भी होता रहा है।

पर्थ में खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच : रिपोर्ट

मेलबर्न। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस साल के आखिर में होने वाली पांच टेस्ट मैचों की बहुप्रतीक्षित श्रृंखला का पहला मैच पर्थ में खेला जाएगा। सिडनी मार्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार इस श्रृंखला के बाकी मैच एडिलेड, ब्रिस्बेन, मेलबर्न और सिडनी में खेले जाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है, एडिलेड दूसरे टेस्ट मैच जबकि ब्रिस्बेन तीसरे टेस्ट मैच की मेजबानी करेगा। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच हर बार की तरह मेलबर्न में होगा जबकि नए साल पर दोनों टीम सिडनी में अंतिम मैच खेलेंगे। एडिलेड में खेले जाने वाला दूसरा मैच दिन रात्रि का होगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक अगले सत्र का कार्यक्रम जारी नहीं किया है लेकिन वह इस महीने के आखिर तक अंतिम घोषणा कर सकता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट श्रृंखला की शुरुआत इस साल नवंबर में हो सकती है। यह 1991-92 के बाद पहला अवसर होगा जबकि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में पांच टेस्ट मैच की श्रृंखला खेलेगी। इससे पहले 1991-92 में भारतीय टीम को 4-0 से हार का सामना करना पड़ा था। भारत ने जब 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था ।

विनेश और साक्षी ने प्रधानमंत्री से बृजभूषण जैसे लोगों को बाहर करने का आग्रह किया

नई दिल्ली। महिला पहलवान विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को खेलों से बाहर करने का आग्रह करते हुए भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) को प्रशासनिक अधिकार सौंपने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की कड़ी निंदा की। इन दोनों पहलवानो ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपनी पोस्ट में कड़े शब्दो का उपयोग किया है तथा प्रधानमंत्री से इस मामले मे हस्तक्षेप करने की अपील की है। यह दोनों उन प्रदर्शनकारी पहलवानो में शामिल थी जिन्होंने बृजभूषण पर महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। अगले महीने 50 किग्रा भार वर्ग मे ओलंपिक क्वालीफायर्स मे भाग लेने की तैयारी मे जुटी फोगाट ने पोस्ट किया, प्रधानमंत्री जी स्पिन मास्टर है, अपने प्रतिद्विदियों के भाषणों का जवाब देने के लिए महिला शक्ति का नाम लेकर बात को घुमाना जानते है। नरेंद्र मोदी जी, हम महिला शक्ति की असल सच्चाई भी जान लीजिए। एशियाई खेलो की स्वर्ण पदक विजेता ने आगे लिखा, महिला पहलवानों का शोषण करने वाला बृजभूषण फिर से कुश्ती पर काबिज हो गया है। उम्मीद है कि आप महिलाओं को बस ढाल बनाकर इस्तेमाल नही करेंगे, बल्कि देश की खेल संस्थाओं से ऐसे अत्याचारियों को बाहर करने के लिए भी कुछ करेंगे। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने भी कहा की कुश्ती महासंघ के पदाधिकारी ऐसा व्यवहार कर रहे है जैसे वे कानून से ऊपर है। साक्षी ने लिखा, इतिहास गवाह है (कि) इस देश की धरती पर सदियो से ताकतवर लोगो ने महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है।लेकिन संपन्न दुराचारी इतना ताकतवर है कि वो सरकार, संविधान और न्यायपालिका सबसे ऊपर है। सरकार द्वारा कुश्ती संघ को निलंबित करने के बाद बृजभूषण व संजय सिंह लगातार ए बयान देते रहे कि ए निलंबन सिर्फ एक दिखावा है, कुछ दिन बाद हम बहाल हो जाएंगे और सदा के लिए हमारा ही कुश्ती संघ पर क़ब्ज़ा रहेगा।

पेरिस ओलंपिक के अंतिम क्वालीफाइंग टूर्नामेंट के लिए चुनी गई 12 सदस्ईय टीम

नई दिल्ली। राष्ट्रमंडल खेलो की स्वर्ण पदक विजेता श्रेयसी सिंह, अनुभवी निशानेबाज मेराज अहमद खान और विश्व कप विजेता गनेमत सेखो को पेरिस ओलंपिक के लिए दोहा मे 19 से 29 अप्रैल तक होने वाले अंतिम क्वालीफाइंग टूर्नामेंट मे भाग लेने के लिए मंगलवार को चुनी 12 सदस्ईय शॉटगन टीम मे चुना गया। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआई) ने जुलाई अगस्त मे होने वाले ओलंपिक से पहले कई महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओ के लिए टीम की घोषणा की। दोहा मे होने वाली इस प्रतियोगिता मे चार कोटा दाव पर लगे होंगे जिसमें पुरूष और महिला टीम के लिए ट्रैप एवं स्कीट मे एक एक कोटा शामिल होगा। कोटा हासिल कर चुके निशानेबाजो को टूर्नामेंट से बाहर रखा गया है। तीन टीम की घोषणा की गई जिसमें पुरूष ट्रैप मे पृथ्वीराज टोंडाईमान और विवान कपूर जबकि महिला ट्रैप के लिए श्रेयसी और मनीषा कीर तथा मेराज और शीराज शेख पुरूष स्कीट और गनेमत और महेश्वरी चौहान महिला स्कीट मे शामिल होने वाले नियमित निशानेबाज है। पुरूषो की ट्रैप प्रतियोगिता के लिए जोरावर संधू, महिलाओ की ट्रैप मे नीरू, पुरूष स्कीट मे अंगद बाजवा और महिला स्कीट मे अरीबा खान को भी पेरिस कोटा हासिल करने का मौका मिलेगा। भारत ने अभी तक पेरिस ओलंपिक के लिए 19 कोटे हासिल कर लिए है। शॉटगन टीम ने अभी तक ओलंपिक के लिए सर्वाधिक संख्या (चार) मे कोटे जुटाए है।

कोहली ने भारत के लिए जो हासिल किया है वह उल्लेखनीय है: मंधाना

नई दिल्ली। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) की कप्तान स्मृति मंधाना का मानना है कि उनकी टीम की महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) मे खिताबी जीत के संदर्भ मे विराट कोहली की बेंगलुरु फ्रेंचाइजी के लिए हासिल की गई उपलब्धियो को कम करके आंकना गलत होगा। मंधाना की अगुवाई मे आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर डब्ल्यूपीएल के दूसरे सत्र मे ही चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया जबकि उसकी पुरूष टीम पिछले 16 वर्षो मे आईपीएल का खिताब जीतने मे नाकाम रही। इस दौरान लगभग एक दशक तक कोहली टीम के कप्तान रहे। मंधाना ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा, खिताब अलग चीज है लेकिन उन्होंने (कोहली) देश के लिए जो हासिल किया है वह उल्लेखनीय है। इसलिए मै अभी करियर के जिस मोड़ पर हूं और उन्होने जो कुछ हासिल किया है, उसे देखते हुए मुझे नही लगता की तुलना करना सही है। मै तुलना करना इसलिए सही नही मानती क्योंकि उन्होंने जो हासिल किया है उसका कोई सानी नही है। वह प्रेरणादाई व्यक्ति रहे है। एक खिताब कई चीजो को परिभाषित नही करता है। हम सभी उनका सम्मान करते है। मंधाना और कोहली दोनो 18 नंबर की जर्सी पहनते है और बाएं हाथ की बल्लेबाज ने कहा कि इस आधार पर दोनों के बीच तुलना करना सही नही है। मै इसे 18 नंबर की जर्सी की तुलना नही कहूंगी। जर्सी नंबर केवल व्यक्तिगत पसंद होती है।

हॉकी मणिपुर ने सीनियर महिला राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के क्वार्टरफाइनल के लिए क्वालीफाई किया

पुणे। हॉकी मणिपुर ने मंगलवार को यहां 14वी हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैम्पियनशिप 2024 के पूल जी मैच मे उत्तराखंड को 11-2 से हराकर क्वार्टरफाइनल मे प्रवेश किया। कर्नाटक ने पूल जी के एक अन्य मैच मे दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव हॉकी को 13-0 से हरा दिया। मंगलवार को ग्रुप चरण का समापन हुआ। सभी क्वार्टरफाइनल 20 मार्च को होंगे जिसमे पहले मध्य प्रदेश का सामना बंगाल से होगा जबकि मेजबान महाराष्ट्र की भिड़ंत दूसरे क्वार्टरफाइनल मे मणिपुर से होगी। तीसरे अंतिम आठ मुकाबले मे झारखंड का सामना मिजोरम से होगा जबकि चौथे क्वार्टरफाइनल में हरियाणा की टीम ओडिशा के सामने होगी। मणिपुर की यह तीन मैच मे तीसरी जीत थी जिससे टीम पूल जी मे शीर्ष पर रही।

ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 श्रृंखला स्थगित की

सिडनी। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान मे महिलाओ की खराब स्थिति का हवाला देते हुए इस साल अगस्त मे अफगानिस्तान की पुरूष टीम के खिलाफ होने वाली तीन टी20 मैच की घरेलू श्रृंखला स्थगित कर दी है। तालिबान ने अफगानिस्तान मे सत्ता मे लौटने के बाद लड़कियो के स्कूल और कॉलेज जाने पर रोक लगा दी। यही नही उसने महिला सहायता कर्मचारियो को काम करने से रोक दिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का आगामी श्रृंखला स्थगित करने का मतलब है कि उसने अफगानिस्तान को लेकर अपना कड़ा रवैया जारी रखा है। ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले नवंबर 2021 मे होबार्ट मे अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच को भी रद्द कर दिया था। इसके बाद उसने संयुक्त अरब अमीरात मे होने वाली तीन मैच की वनडे श्रृंखला भी स्थगित कर दी थी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बयान मे कहा, पिछले 12 महीनो मे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर ऑस्ट्रेलिया की सरकार के साथ परामर्श जारी रखा था। सरकार ने सलाह दी है कि अफगानिस्तान मे महिलाओ की स्थिति बदतर होती जा रही है। इस कारण हमने अपनी पूर्व की स्थिति को बरकरार रखा है और अफगानिस्तान के खिलाफ द्विपक्षीय श्रृंखला स्थगित कर देंगे। अफगानिस्तान आईसीसी का एकमात्र पूर्णकालिक सदस्य देश है जिसने दक्षिण अफ्रीका मे खेले गए अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप मे अपनी टीम नही भेजी थी क्योंकि देश ने महिलाओं पर क्रिकेट खेलने से रोक लगा दी है।

दिल्ली कैपिटल्स के लिए पंत के साथ मैच में जीत हासिल करना है युवा विकेटकीपर कुशाग्र का लक्ष्य

विशाखापत्तन। दिल्ली कैपिटल्स के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज के लिए आईपीएल अनुबंध मिलना ही सपना साकार होना था और अब वह ऋषभ पंत के साथ खेलने को बेताब हैं क्योंकि वह उन जैसे स्टार खिलाड़ियों को खेलते हुए देखकर ही बड़े हुए हैं। झारखंड के बोकारो के 19 साल के कुशाग्र ने 19 प्रथम श्रेणी मैच में 1245 रन बनाए हैं और इस समय वह टीम के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग की देखरेख में ट्रेनिंग कर रहे हैं। उन्हें फ्रेंचाइजी ने 7.2 करोड़ रुपए में खरीदा था। कुशाग्र के साथ आल राउंडर सुमित कुमार और अनुभवी घरेलू बल्लेबाज रिकी भुई टीम के नए खिलाड़ियों में शामिल हैं। दिल्ली कैपिटल्स द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा, मैं पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का हिस्सा बनकर बहुत उत्साहित हूं। मुझे इतने सारे बड़े अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलेगा। मेरा उद्देश्य टीम के लिए मैच जीतना होगा। मैंने पहली बार ऋषभ पंत के साथ बल्लेबाजी की और उन्होंने मेरे खेल के लिए काफी कुछ गुर दिए। वह एक हाथ से शॉट लगा रहे थे और छक्के जड़ रहे थे। वह गेंद अच्छी तरह हिट कर रहे थे, उम्मीद है कि हम दोनों मिलकर दिल्ली कैपिटल्स के लिए मैच जीतेंगे। सुमित को तीन साल के इंतजार के बाद आईपीएल अनुबंध मिला और इस 28 साल के इस खिलाड़ी ने 2019 में हरियाणा में प्रथम श्रेणी पदार्पण किया था। वहीं 27 वर्षीय भुई को लगता है कि वह सही समय पर लय में आ रहे हैं जो पहले सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल चुके हैं। उन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि घरेलू मैदान में मुझे आईपीएल खेलने को मिलेगा। मैं यहां की परिस्थितियों से वाकिफ हूं। अपने परिवार और दोस्तों के सामने खेलना शानदार होगा। मैं टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा मैच जीतना चाहूंगा। दिल्ली कैपिटल्स अपना पहला मैच 23 मार्च को चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलेगी।

पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम मे शामिल

भाषा। नई दिल्ली

भारत के महान क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने अपने चमकदार करियर में एक और उपलब्धि हासिल की जब उन्हें चीन के शंगराओ सिटी में विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। पिछले साल नवंबर में 38 साल के भारतीय स्टार आडवाणी ने हमवतन सौरव कोठारी को हराकर 26वां आईबीएसएफ (अंतरराष्ट्रीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर महासंघ) खिताब जीता था। आडवाणी ने कहा, मैं विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय में हॉल ऑफ फेम में शामिल होकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। इस शानदार यात्रा के दौरान मुझे जो प्यार और समर्थन मिला है, वो अद्भुत रहा है जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। मैं आभारी हूं कि अपने देश और पूरे बिलियर्ड्स समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मैं कड़ी मेहनत करना और खेल के प्रति अपने समर्पण को जारी रखूंगा और हर किसी को गौरवान्वित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा।

मियामी ओपन में पदार्पण मैच में जीते सुमित नागल

भाषा। नई दिल्ली

भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने मियामी ओपन में अपने पदार्पण मैच में कनाडा के गैब्रियल डायलो को सीधे सेटों में हराकर शानदार शुरूआत की। इस 26 वर्षीय खिलाड़ी ने गजब का धैर्य और जज्बा दिखाया तथा क्वालीफायर के पहले दौर में डायलो को 7-6(3) 6-2 से पराजित किया। पिछले महीने चेन्नई ओपन की जीत के बाद विश्व के शीर्ष 100 खिलाड़ियों में जगह बनाने वाले नागल अगले दौर में कोलमैन वोंग का सामना करेंगे। नागल ने पहले सेट को टाई ब्रेकर में जीतने के बाद दूसरे सेट में दबदबा बनाए रखा। उन्होंने इस सेट के पहले और सातवें गेम में डायलो की सर्विस तोड़ी। इस जीत से नागल अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 92वीं रैंकिंग पर पहुंच सकते हैं। नागल ने राफेल नडाल के अंतिम अवसर पर हटने के कारण अपने पिछले टूर्नामेंट इंडियन वेल्स के मुख्य ड्रॉ में जगह बनाई थी लेकिन तब वह पहले दौर में मिलोस राओनिच से हार गए थे। इस भारतीय खिलाड़ी ने जनवरी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन के दूसरे दौर में भी जगह बनाई थी। अपने इस प्रदर्शन के दम पर उन्हें एटीपी रैंकिंग में शीर्ष 100 में जगह बनाने में मदद मिली थी।

शरत ने 54 पायदान की छलांग लगाई, रैंकिंग में 34वें स्थान पर पहुंचे

नई दिल्ली। भारत के अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल ने पिछले हफ्ते सिंगापुर स्मैश के क्वार्टरफाइनल तक पहुंचने के शानदार प्रदर्शन की बदौलत मंगलवार को आईटीटीएफ विश्व रैंकिंग में 54 पायदान की छलांग लगाई जिससे वह 34वें स्थान पर पहुंच गए। शरत लंबे समय तक शीर्ष 50 में शामिल रहे थे लेकिन कुछ टूर्नामेंट के शुरूआती दौर में बाहर होने से उनकी रैंकिंग में गिरावट आई थी। इस साल अपने पांचवें और अंतिम ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले 41 वर्षीय शरत की करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 30 है। वह जुलाई अगस्त में ओलंपिक से पहले शीर्ष 16 में जगह बनाने की कोशिश करेंगे। शरत ने पीटीआई से कहा, सिंगापुर शानदार रहा था। अब ओलंपिक से पहले शीर्ष 16 में जगह बनाने की कोशिश करूंगा। हरमीत रैंकिंग में 65वें स्थान से दूसरे सर्वश्रेष्ठ भारतीय हैं। भारत ने टीम स्पर्धा में पहले ही ऐतिहासिक क्वालीफिकेशन हासिल कर लिया है ।

लक्ष्य ने रैंकिंग पांच पायदान की छलांग लगाई, 13वें स्थान पर पहुंचे

भाषा। नई दिल्ली

भारत के लक्ष्य सेन ने आल इंग्लैंड चैम्पियनशिप में शानदार प्रदर्शन के बूते मंगलवार को ताजा जारी बीडब्ल्यूएफ रैंकिंग में पांच पायदान की छलांग लगाई जिससे वह 13वें नंबर पर पहुंच गए। अल्मोड़ा के 22 साल के लक्ष्य बर्मिंघम में सेमीफाइनल तक पहुंचे थे और एक हफ्ते पहले 15वें स्थान में सुधार करने में सफल रहे। अप्रैल के अंत में दुनिया के शीर्ष 16 खिलाड़ी ओलंपिक में जगह बनाएंगे। विश्व चैम्पियनशिप और एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता एचएस प्रणय पेरिस की दौड़ में नौवें नंबर पर हैं और सेन के भी कट में जगह बनाने की उम्मीद है। सेन नवंबर 2022 में अपनी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग छह पर पहुंचे थे लेकिन पिछले साल अप्रैल में वह 25वें नंबर पर खिसक गए। अगस्त में वह 11वें स्थान तक पहुंच और फिर इस साल 20वें स्थान पर खिसक गए। अन्य खिलाड़ियों में किदाम्बी श्रीकांत 27वें और प्रियांशु राजावत 32वें स्थान पर हैं। महिला एकल में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू 11वें स्थान पर हैं। सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष युगल जोड़ी शीर्ष स्थान पर है जबकि अश्विनी पोनप्पा और तनीषा क्रास्टो 20वें स्थान पर काबिज हैं। त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद रैंकिंग में 26वें स्थान पर हैं।

सीएमवाईके प्रिंटेक लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक शोबोरी गाँगुली द्वारा 100के, मिलाप भवन, 8/ए, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष: 011-40110455 से प्रकाशित तथा बीएफएल इन्फोटेक लिमिटेड सी-9 सेक्टर-3, नोएडा-201301 (उ.प्र.) से मुद्रित। प्रधान संपादक : शोबोरी गाँगुली, स्थानीय सम्पादक: प्रदीप तिवारी। पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं। मुख्य व्यवसायिक कार्यालय- 201-205 द्वितीय मंज़िल, प्रताप भवन, 5,बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष:011-69342500।